

प्रेम के फूल

(१५० अमृत-पत्रों का संकलन)

आचार्य रजनीश

सम्पादक :

स्वामी योग चिन्मय

जीवन जागृति केंद्र प्रकाशन

प्रकाशक :

ईश्वरलाल नारायणजी शाह,
मंत्री, जीवन जागृति केन्द्र,
५३, एम्पायर बिल्डिंग,
१४६, डॉ० दादाभाई नवरोजी रोड
फोर्ट, बम्बई-१

प्रथम संस्करण :

दिसम्बर, १९७०

मूल्य : ५ रुपये

प्रेम - प्रस्तावना



प्रस्तुत पुष्प-पत्र “प्रेम के फूल” ही नहीं वरन् वे प्रार्थना के फूल भी हैं, समर्पण के फूल भी हैं, ध्यान के फूल भी हैं, समाधि के फूल भी हैं। इनमें आनंद के फूल भी हैं और मुक्ति के फूल भी।

इन प्रेम के फूलों का उद्गम-स्रोत कहां है ?

जो व्यक्ति परम आनंद, परम शांति, परम मुक्ति, परम निर्वाण को उपलब्ध होता है उसकी स्वांस-स्वांस से, रोयें-रोयें से, प्राणों के कण-कण से—एक संगीत, एक गीत, एक नृत्य, एक आह्लाद, एक सुगंध, एक आलोक, एक अमृत की प्रतिपल वर्षा होती रहती है। समस्त अस्तित्व उससे नहा उठता है। इस संगीत, इस गीत, इस नृत्य को कोई प्रेम कहता है, कोई आनंद कहता है, कोई शांति कहता है, कोई मुक्ति कहता है। लेकिन, वे सब एक ही सत्य को दिये गये अलग-अलग नाम हैं।

ऐसे ही एक व्यक्ति हैं—आचार्य रजनीश । जो मिट गये हैं, शून्य हो गये हैं, जो अस्तित्व व अनस्तित्व के साथ एक हो गये हैं । जिनकी स्वांस अंतरिक्ष की स्वांस हो गयी है, जिनके हृदय की धड़कनें चांद-तारों की धड़कनों के साथ एक हो गयी हैं । जिनकी आंखों में सूरज-चांद-सितारों की रोशनी देखी जा सकती है । जिनकी मुस्कराहटों में समस्त पृथ्वी के फूलों की सुगंध पायी जा सकती है । जिनकी वाणी में पक्षियों के प्रातः गीतों-सी निर्दोषता है । और जिनका सारा व्यक्तित्व ही एक कविता, एक नृत्य व एक उत्सव हो गया है ।

इस नृत्यमय, संगीतमय, सुगंधमय, आलोकमय व्यक्तित्व से प्रतिपल निकलने वाली प्रेम की, करुणा की लहरों के साथ जब कागज-कलम-पत्र व जिज्ञासा का संयोग हो उठता है तब ज्ञान-गंगा गंगोत्री से बह उठती है— उछलती—कूदती—इठलती—गाती—नाचती—कागज पर, पत्रों के रूप में— जीवन के सागर से मिलने के लिये ।

इन पत्रों में जीवन के, जगत् के, साधना के, उपासना के विविध रूपों व रंगों का स्पर्श है । इनमें पाताल की गहराइयां हैं और विराट अंतरिक्ष की ऊँचाइयां हैं । बहुत वार तो ये पत्र देश व काल की सीमा का भी अतिक्रमण कर जाते हैं, और अतिक्रमण के बाद जो महाशून्य और निःशब्द की अनुभूति शेष रह जाती है उसे शब्दों में ढालने का सफल-असफल प्रयास भी ये पत्र करते हैं ।

ये पत्र संक्षिप्त हैं, सूत्रवत् हैं, सीधे हैं, हृदय-स्पर्शी हैं— मीठे हैं, तीखे हैं और साथ ही पूरे व्यक्तित्व को झकझोरने व जगाने वाले भी हैं । इनमें केवल सिद्धांत, नीति व विचार-दर्शन (Philosophy) नहीं है, वरन् इनमें 'प्रायोगिक-साधना' की गहराइयां भी हैं ।

ये पत्र इशारे हैं—अनाम के, अरूप के, निःशब्द के । ये आपकी अज्ञात जीवन-यात्रा के लिये भी इशारे व पाथेय बन सकते हैं । और चूंकि ये पत्र साधकों, जिज्ञासुओं व प्रेम-रस-पियासुओं को व्यक्तिगत ढंग पर लिखे गये हैं इसलिए आप इनमें एक सूक्ष्म-पारदर्शी-निकटता व प्रेम-आलिंगन-सा-स्पर्श अनुभव करेंगे । ये छू जायेंगे आपके भी प्राणों को— गहरे— और गहरे— बहुत गहरे ।

पत्रों के शीर्षक संपादक की कलम से सहज ही निकल पड़े हैं । शायद वे पाठकों के किसी प्रकार सहयोगी हो सकें ।

अनुक्रम

	पृष्ठ
● प्रेम-प्रस्तावना ..	३
१. प्रेम के फूल ..	१३
२. प्रेम है प्रार्थना ..	१४
३. प्रेम का मंदिर— निर्दोष, सरल हृदय ..	१५
४. प्रेम की सुवास ..	१६
५. प्रेम के आंसू ..	१७
६. प्रेम की पूर्णता में अहं-विसर्जित ..	१८
७. प्रेम—एक से सर्व की ओर ..	१९
८. प्रेम संगीत है, सौंदर्य है अतः धर्म है ..	२०
९. प्रेम की मिठास ..	२२
१०. ढाई आखर प्रेम का ..	२३
११. प्यासी प्रतीक्षा—प्रेम की ..	२४
१२. जीवन की अखंडता ..	२५
१३. तेरें नहीं, वहें ..	२७
१४. कूद पड़ो—शून्य में ..	२८
१५. जीवन : जल पर खींची रेखा-सा ..	२९
१६. प्रतीक्षा ..	३०
१७. स्वयं डूबकर सत्य जाना जाता है ..	३१
१८. योग-अनुसंधान ..	३२
१९. नीति नहीं, योग-साधना ..	३३
२०. प्रयोग करें, परिणाम की चिंता नहीं ..	३४
२१. दर्शन का जागरण ..	३५
२२. बूंद सागर है ही ..	३६
२३. निद्रा में जागरण की विधि : जागृति में जागना ..	३७
२४. प्रज्ज्वलित अभीप्सा ..	३८

२५. साधना में धैर्य	..	३९
२६. प्रेम की वर्षा	..	४०
२७. जहाँ प्यास है वहाँ मार्ग भी है	..	४१
२८. साधना के लिए श्रम और संकल्प	..	४२
२९. प्रगाढ़ संकल्प	..	४३
३०. शांति और अशांति सब हमारे सृजन हैं	..	४४
३१. सेक्स-ऊर्जा का रूपांतरण	..	४५
३२. स्वयं की कील	..	४६
३३. वर्तमान में अशेष भाव से जीना	..	४७
३४. प्रेम के स्वर	..	४८
३५. अन्तर्मिलन	..	४९
३६. मौन अभिव्यक्ति	..	५०
३७. प्रार्थना और प्रतीक्षापूर्ण समर्पण	..	५१
३८. जीवन के अनंत रूपों का स्वागत	..	५२
३९. जहाँ प्रेम है, वहीं प्रार्थना है	..	५३
४०. अनंत प्रतीक्षा ही साधना है	..	५४
४१. प्रार्थनापूर्ण प्रतीक्षा ही प्रेम है	..	५५
४२. 'मैं'—एक स्वप्न—एक निद्रा	..	५७
४३. अनलिखा पत्र	..	५८
४४. चिंताओं का अतिक्रमण	..	५९
४५. काम-वृत्ति पर ध्यान	..	६०
४६. जियो उन्मुक्त, पल-पल	..	६१
४७. बिल्कुल ही टूट जा, मिट जा	..	६२
४८. प्रभु की प्यास	..	६३
४९. जीवन-दृष्टि	..	६४
५०. जीवन निष्प्रयोजन है	..	६७
५१. शून्य ही द्वार है, मार्ग है, मंजिल है	..	६८
५२. प्राणों की आतुरता	..	६९
५३. युवक क्रांति दल	..	७०
५४. जीवन है असुरक्षा—अव्यवस्था	..	७१
५५. प्रेम के दो रूप : काम और करुणा	..	७२
५६. सर्व स्वीकार है द्वार प्रभु का	..	७३

५७. सोचना नहीं। देखना —बस देखना	..	७५
५८. विरह, प्यास, पुकार और आंसू	..	७७
५९. दस जीवन सूत्र	..	७८
६०. सत्य को जीतने की कला : सब भाँति हार जाना	..	७९
६१. मृत्यु का बोध	..	८०
६२. अर्थ (meaning) की खोज	..	८१
६३. जागकर देखें—'मैं' है ही नहीं	..	८२
६४. खोज—खोज—और खोज	..	८३
६५. अन्तर्बोणा	..	८४
६६. सपने : बंद व खुली आँखों के	..	८५
६७. समाधान की खोज	..	८६
६८. सत्य है सदा सूली पर	..	८७
६९. अटूट संकल्प	..	८८
७०. मुक्ति का संगीत	..	९०
७१. प्रेम की आग	..	९१
७२. विचारों की चरम सीमा	..	९३
७३. खोजो मत—खोजो	..	९४
७४. वाणी-रहित, मांग-रहित, स्वयं का समर्पण	..	९५
७५. प्राणों के गीत	..	९६
७६. पहले खोजो प्रभु का राज्य	..	९७
७७. जीवन को नृत्य बना	..	९८
७८. जहाँ शिकायत नहीं है, वहीं प्रार्थना है	..	९९
७९. आँखें खोलो और देखो	..	१००
८०. समर्पण—समर्पण—समर्पण	..	१०१
८१. जीवन में इतना दुख क्यों है ?	..	१०२
८२. संदेह नहीं तो खोज कैसे होगी ?	..	१०३
८३. मिटो ताकि हो सको	..	१०४
८४. प्रज्ञा पर ज्ञान की घूलि	..	१०५
८५. तैरें नहीं, डूवें	..	१०६
८६. आँखों का खुला होना ही द्वार है	..	१०७
८७. सत्य की खोज	..	१०८
८८. प्रतिफल मर जाओ	..	१०९

८९. अभय आता है साधना से	..	११०
९०. आस्तिकता—स्वीकार है, समर्पण है	..	१११
९१. परमात्मा ही हमारी संपदा है	..	११२
९२. अमृत के साथ विष भी मेरा है	..	११३
९३. सत्य शब्दातीत है	..	११४
९४. मनुष्य भी बीज है	..	११५
९५. न दमन, न निषेध, वरन् जागरण	..	११६
९६. जिन खोया तिन पाइयाँ	..	११७
९७. जीवन को ही निर्वाण बनाओ	..	११८
९८. स्वप्नों से मुक्ति सत्य का द्वार है	..	११९
९९. स्वभाव में जीना साधना है	..	१२१
१००. आत्म-निष्ठा	..	१२२
१०१. अनंत आशा ही पाथेय है	..	१२३
१०२. संकल्प के पीछे-पीछे आती है साधना	..	१२४
१०३. अनासक्ति	..	१२६
१०४. बस, परिवर्तन ही एक शाश्वतता है	..	१२७
१०५. सहज निवृत्ति—प्रवृत्ति में जागने से	..	१२८
१०६. ध्यान—अप्रयास, अनभ्यास से	..	१२९
१०७. साक्षी की आँखें	..	१३०
१०८. अन्तः ज्योति	..	१३१
१०९. स्वप्निल मूर्च्छा-ग्रंथि	..	१३२
११०. शून्य है द्वार प्रभु का	..	१३३
१११. योग साधना है सम्यक् धर्म	..	१३४
११२. प्यास, प्रार्थना, प्रयास और प्रतीक्षा	..	१३५
११३. जीवन-शृंखला की समझ	..	१३६
११४. जीवन-संगीत	..	१३७
११५. छोड़ो स्वयं को और मिटो	..	१३८
११६. प्रेम—अनंतता है	..	१३९
११७. संकल्प और समर्पणरत साधना	..	१४०
११८. अन्तस् में छिपे खजाने की खुदाई	..	१४१
११९. अन्तर्यात्रा—स्वयं में, सत्य में	..	१४२
१२०. प्रेम के दियो	..	१४३

१२१. प्रेम ही सेवा है	..	१४४
१२२. प्रेम-शून्य हृदय की दरिद्रता	..	१४५
१२३. गागर में प्रेम का सागर	..	१४६
१२४. प्रेम की सम्पदा	..	१४७
१२५. परमात्मा है असीम प्रेम	..	१४८
१२६. अँसुअन-जल सींचि-सींचि प्रेम-बेलि बोई	..	१४९
१२७. प्रभु के लिए पागल हो	..	१५०
१२८. समय न खोजो	..	१५१
१२९. द्वैत का अतिक्रमण—साक्षी भाव से	..	१५२
१३०. जो मिले अभिनय उसे पूरा कर	..	१५३
१३१. ध्यान है भीतर झाँकना	..	१५४
१३२. समर्पण और साक्षी	..	१५५
१३३. जो घर बारें आपना	..	१५६
१३४. नास्तिकता में और गहरे उतरें	..	१५७
१३५. विचारों के पतझड़	..	१५८
१३६. समर्पण—एक अनसोची छलाँग	..	१५९
१३७. परमात्मा है— अभी और यहीं	..	१६०
१३८. नेति, नेति...की साधना	..	१६१
१३९. स्वयं को पूर्णतया शून्य कर ले	..	१६३
१४०. संघर्ष, संकल्प और संन्यास	..	१६४
१४१. स्वयं को जन्म देने की प्रसव पीड़ा	..	१६५
१४२. अनंत की यात्रा पर निकलो	..	१६६
१४३. शक्ति स्वयं के भीतर है	..	१६७
१४४. मिट और जान...खो और पा	..	१६८
१४५. स्वांस-स्वांस में प्रेम हो	..	१६९
१४६. संन्यास जीवन का परम-भोग है	..	१७०
१४७. संन्यास नया जन्म है	..	१७१
१४८. संसार में संन्यास का प्रवेश	..	१७२
१४९. संन्यासी बेटे का गौरव	..	१७३
१५०. संन्यास की आत्मा है : अडिग, अचल और अभय होना	..	१७४

•
प्रेम के फूल
•

आचार्यश्री रजनीश द्वारा प्रदत्त दस जीवन-सूत्र :

- किसी की आज्ञा कभी मत मानो जब तक कि वह स्वयं की ही आज्ञा न हो
- जीवन के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है
- सत्य स्वयं में है, इसलिए उसे और कहीं मत खोजना
- प्रेम प्रार्थना है
- शून्य होना सत्य का द्वार है । शून्यता ही साधन है, साध्य है, सिद्धि है
- जीवन है -- अभी और यहीं
- जियो और जागे हुए
- तरो मत — वही
- मरो प्रतिफल ताकि प्रतिफल नये हो सको
- खोजो मत । जो है — है । लुको और देखो

प्रेम के अतिरिक्त और कोई प्रार्थना नहीं है

प्रय सोहन,

प्रेम । तेरा पत्र मिला ।

कविता से तो हृदय फूल गया ।

सुना था प्रेम से काव्य का जन्म होता है,

तेरे पत्र में उसे साकार देख लिया ।

प्रेम हो तो धीरे-धीरे पूरा जीवन ही काव्य हो जाता है ।

जीवन-सौंदर्य के फूल प्रेम की धूप में ही खिलते हैं ।

यह भी तूने खूब पूछा है कि मेरे हृदय में तेरे लिए इतना प्रेम क्यों है ?

क्या प्रेम के लिए भी कोई कारण होते हैं ?

और यदि किसी कारण से प्रेम हो तो क्या हम उसे प्रेम कहेंगे ?

पागल, प्रेम तो सदा ही अकारण होता है ।

यही उसका रहस्य और उसकी पवित्रता है ।

अकारण होने के कारण ही प्रेम दिव्य है और प्रभु के लोक का है ।

फिर, मैं तो उसी भांति प्रेम से भरा हूँ, जैसे दीपक में प्रकाश होता है ।

पर उस प्रकाश के अनुभव के लिए आंखें चाहिए ।

तेरे पास आंखें थीं तो तूने उस प्रकाश को पहचाना ।

इसमें मेरी नहीं, तेरी ही विशेषता है ।

०००

वहाँ सबको मेरे प्रणाम कहना ।

माणिक वावू और वच्चों को प्रेम ।

रजनीश के प्रणाम

१२-३-१९६५

प्रिय बहिन,

प्रेम । तुम्हारा पत्र मिला है ।

आनंद में जानकर आनंदित होता हूँ ।

मेरे जीवन का आनंद यही है ।

सब आनंद से भरें, श्वास-श्वास में यही प्रार्थना अनुभव करता हूँ ।

इसे ही मैंने धर्म जाना है ।

वह धर्म मृत है, जो मंदिरों और पूजागृहों में समाप्त हो जाता है ।

उस धर्म की कोई सार्थकता नहीं है, जिसका आदर निष्प्राण शब्दों और सिद्धांतों के ऊपर नहीं उठ पाता है ।

वास्तविक और जीवित धर्म वही है, जो समस्त से जोड़ता और समस्त तक पहुंचता है ।

विश्व के प्राणों से जो एक कर दे, वही धर्म है ।

और, वे भावनाएं प्रार्थना हैं, जो उस अद्भुत संगम और मिलन की ओर ले चलती हैं ।

और, वे समस्त प्रार्थनाएँ एक ही शब्द में प्रगट हो जाती हैं ।

वह शब्द प्रेम है ।

प्रेम क्या चाहता है ?

जो आनंद मुझे मिला है, प्रेम उसे सब को बांटना चाहता है ।

प्रेम स्वयं को बांटना चाहता है ।

स्वयं को वेशर्त दे देना प्रेम है ।

वृंद जैसे स्वयं को सागर में विलीन कर देती है, वैसे ही समस्त के सागर में अपनी सत्ता को समर्पित कर देना प्रेम है ।

और, वही प्रार्थना है ।

ऐसे ही प्रेम से आंदोलित हो रहा हूँ ।

उसके संस्पर्श ने जीवन अमृत और आलोक बना दिया है ।

अब एक ही कामना है कि जो मुझे हुआ है, वह सब को हो सके ।

वहाँ सबको मेरा प्रेम संदेश कहें । ११ फरवरी तो कल्याण मिल रही हो न ?

रजनीश के प्रणाम

३ फरवरी, १९६५

[प्रति : सुश्री सोहन बाफना, पूना]

३ / प्रेम का मंदिर—निर्दोष, सरल हृदय

सोहन,

प्रिय ! तेरा पत्र मिला है। और, चित्र भी। उसे देखता हूँ—तू कितनी सरल और निर्दोष मालूम हो रही है ? पूजा और प्रेम का कैसा पवित्र भाव उसमें प्रगट हुआ है ? हृदय प्रेम से पवित्र हो जाता है और मंदिर बन जाता है। इसे तेरे चित्र में प्रत्यक्ष ही देख रहा हूँ। प्रभु इस निर्दोष सरलता को निरंतर बढ़ाता चले यही मेरी प्रार्थना है।

२००० वर्ष पहले क्राइस्ट से किसी ने पूछा था : “ प्रभु के राज्य में प्रवेश के अधिकारी कौन होंगे ? ” उन्होंने एक बालक की ओर इशारा करके कहा था : “जिनके हृदय बालकों की भांति सरल हैं।”

और, आज तेरे चित्र को देखते-देखते मुझे यह घटना अनायास ही याद हो आई है।

०००

माणिक बाबू को प्रेम। वच्चों को आशीष।

रजनीश के प्रणाम
९-६-१९६५ (दोपहर)

प्यारी सोहन,

सुबह ही तेरा पत्र मिला है। तू जिन प्रेम-फूलों की माला गूँथती है, उनकी सुगंध मुझ तक आ जाती है। और, तू जो प्रीति-बेल बों रही है, उसका अंकुरण मैं अपने ही हृदय में अनुभव करता हूँ। तेरे प्रेम और आनंद से पैदा हुये आंसू मेरी आंखों की शक्ति और चमक बन जाते हैं। और, यह कितना आनंदपूर्ण है !

०००

१३ जून को कल्याण पर तेरी प्रतीक्षा करूंगा।

रजनीश के प्रणाम

१४-६-१९६५ (दोपहर)

[प्रति : सुश्री सोहन वाफना, पूना]

प्रिय सोहन,

स्नेह । अमी अमी यहां पहुंचा हूँ । गाड़ी ५ बंटे विलम्ब से पहुंची है । तुमने चाहा था कि पहुंचते ही पत्र लिखूँ इसलिये सबसे पहले वही कर रहा हूँ ।

रास्ते भर तुम्हारा स्मरण बना रहा, और तुम्हारी आंखों से ढलते आंसू दिखाई पड़ते रहे । आनंद और प्रेम के आंसुओं से पवित्र इस धरा पर और कुछ नहीं है । ऐसे आंसू कितने अपार्यिच होते हैं, और कितने पारदर्शी ? वे निश्चय ही शरीर के हिस्से होते हैं, पर उनसे जो प्रगट होता है, वह शरीर का नहीं होता है ।

मैं तुम्हारे इन आंसुओं के लिये क्या दूँ ?

माणिक वावू को मेरा हार्दिक प्रेम कहना । अनिल और वच्चों को स्नेह ।

रजनीश के प्रणाम

१७-२-१९६५ (मंघ्या)

प्रिय सोहन,

प्रेम । बहुत प्रेम । प्रवास से लौटा, तो पत्रों के ढेर में तेरे पत्र को खोजा । तेरे अपने हाथ से लिखे उस पत्र को पाकर कितना आनंद हुआ — कैसे कहूं ?

तूने लिखा है : 'अब तो अनुपस्थिति में उपस्थिति प्रतीत हो रही है ।' प्रेम ही वस्तुतः उपस्थिति है । प्रेम हो तो समय और स्थान की दूरियां मिट जाती हैं और प्रेम न हो तो समय और स्थान में निकट होकर भी बीच में अलंघ्य और अनंत फामला होता है । अप्रेम एकमात्र दूरी है, और प्रेम एकमात्र निकटता है । जो समस्त के प्रेम को उपलब्ध होते हैं, वे सबको अपने भीतर ही पाने लगते हैं । विश्व तब बाहर नहीं, भीतर मालूम होता है और चांद-तारे अंतस् के आकाश में दिखाई पड़ने लगते हैं । प्रेम की उस पूर्णता में अहं लुप्त हो जाता है । प्रभु उस पूर्णता की ओर ले चले यही सदा मेरी कामना है ।

माणिक बाबू को प्रेम । अनिल और बच्चों को स्नेह ।

रजनीश के प्रणाम
३ मार्च १९६५ (रात्रि)

[प्रति : सुश्री सोहन बाफना, पूना]

प्रिय सोहन वाई,

स्नेह । तुम्हारा पत्र मिला है ।

उन शब्दों से मुझे बहुत खुशी होती है ।

छोटे छोटे फूल जैसे अनंत सौंदर्य को प्रगट कर देते हैं, वैसे ही हृदय की पूर्णता और गहराई से निकले हुए शब्द भी अनंत और विराट को प्रतिध्वनित करते हैं ।

प्रेम शब्दों में प्राण डाल देता है और उन्हें जीवन दे देता है ।

फिर क्या कहा जा रहा है, वह नहीं, वरन् क्या कहना चाहा था, वह अभिव्यक्त हो जाता है ।

प्रत्येक के भीतर कवि है और प्रत्येक के भीतर काव्य है,

पर हम अपनी सतह पर जीते हैं, इसलिए उसका जन्म नहीं हो पाता है ।

जो अपनी गहराइयों में जाते हैं, वे एक अलौकिक प्रेम को अपने भीतर जागता हुआ अनुभव करते हैं ।

और वह प्रेम उनके ममग्र जीवन को सौंदर्य, शांति, संगीत और काव्य से भर देता है ।

उनका जीवन ही संगीत हो जाता है ।

और उसी संगीत की भूमिका में सत्य का अवतरण होता है ।

सत्य के अवतरण के लिए संगीत आधार है ।

जीवन को संगीत बनाना आवश्यक है ।

उसके माध्यम से ही कोई सत्य के निकट पहुंचता है ।

तुम्हें भी संगीत बनना है ।

सारे जीवन को — छोटे-छोटे कामों को भी संगीत बनाओ ।

प्रेम से यह होता है ।

जो है, उसे प्रेम करो ।

सारे जगत के प्रति प्रेम अनुभव करो ।

अपनी स्वांस-स्वांस में समस्त के प्रति प्रेम की भावना से ही स्वयं में संगीत उत्पन्न होता है ।

क्या यह कभी देखा है ?

उसे देखो—प्रेम से अपने को भर लो और देखो ।

वही अधर्म है— वही केवल पाप है जो स्वयं में संगीत को तोड़ देता है ।

और वही धर्म है— वही केवल धर्म है जो स्वयं को संगीत से भरता है ।

प्रेम धर्म है क्योंकि प्रेम संगीत है और सौंदर्य है ।

प्रेम परमात्मा है क्योंकि वही उसे पाने की पात्रता है ।

०००

वहां सब को मेरा प्रेम कहें ।

और अपने निकट भी मेरे प्रेम के प्रकाश को अनुभव करें ।

रजनीश के प्रणाम

५ दिसंबर १९६४

प्रिय सोहन,

स्नेह । मैं बाहर से लौटा तो तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा थी । पत्र और अंगूर साथ ही मिले । पत्र जो कि वैसे ही इतना मीठा था, और भी मीठा हो गया !

मैं आनंद में हूँ । तुम्हारा प्रेम उस आनंद को और बढ़ा देता है । सबका प्रेम उस आनंद को अनंतगुणा कर रहा है । एक ही शरीर कितना आनंद है, पर जिसे सब शरीर अपने ही लग रहे हों, उसके साथ सिवाय ईर्ष्या करने के और क्या उपाय है ?

ईश्वर करे तुम्हें मुझसे ईर्ष्या हो — सबको हो, मेरी तो कामना सदा यही है ।

माणिक बाबू ने भी बहुत प्रीतिकर शब्द लिखे हैं । उन्हें मेरा प्रेम कहना । वच्चों को भी बहुत बहुत प्रेम ।

रजनीश के प्रणाम

१६ मार्च १९६५

[प्रति : सुधी सोहन बाफना, पूना]

प्रिय सोहन,

तू इतने प्यारे पत्र लिखेगी, वह कमी सोचा भी नहीं था !

और ऊपर से लिखती है कि मैं अपढ़ हूँ !

प्रेम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है—

और जिनके पास प्रेम न हो, वे अभागे ही केवल अपढ़ हो सकते हैं।

जीवन में असली बात बुद्धि नहीं, हृदय है—

क्योंकि, आनंद और आलोक के फूल बुद्धि में नहीं, हृदय में ही उत्पन्न होते हैं।

और, वह हृदय तेरे पास है और बहुत है।

क्या मेरी गवाही से बड़ी गवाही भी तू खोज सकती है ?

यह तूने क्या लिखा है कि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं लिखूं ?

प्रेम ने आज तक जमीन पर कभी कोई भूल नहीं की है।

सब भूलें अ-प्रेम में होती हैं।

मेरे देखे तो जीवन में प्रेम का अभाव ही एकमात्र भूल है।

०००

वह जो मैंने लिखा था कि ' प्रभु मेरे प्रति ईर्ष्या पैदा करें', वह किमी भूल के कारण नहीं; वरन्—

' जो अनंत आनंद मेरे हृदय में फलित हुआ है उसे पाने की प्यास तेरे भीतर भी गहरी से गहरी हो, इसलिए।

' भिन्नलड़ी रानी, ' ! उसमें तेरे चिन्तित होने का कोई कारण नहीं था।

०००

माणिक दाबू को मेरा प्रेम। बच्चों को स्नेह।

रजनीश के प्रणाम
२२ मार्च १९६५ (रात्रि)

प्रिय सोहन,

पत्र मिला है। मैं तो जिस दिन से आया हूँ, उसी दिन से प्रतीक्षा करता था। पर, प्रतीक्षा भी कितनी मोठी होती है !

जीवन स्वयं ही एक प्रतीक्षा है।

बीज अंकुरित होने की प्रतीक्षा करते हैं और सरितायें सागर होने की। मनुष्य किसकी प्रतीक्षा करता है? वह भी तो किसी वृक्ष के लिए बीज है और किसी सागर के लिए सरिता है !

कोई भी जब स्वयं के भीतर झांकता है, तो पाता है कि किसी असीम और अनंत में पहुंचने की प्यास ही उसकी आत्मा है।

और, जो इस आत्मा को पहचानता है, उसके चरण परमात्मा की दिशा में उठने प्रारंभ हो जाते हैं; क्योंकि प्यास का बोध आ जावे और हम जल स्रोत की ओर न चले, यह कैसे संभव है ?

यह कभी नहीं हुआ है और न ही कभी होगा। जहां प्यास है, वहां प्राप्ति की तलाश भी है।

मैं इस प्यास के प्रति ही प्रत्येक को जगाना चाहता हूँ, और प्रत्येक के जीवन को प्रतीक्षा में बदलना चाहता हूँ।

प्रभु की प्रतीक्षा में परिणत हो गया जीवन ही सद् जीवन है। जीवन के शेष सब उपयोग अपव्यय हैं और अनर्थ हैं।

०००

माणिक वावू को प्रेम।

रजनीश के प्रणाम
२४-४-६५ (दोपहर)

[प्रति : सुश्री सोहन, पूना]

प्रेम । आपका प्रेमपूर्ण पत्र पाकर अत्यन्त अनुगृहीत हूँ ।

लेकिन, जीवन को मैं अखण्ड मानता हूँ ।

और उसे खण्ड खण्ड तोड़कर देखने में असमर्थ हूँ ।

वह अखण्ड है ही ।

और चूँकि आज तक उसे खण्ड खण्ड करके देखा गया है, इसलिए वह विकृत हो गया है ।

न राजनीति है, न नीति है, न धर्म है ।

है जीवन ।

है परमात्मा ।

समग्र और अखण्ड ।

उसे उसके सब रूपों में ही पहचानना, खोजना और जीना है ।

इसलिए मैं जीवन के समग्र पहलुओं पर बोलना जारी रखूँगा ।

और अभी तो सिर्फ शुरुआत है ।

पत्रकारों को उत्तर देना तो सिर्फ भूमिका तैयार करनी है ।

लेकिन सब पहलुओं से उसकी ही यात्रा करनी है ।

सब मार्गों से उसकी ओर ही चलना है ।

शायद इस सत्य को समझने में मित्रों को थोड़ी देर लगेगी ।

वैसे सत्य को समझने में थोड़ी देर लगना अनिवार्य ही है ।

लेकिन जो सत्य के खोजी हैं वे भयभीत नहीं होंगे ।

सत्य की खोज में अभय तो पहली शर्त है ।

और यह भी ध्यान में रहे कि अध्यात्म जब तक समग्र जीवन का दर्शन नहीं बनता है तब तक वह नपुंसक ही सिद्ध होता है, और उसकी आड़ में सिर्फ

पलायनवादी ही शरण पाते हैं ।

अध्यात्म को बनाना है शक्ति ।

अध्यात्म को बनाना है क्रांति ।

और तभी अध्यात्म को बचाया जा सकता है ।

वहां सबको मेरा प्रणाम कहें ।

रजनीश के प्रणाम

२७-३-६९

मेरे प्रिय,

प्रेम । पत्र मिला है । मैं तो सदा साथ हूँ । न चिंतित हों, न उदाम । नाथना को भी परमात्मा के हाथों में छोड़ दें । जो उसकी मर्जी ।

स्वयं तो हो जावें— एक मुखे पत्ते की भांति । फिर हवायें चाहे जहां ले जावें ।

क्या यही शून्य का अर्थ नहीं है ?

तैरें नहीं, वहें ।

क्या यही शून्य का अर्थ नहीं है ?

वहां सबको मेरे प्रणाम ।

रजनीश के प्रणाम

१०-१-१९६८

१

प्रभात

१८-६-१९६८

मेरे प्रिय,

प्रेम । तुम्हारा पत्र पाकर आनन्दित हूँ ।

सत्य अज्ञात है और इसलिये उसे पाने के लिए ज्ञात को छोड़ना ही पड़ता है ।

ज्ञात (Known) के तट से मुक्त होते ही अज्ञात (Unknown) के सागर में प्रवेश हो जाता है ।

साहस करो और कूद पड़ो ।

शून्य में—महाशून्य में ।

क्योंकि वही प्रभु का आवास है ।

सबको प्रेम ।

या कि एक को ही ।

आह ! वही एक तो है ।

वस वही है ।

सब में भी वही है ।

सर्व में भी । और शून्य में भी ।

रजनीश के प्रणाम

[प्रति : श्री ओमप्रकाश, अग्रवाल, जालंधर, पंजाब]

मेरे प्रिय,

प्रेम ।

आपका पत्र मिला है ।

जन्म-समय की खोज-खबर करनी पड़ेगी ।

दिन शायद ११ दिसंबर है । लेकिन यह भी पक्का नहीं ।

लेकिन ज्योतिषी मित्र को कहें : क्यों परेशान होते हैं ?

भविष्य आ ही जायेगा, इसलिये उसकी ऐसी चिन्ता नहीं करनी चाहिए !

फिर कुछ भी क्यों न हो —अंततः सब बराबर है ।

धूल धूल में वापिस लीट जाती है ।

और जीवन जल पर खींची रेखाओं सा विलीन हो जाता है ।

वहां सबको मेरे प्रणाम कहें ।

रजनीश के प्रणाम

१२-१२-१९६८

(ऊपर एक पत्र प्रस्तुत है आचार्यश्री का जो श्री अनूप दाबू, सुरेन्द्र-नगर को लिखा गया है। श्री अनूप दाबू ने आचार्यश्री से आचार्यश्री की जन्म तारीख और समय बताने का आग्रह किया था किसी ज्योतिषी मित्र के परामर्श से— उसी संदर्भ का है यह पत्र)

प्यारी जया,

प्रेम । तेरा पत्र मिला है ।

तेरे प्राणों की प्यास को, मैं भलीभांति जानता हूँ । और वह क्षण भी दूर नहीं है, जब वह तृप्त हो सकेगी ।

तू विलकुल सरोवर के किनारे ही खड़ी है ।

केवल आंख ही भर खोलनी है ।

और मैं देख रहा हूँ कि पलकें खुलने के लिए तैयारी भी कर रही हैं । फिर मैं साथ हूँ—सदा साथ हूँ— इसलिए जरा भी चिन्ता मत कर ।

धैर्य रख और प्रतीक्षा कर ।

वीज अपने अनुकूल समय पर ही टूटता है और अंकुरित होता है ।

वहां सबको मेरे प्रणाम कहना । शेष मिलने पर ।

रजनीश के प्रणाम

प्रभात २९-९-१९६८

[प्रति : श्रीमती जयवंती शुक्ल, जूनागढ़, गुजरात]

प्रिय आत्मन्,

आपका पत्र मिल गया था। कुछ लिखने के लिए आपका कितना प्रेमपूर्ण आग्रह है ! और मैं हूँ कि अतल मौन में डूब गया हूँ। वोल्ता हूँ; काम करता हूँ; पर भीतर है कि सतत् एक शून्य घिरा हुआ है। वहाँ तो कोई गति भी नहीं है। इस भाँति एक ही साथ दो जीवन जीता हुआ मालूम होता है। कैसा अभिनय है ?

पर शायद पूरा जीवन ही अभिनय है। और यह बोध एक अद्भुत मुक्ति का द्वार खोल रहा है। वह जो क्रिया के बीच अक्रिया है—गति के बीच गति शून्य है—परिवर्तन के बीच नित्य है—वही है सत्य; वही है सत्ता। वास्तविक जीवन इस नित्य में ही है। उसके बाहर केवल स्वप्नों का प्रवाह है।

सच ही, बाहर केवल स्वप्न हैं। उन्हें छोड़ने, न छोड़ने का प्रश्न नहीं—केवल उसके प्रति जागना ही पर्याप्त है। और जागते ही सब परिवर्तित हो जाता है। वह दीखता है जो देख रहा है। और केन्द्र बदल जाता है। प्रकृति से पुरुष पर पहुँचना हो जाता है। यह पहुँच क्या दे जाती है? कहा नहीं जा सकता है। कभी कहा नहीं गया है। कभी कहा भी नहीं जायेगा। स्वयं जाने बिना जानने का और कोई मार्ग नहीं है। स्वयं मर कर मृत्यु जानी जाती है। स्वयं डूब कर सत्य जाना जाता है। प्रभु सत्य में डुवाये यही कामना है ॥

रजनीश के प्रणाम

१३ अगस्त, १९६२ प्रभात

प्रिय आत्मन्,

प्रणाम। आपका पत्र पढ़ कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई। मैं अभी तो कुछ भी नहीं लिखा हूँ। एक ध्यान केन्द्र जरूर यहां बनाया है, जिसमें कुछ साथी प्रयोग कर रहे हैं। इन प्रयोगों से उपलब्ध नतीजों से परिपूर्ण रूप से सुनिश्चित हो जाने पर अवश्य ही कुछ लिखने की संभावना है। मैं अपने स्वयं के प्रयोगों पर निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचा हूँ। पर उनकी अन्यो के लिए उपयोगिता को भी परख लेना चाहता हूँ।

मैं शास्त्रीय ढंग से कुछ भी लिखना नहीं चाहता—मेरी दृष्टि वैज्ञानिक है। मनो-वैज्ञानिक और परा-मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर योग के विषय में कुछ कहने का विचार है। इस संबंध में बहुत ही भ्रांत धारणायें प्रचलित हैं—उनका खंडन भी आवश्यक है—इसलिए उन पर भी प्रयोग करके देख रहा हूँ। इस कार्य में मेरी दृष्टि में कोई संप्रदाय या पक्ष का अनुमोदन भी नहीं है। इस ओर कभी आवें तो बहुत सी चर्चा हो सकती है।

रजनीश के प्रणाम

१ अक्टूबर १९६२

[प्रति : लाला सुन्दरलाल, दिल्ली]

प्रिय आत्मन्,

प्रणाम । मैं अभी अभी राज नगर (राजस्थान) से लौटा हूँ । वहाँ आचार्यश्री तुलसी के मर्यादा महोत्सव में आमंत्रित था । कोई ४०० साधु-साध्वियों को ध्यान-योग के सामूहिक प्रयोग से परिचित कराया है । अद्भुत परिणाम हुए हैं ।

मेरा देखना है कि ध्यान समग्र धर्म साधना का केन्द्रीय तत्व है और शेष, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि उसके परिणाम हैं । ध्यान की पूर्णता—समाधि—उपलब्ध होने से वे अपने आप चले आते हैं । उनका विकास सहज ही हो जाता है । इस मूल साधना को भूल जाने से हमारा सब प्रयास बाह्य और सतही होकर रह जाता है । धर्म साधना कोरी नैतिक साधना नहीं है; वह मूलतः योग साधना है । केवल नीति नकारात्मक है और नकार पर कोई स्थायी भित्ति खड़ी नहीं है । योग विधायक है और इसलिये वह आधार है । मैं इस विधायक आधार को सब तक पहुंचा देना चाहता हूँ ।

रजनीश के प्रणाम

१२ फरवरी १९६३ रात्रि ।

२० / प्रयोग करें, परिणाम की चिन्ता नहीं

प्रिय आत्मन्,

प्रणाम । पूरी मई बाहर रहने से स्वास्थ्य पर कुछ बुरा असर हुआ । इसलिये जून में आयोजित वम्बई, कलकत्ता और जयपुर के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिये हैं ।

समाधि योग पर आप प्रयोग कर रहे हैं यह जान कर प्रसन्नता हुई । परिणाम की नहीं, प्रयोग की ही चिन्ता करें; परिणाम तो एक दिन आ ही जाता है, वह अनुक्रम से नहीं, अनायास से आता है, ज्ञात भी नहीं पड़ता है, और उसका आगमन हो जाता है और एक क्षण में जीवन कुछ से कुछ हो जाता है ।

भगवान् महावीर पर अभी नहीं लिख रहा हूँ । लिखने के प्रति मुझमें कोई प्रेरणा ही नहीं है । आपकी जबरदस्ती से कुछ हो सके तो बात दूसरी है । शेष शुभ ।

रजनीश के प्रणाम

३ जून १९६३

[प्रति : लाला सुन्दरलाल, दिल्ली]

चिदात्मन्,

आपके पत्र मिले । मैं बाहर था । अतः शीघ्र प्रत्युत्तर संभव नहीं हो सका । अभी अभी लौटा हूँ, राणकपुर में गिविर लिया था, वह गिविर केवल राजस्थान के मित्रों के लिये था । इस लिए आपको सूचित नहीं किया था । पाँच दिन का गिविर था, और कोई ६० गिविरार्थी थे— गिविर अमृतपूर्व रूप में सफल रहा है और महत् परिणाम दिखाई पड़े हैं । उन परिणामों में संयोजक मित्रों का साहस बढ़ा है, और वे जल्दी ही अग्निल मार्गनीय स्तर पर एक गिविर आयोजित करने का विचार कर रहे हैं । उसमें आपको आना ही है ।

यह जानकर अति आनंदित हूँ कि ध्यान पर आपका कार्य चल रहा है, केवल मौन होता है । वस मौन ही जाना ही सब कुछ है । मौन का अर्थ वाणी के अभाव से ही नहीं—मौन का अर्थ है, विचार का अभाव । चित्त जब निस्तरंग होता है, तो अनंत से संबंधित हो जाता है ।

शांत बैठ कर विचार प्रवाह को देखते रहें— कुछ करें नहीं; केवल देखें, वह केवल देखना ही विचारों को विसर्जित कर देता है । दर्शन का जागरण विचार-विकार से मुक्ति है । और जब विचार नहीं होते हैं तो चैतन्य का आविर्भाव होता है । यही समाधि है ।

सभी मित्रों को मेरा प्रेम कहें ।

रजनीश के प्रणाम

.६४

[प्रति : लाला मुन्दरलाल, दिल्ली]

मेरे प्रिय,

प्रेम । पत्र पाकर आनंदित हूँ ।

बूंद को सागर बनना नहीं है ।

बूंद सागर है ही ।

यही उसे जानना है ।

जो है—जैसा है—उसे वही और वैसा ही जानना सत्य है ।

सत्य मुक्तिदायी है ।

जयश्री को प्रेम, और सबको भी ।

रजनीश के प्रणाम

२४-४-१९६९

[प्रति : श्री पुष्कर गोकानी, द्वारका, गुजरात]

(श्री पुष्कर माई गोकानी ने यह जानना चाहा था कि क्या बूंद का सागर में खो जाना, एक व्यक्ति की अपनी निजता **Individuality** को खो देने जैसा नहीं है ? ऐसा मन को प्रेरक नहीं है ।)

२३ / निद्रा में जागरण की विधि : जागृति में जागना

मेरे प्रिय,

प्रेम ।

जागृति में ही जागें ।

निद्रा या स्वप्न में जागने का प्रयास न करें ।

जागृत में जागने के परिणाम स्वरूप ही अनायास निद्रा या स्वप्न में भी जागरण उपलब्ध होता है ।

लेकिन उसके लिए करना कुछ भी नहीं है,

कुछ करने से उसमें बाधाएँ ही पैदा हो सकती हैं,

निद्रा तो जागरण का ही प्रतिफलन है ।

जो हम जागते में हैं, वही हम सोते में हैं ।

यदि हम जागते में ही सोये हुए हैं, तो ही निद्रा भी निद्रा है ।

जागते में विचारों का प्रवाह ही सोते में स्वप्नों का जाल है ।

जागने में जागते ही निद्रा में भी जागरण का प्रतिफलन शुरू हो जाता है ।

जागते में विचार नहीं तो फिर सोते में स्वप्न भी मिट जाते हैं ।

शेष शुभ ।

वहां सबको प्रणाम ।

रजनीश के प्रणाम

९-९-६९

प्रिय आत्मन्,

स्नेह । तुम्हारे पत्र को राह में पढ़ा, उसने मेरे हृदय को छू लिया है । जीवन सत्य को जानने की तुम्हारी आकांक्षा प्रबल हो तो जो अभी प्यास है वही एक दिन प्राप्ति बन जाती है । केवल एक जलती हुई अभीप्सा चाहिए । और कुछ भी आवश्यक नहीं है । नदियां जैसे सागर को खोज लेती हैं वैसे ही मनुष्य भी चाहना करे तो मत्स्य को पा लेता है । कोई पर्वत, कोई चोटियां बाधा नहीं बनती हैं वरन् उनकी चुनौती मुक्त पुरुषार्थ को जगा देती है ।

मत्स्य प्रत्येक के भीतर है । नदियों को तो सागर खोजना पड़ता है । हमारा सागर तो हमारे भीतर है । और फिर भी जो उसके प्यासे और उससे वंचित रह जायें, उन पर भिवाय आश्चर्य के और क्या करना होगा ? वस्तुतः उन्होंने ठीक से चाहा ही न होगा ।

ईसा का एक वचन है : मांगो और वह मिलेगा ।
पर कोई मांगे ही नहीं तो कसूर किसका है ?

प्रभु को पाने में मत्स्य मीठा और कुछ भी नहीं है । केवल उसे मांगना ही होता है । यद्यपि मांग जैसे-जैसे प्रबल होती है मांगने वाला वैसे ही वैसे विसर्जित होता जाता है । एक सीमा आती है, वाष्पीकरण का एक बिंदु आता है, जहां मांगने वाला पूरी तरह मिट जाता है और केवल मांग ही शेष रह जाती है । यही बिन्दु प्राप्ति का बिन्दु भी है । जहां 'मैं' नहीं है वहीं मत्स्य है । यह अनुभूति ही प्रभु-अनुभूति है ।

अहं का अभाव ही ब्रह्म का सद्भाव है ।

वहां सबको मेरे प्रणाम कहना ।

रजनीश के प्रणाम

२-१२-१९६३

[प्रति : श्री रोहित कुमार मिश्र, खंडवा (म० प्र०)]

कटनी प्रवास से

१-११-१९६३

प्रिय आत्मन्,

प्रणाम। आपके पत्र यथा समय मिल गये थे—पर मैं बहुत व्यस्त था इसलिये शीघ्र उत्तर नहीं दे सका। इस बीच निरंतर बाहर ही था; अभी जयपुर, बुरहानपुर, होशंगाबाद, चांदा आदि जगहों पर बोलकर लौटा हूँ। लोग आत्मिक जीवन के लिये कितने प्यासे हैं! यह देखकर उन लोगों पर आश्चर्य होता है, जो कहते हैं कि लोगों की धर्म में रूचि नहीं रह गई है। यह तो कमी संभव ही नहीं है। धर्म में अरुचि का अर्थ है—जीवन में, आनन्द में, अमृत में अरुचि। चेतना स्वभाव से ईश्वरोन्मुख है। स्वरूपतः, सच्चिदानन्द ब्रह्म को पाकर ही उसकी तृप्ति है। वह, जो उसमें बीज की भांति छिपा है। यही स्रोत है धर्म के जन्म का और इसलिये धर्मों के जन्म होंगे, और मृत्यु होंगी, लेकिन धर्म शाश्वत है।

यह जानकर बहुत आनंद होता है कि आप धैर्य से प्रकाश पाने के लिये चले रहे हैं। साधना के जीवन में धैर्य सबसे बड़ी बात है। बीज को बोकर कितनी प्रतीक्षा करनी होती है! पहले तो श्रम व्यर्थ ही गया दीखता है। कुछ भी परिणाम आता हुआ प्रतीत नहीं होता। पर एक दिन प्रतीक्षा प्राप्ति में बदलती है। बीज फटकर पौधे के रूप में भूमि के बाहर आ जाता है। पर स्मरण रहे जब कोई परिणाम नहीं दिख रहा था, तब भी भूमि के नीचे विकास हो रहा था। ठीक ऐसा ही साधक का जीवन है। जब कुछ भी नहीं दिख रहा होता, तब भी बहुत कुछ होता है। मत्र तो यह है कि—जीवन-शक्ति के समस्त विकास अदृश्य और अज्ञात होते हैं। विकास नहीं, केवल परिणाम ही दिखाई पड़ते हैं।

मैं आनंद में हूँ। प्रभु का सान्निध्य आपको मिले यही कामना है। साध्य कि चिंता छोड़कर साधना करते चले फिर साध्य तो अपने आप निकट आता जाता है। एक दिन आश्चर्य से भरकर ही देखना होता है कि यह क्या हो गया है! मैं क्या था और क्या हो गया हूँ! तब जो मिलता है उसके समक्ष उसे पाने के लिए किया गया श्रम न कुछ मालूम होता है। सबको मेरा प्रेम कहें।

रजनीश के प्रणाम

[प्रति : लाला सुन्दरलाल, दिल्ली]

प्यारी जया,

प्रेम । तेरा पत्र मिला है । प्रेम मांगना नहीं पड़ता है और मांगे से वह मिलता भी नहीं है ।

प्रेम तो देने से आता है ।

वह तो हमारी ही प्रतिध्वनि है ।

मैं प्रेम बनकर तेरे ऊपर बरसता हुआ प्रतीत हो रहा हूँ क्योंकि तू मेरे प्रति प्रेम की सरिता बन गई है । ऐसे ही जिस दिन सारे जगत् के प्रति तेरे प्रेम का प्रवाह बहेगा, उस दिन तू पायेगी कि सारा जगत् ही तेरे लिए प्रेम बन गया है ।

जो है—उस समग्र के प्रति बेशर्त प्रेम का प्रत्युत्तर ही तो परमात्मा की अंग हूँति है ।

रजनीश के प्रणाम

१८-८-१९६९

[प्रति : सुश्री जयवंती, जूनागढ़]

प्रिय शिरीष,

प्रेम । प्रभु के लिए ऐसी प्यास से आनंदित हूँ । सौभाग्य से ही ऐसी प्यास होती है और जहाँ प्यास है वहाँ मार्ग भी है । वस्तुतः तो प्रगाढ़ अभीप्सा ही मार्ग बन जाती है । परमात्मा तो प्रतिक्षण ही पुकार रहा है किन्तु हमारे हृदय के तार ही सोये हों तो वे प्रतिध्वनित नहीं हो पाते हैं । आँखें हम बंद किये हों तो सूर्य के द्वार पर खड़े होते हुए भी अंधकार ही होगा । सूर्य सदा ही द्वार पर है और उसे पाने को बस आँख खोलने से ज्यादा और कुछ भी नहीं करना है ।

. . . प्रभु प्रकाश दे यही मेरी कामना है ।

मैं और मेरा प्रेम सदा साथ है ।

परिवार में सभी को प्रणाम कहें । बच्चों को स्नेह ।

रजनीश के प्रणाम

११-३-१९६६

[प्रति : सुश्री शिरीष पै, वम्बई]

२८ / साधना के लिए श्रम और संकल्प

प्रिय शिरीष,

प्रेम । उस दिन मिलकर मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ । तुम्हारे हृदय में जो आंदोलन चल रहा है, वह भी मैंने अनुभव किया और वह अभीप्सा भी जो कि तुम्हारी आत्मा में छिपी है । तुम अभी तक अपने उस व्यक्तित्व को नहीं पा सकी हो, जिसे पाने के लिए पैदा हुई हो । उसका बीज अंकुरित होना चाहता है । और भूमि भी तैयार है और बहुत प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है । श्रम करना होगा और संकल्प को इकट्ठा करना होगा । एक बार यात्रा प्रारंभ होने की ही बात है फिर तो परमात्मा का गुह्यवाकर्षण खुद ही खींचे लिए जाता है ।

रजनीश के प्रणाम

२६-३-१९६६

[प्रति : सुश्री शिरीष पै, बम्बई]

प्रिय शिरीष,

मैं प्रवास से लौटा हूँ तो तुम्हारा पत्र मिला है। जिस संकल्प का तुम्हारी अंतरात्मा में जन्म हो रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। संकल्प की प्रगाढ़ता ही सत्य तक ले जाती है क्योंकि उसकी ही आधारभूमि पर स्वयं में अंतर्निहित शक्तियाँ जागृत होती हैं और असंगठित प्राण संगठित हो संगति को उपलब्ध होते हैं। स्वयं के अणु में कितनी विराट ऊर्जा है, उसे तो संकल्प की परम तीव्रता के अतिरिक्त और किसी भी भाँति नहीं जाना जा सकता है। क्या तुमने ऐसी चट्टानें नहीं देखी हैं, जिन्हें कि मजबूत ने मजबूत छैनी से भी तोड़ा नहीं जा सकता है; लेकिन उन्हीं चट्टानों को किमी झाड़ी या पौधे का अंकुरण सहज दरारों से भर देता है। एक छोटा-सा बीज भी जब ऊपर उठने और सूर्य को पाने के संकल्प में भर उठता है तो चट्टानों को भी उसे मार्ग देना ही पड़ता है। कमजोर बीज भी शक्तिशाली चट्टानों में जीत जाता है। कोमल बीज भी कठोर-से-कठोर चट्टान को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि चट्टान चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, मृत है और मृत है इसलिये संकल्पहीन है। बीज है कोमल और कमजोर किन्तु जीवित।

स्मरण रहे कि जीवन संकल्प में है। संकल्प जहाँ नहीं, वहाँ जीवन भी नहीं है। बीज का संकल्प ही शक्ति बन जाता है। उस शक्ति को पाकर ही उसकी छोटी-छोटी जड़ें चट्टान में प्रवेश करने लगती हैं और क्रमशः फैलने लगती हैं और एक दिन चट्टान को तोड़ डालती हैं। जीवन सदा ही मृत्यु से जीत जाता है। भीतर की जीवित शक्ति बाहर की मृत बाधाओं से न कभी हारी है, न कभी हार ही सकती है।

रजनीश के प्रणाम

२-४-१९६६

[प्रति : सुथ्री शिरीष पै, बम्बई]

प्रिय शिरीष,

प्रेम ।

Sense of Humour के संबंध में पूछा है । मिलोगी तभी विस्तार से बात हो सकेगी । लेकिन सबसे पहले विनोद का भाव स्वयं के प्रति होना चाहिये । स्वयं के प्रति हंसना बहुत बड़ी बात है । और जो स्वयं के ऊपर हंस पाता है, वह धीरे धीरे दूसरों के प्रति बहुत दया और करुणा से भरा जाता है । इस जगत में स्वयं जैसी हंसने योग्य न कोई घटना है, न वस्तु ।

स्वप्नों के सत्य के संबंध में भी विस्तार से ही बात करनी होगी । कुछ स्वप्न निश्चित ही सत्य होते हैं । और मन जितना शांत होता जायेगा, उतनी ही स्वप्नों में भी सत्य की झलकें आनी शुरू होंगी । स्वप्नों के चार प्रकार हैं—(१) बीते जन्मों से संबंधित । (२) भविष्य जीवन से संबंधित । (३) वर्तमान से संबंधित और (४) दमित कामनाओं से संबंधित । आधुनिक मनोविज्ञान केवल चौथे प्रकार के स्वप्नों के संबंध में ही आंशिक रूप से जानता है ।

यह जानकर बहुत आनंदित हूँ कि तुम्हारा मन क्रमशः शांति की ओर प्रगति कर रहा है । मन वैसा ही हो जाता है, जैसा कि हम चाहें । अशांति और शांति—सब हमारे सृजन हैं । मनुष्य अपने ही हाथों अपनी ही बनाई जंजीरों में बंध जाता है और इसलिए मन से स्वतंत्र होने के लिए भी वह सदा ही स्वतंत्र है ।

रजनीश के प्रणाम

[प्रति : सुश्री शिरीष पे, बम्बई]

प्रिय शिरीष,

प्रेम । पत्र मिला ।

Sex के संबंध में पूछा है । वह शक्ति भी परमात्मा की है । साधना से क्रमशः उसका भी रूपांतरण (Transformation) हो जाता है । शक्ति तो कोई भी बुरी नहीं है । हाँ, शक्तियों के बुरे उपयोग अवश्य हैं । काम-वासना ही जब ऊर्ध्वगामी होती है तो ब्रह्मचर्य बन जाती है ।

Sex के प्रति विरक्ति आ रही है, यह शुभ है पर इतना ही पर्याप्त नहीं है । उसके रूपांतरण की दिशा में विधायक रूप से साधना करनी आवश्यक है । अन्यथा अकेला निषेध चित्त को सूखा-सूखा, रस-शून्य कर जाता है ।

यह भी सत्य है कि Sex के जीवन में तुम अकेली नहीं हो; लेकिन मूलतः और गहरे में काम-वासना शरीर की नहीं, मन की वृत्ति है । मन पूर्णतः परिवर्तित हो, तो उसका परिणाम संबंधित दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ना शुरू होता है । और जिससे इतने निकट के संबंध हैं, वह तो और भी शीघ्रता से प्रभावित होता है ।

अभी, जब तक मूझे नहीं मिलती हो, तब तक कुछ बातें ध्यान में रखना ।

१. Sex के प्रति चेटित रूप से कोई दृमाव नहीं होना चाहिए । विरक्ति आगेपित हो तो व्यर्थ है ।

२. मैथुन की अवस्था में भी सजग और जागरूक भाव रखो । उस अवस्था में भी साक्षी रहो । उस क्षण को भी जो ध्यान और सम्यक् स्मृति का क्षण बना लेता है, वही Sex की शक्ति को रूपांतरित करने में सफल होता है ।

मैं जब मिलूंगा तब इस संबंध में और बातें हो सकेंगी । ब्रह्मचर्य तो पूरा विज्ञान ही है । उस ओर जाने से क्रमशः आनंद के बहुत से द्वार खुलने प्रारंभ होते हैं । लेकिन, सबसे पहली बात है, स्वयं की शक्तियों के प्रति मैत्री भाव । स्वयं की शक्तियों के प्रति अनुभाव रखने से आत्मकांति तो नहीं होती, आत्म-घात अवश्य ही हो जाता है ।

वहां सबकी मेरे प्रणाम कहना ।

पूना तुम नहीं आ रही हो तो अभाव तो लगेगा ही ।

रजनीश के प्रणाम

४-६-१९६६

[प्रति : सुश्री शिरीष पे, बम्बई]

प्रिय शिरीष,

प्रेम । तुम्हारा पत्र ।

'मंसार का चक्र घूम रहा है', लेकिन उसके साथ तुम क्यों घूम रही हो ? शरीर और मन के भीतर जो है, उसे देखो—वह तो न कभी घूमा है, न घूम रहा है, न घूम सकता है। वही तुम हो । 'तत्त्वमसि, श्वेतकेतु' ।

सागर की सतह पर लहरें हैं, पर गहराई में ? वहां क्या है ? सागर को उसकी सतह ही समझ लें तो बहुत भूल हो जाती है ।

बैलगाड़ी के चाक को देखना । चाक घूमता है, क्योंकि कील नहीं घूमती है, स्वयं की कील का स्मरण रखो । उठते, बैठते, सोते, जागते उसकी स्मृति को जगाये रखो । धीरे धीरे सारे परिवर्तन के पीछे उसके दर्शन होने लगते हैं जो कि परिवर्तन नहीं है ।

कविता के लिए पूछा है ? किसी से पढ़वाकर थोड़ा सुना था । फिर मन मे आया कि शिरीष से ही सुनूंगा । अब जब तुम सुनाओगी, तभी सुनूंगा । उसमें कविता और तुम दोनों को ही साथ पढ़ सकूंगा ।

रजनीश के प्रणाम

[प्रति : मुन्शी शिरीष पै, बम्बई]

प्यारी शिरीष,

यह शुभ है कि तू अतीत को भूल रही है। इसमें जीवन की एक विल्कुल ही अभिनव दिशा आरंभ होगी। वर्तमान में पूरी तरह होना ही मुक्ति है। चित्त-स्मृति के अतिरिक्त अतीत की कोई सत्ता नहीं है और ना ही गगन-विहारी कल्पना को छोड़ भविष्य का ही कोई अस्तित्व है। जो है, वह तो सदा वर्तमान है। उम्र वर्तमान में जो अशेष भाव से जीने लगता है, वह परमात्मा में ही जीने लगता है। अतीत और भविष्य से मुक्त होने ही चित्त शांत और दून्य हो जाता है। उसकी लहरें विलीन हो जाती हैं और तब तो वही वचता है जो कि असीम है और अनंत है। वह सागर ही सत्य है। तेरी सख्ती उम्र सागर तक पहुंचे यही मेरी कामना है।

रजनीश के प्रणाम

११-१२-६६

पुनश्च : संभवतः जनवरी में मैं अहमदाबाद जाऊं—क्या तू मेरे साथ वहां चल सकेगी। किमी प्रवास में दो-चार दिन साथ रहे तो अच्छा ही।

प्यारी शिरीष

प्रेम से बड़ी चीज और देने को क्या है ? और फिर भी तू कहती है : 'क्या दिया है मैंने ?' पागल ! प्रेम देने के बाद तो फिर न देने को ही कुछ बचता है और न देने वाला ही बचता है । क्योंकि प्रेम देना वस्तुतः स्वयं को ही देना है । तूने दिया है स्वयं को । और अब तू कहाँ है ?

और स्वयं को खोकर अब तू निश्चय ही उस शिरीष को पा लेगी जिसे कि पाना चाहती थी । उस शिरीष का जन्म हो गया है । मैं हूँ साक्षी उसका । मैं हूँ उसका गवाह । वह संगीत मैं सुन रहा हूँ जो तू बनेगी । उस दिन हृदय जब हृदय के निकट था तभी सुन लिया था उस संगीत को । बुद्धि जानती है वर्तमान को लेकिन हृदय के लिए तो भविष्य भी वर्तमान ही है ।

रजनीश के प्रणाम

५-४-१९६७

[प्रति : सुश्री शिरीष पे, बम्बई]

मेरे प्रिय,

प्रेम ।

ऐसा कहां होता है कि दो व्यक्तियों में मिलन हो पाये ?

इस पृथ्वी पर तो नहीं ही होता है न ?

संवाद असंभव ही प्रतीत होता है ।

लेकिन कभी-कभी असंभव भी घटता है ।

उस दिन ऐसा ही हुआ ।

आपसे मिलकर लगा कि मिलन भी हो सकता है ।

और संवाद भी । और शब्दों के बिना भी ।

और आपके आंसुओं से मिला उत्तर ।

उन आंसुओं के प्रति मैं अत्यन्त अनुगृहीत हूँ ।

ऐसी प्रतिध्वनि तो कभी-कभी ही होती है ।

मधुशाला देख गया हूँ । फिर फिर देख गया हूँ ।

गीत गा सकता तो जो मैं गाता वही उसमें गाया है ।

संसार को भी आनंद से स्वीकार कर सके ऐसे संन्यास को ही मैं संन्यास कहता हूँ ।

क्या सच ही संसार और मोक्ष एक ही नहीं है ?

अज्ञान में द्वैत है । ज्ञान में तो वस एक ही है ।

आह ! प्रेम और आनंद के जो गीत गा नाच न सके वह भी क्या धर्म है ?

रजनीश के प्रणाम

८-९-६९

पुनश्च : शिव कहता है कि आप यहां आने को हैं ?

आवें—जल्दी ही । समय का क्या भरोसा है ?

देखें सुबह हो गई है और सूरज जन्म गया है ?

अब उसके अस्त हो जाने में देर ही कितनी है ?

[प्रति : कविवर वच्चन, दिल्ली]

प्यारी कुसुम.

प्रेम । तेरे हृदय की भांति ही मरल और कुआंरा पत्र पाकर अति आनंदित हूं ।

वह तू लिखना चाहती है जो कि लिखा ही नहीं जा सकता है इसलिए अनलिखा पत्र ही भेज देती है ।

यह भी ठीक ही है; क्योंकि जो न कहा जा सके, उस संबंध में मौन ही उचित है ।

लेकिन ध्यान रहे कि मौन भी मुखर है ।

वह भी कहता है और बहुत कहता है ।

शब्द जिसे नहीं कह पाते हैं, मौन उसे भी कह पाता है ।

रेखायें जिसे नहीं घेर पाती हैं, शून्य उसे भी घेर लेता है ।

असल में तो शून्य से अनघिरा वच ही क्या सकता है ?

मौन से अन्कहा भी कुछ नहीं बचता है ।

शब्द जहां व्यर्थ हैं, निशब्द वहीं सार्थक है ।

आकार की जहां सीमा है, निराकार का वहीं प्रारंभ है ।

इसीलिए वेद का जहां अंत है, वेदान्त का वहीं जन्म है ।

वेद की मृत्यु ही वेदान्त है ।

शब्द से मुक्ति ही सत्य है ।

कपिल को प्रेम । अमंग को आशीष ।

रजनीश के प्रणाम

३-११-६९

प्यारी कुसुम,

प्रेम । न बाहर में खड़ा हूँ तो तेरे पत्र लिखे हैं ?

मूनि में बड़ा बीज जैसे बगी की प्रतीक्षा करता है, ऐसे ही तू प्रभु को प्रतीक्षा करता है ।

प्रार्थना और प्रतीक्षापूर्ण समर्पण ही उसका द्वार भी है ।

स्वयं को पूर्यया छोड़ दे—ऐसे जैसे कि कोई नदी नदी में बहती है ।

पनवार नहीं चलाना है, बस नदी को छोड़ देना है ।

नैरता नहीं है—बस बहना है ।

फिर तो नदी स्वयं ही सागर तक पहुंचा देती है ।

सागर तो अति निकट है, लेकिन उन्हीं के लिए जो कि नैरते नहीं, बहते हैं ।

और डूबने का भय मत रखना क्योंकि फिर उनी से तैरने का जन्म हो जाता है ।

मच तो यह है कि प्रभु में जो डूबना है, वह नदी के लिए उबर जाता है ।

और कहीं पहुंचने की आकांक्षा भी मत रखना ।

क्योंकि जो कहीं पहुंचना चाहता है, वह तैरने लगता है ।

नदी ध्यान रखना कि जहाँ पहुंच गए वही मंजिल है ।

इसलिए जो प्रभु को मंजिल बनाने हैं, वे मटक जाते हैं ।

सर्व मंजिलों से मुक्त होते ही चेतना जहाँ पहुंच जाती है, वही परमात्मा है ।

कपिल को प्रेम । अर्पण को आर्चाय ।

रजनीश के प्रणाम

१९-११-६९

प्यारी अनसूया,

प्रेम । तेरे पत्र ने हृदय को आनंद से भर दिया है ।

एक बड़ी क्रांति के द्वार पर तू खड़ी है ।

और तू उससे भागना भी चाहे तो मैं तुझे भागने न दूंगा ।

उसमें निश्चय ही तुझे मिटना होगा ।

लेकिन इसीलिये कि नयी होकर तू प्रगट हो सके ।

स्वर्ण को अग्नि से गुजरना पड़ता है और तभी वह शुद्ध हो पाता है ।

प्रेम तेरे लिए अग्नि है ।

उसमें तेरी अस्मिता जल जाये ऐसी ही प्रार्थना में प्रभु से करता हूँ ।

और प्रेम आये तो फिर प्रार्थना भी आ सकती है ।

प्रेम के अभाव में तो प्रार्थना असंभव है ।

और ध्यान रखना कि शरीर और आत्मा दो नहीं हैं ।

व्यक्तित्व का जो हिस्सा दिखाई पड़ता है वह शरीर है और जो नहीं दिखाई पड़ता है, वह आत्मा है ।

और यही सत्य पदार्थ और परमात्मा के सम्बन्ध में भी सत्य है ।

दृश्य परमात्मा पदार्थ है और अदृश्य पदार्थ परमात्मा है ।

जीवन को सहजता और सरलता से ले ।

स्वीकार से उसके अनंत रूपों का स्वागत कर ।

और जीवन पर स्वयं को मत थोप ।

जीवन का अपना अनुशासन है, अपना विवेक है और जो उसे समग्रता से जीने को तैयार हो जाते हैं, उन्हें फिर किसी और अनुशासन और विवेक की आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

लेकिन तू सदा जीवन से भयभीत रही है ।

इसीलिए प्रेम से भयभीत है ।

लेकिन वह क्षण आ ही गया है कि जीवन तेरी सुरक्षा दीवारों को तोड़ कर भीतर आ गया है । यह प्रभु की तुझ पर अनंत कृपा है ।

अब उससे भाग मत ।

अनुग्रहपूर्वक उसे भेंट ले ।

और मेरी शुभकामनायें तो मदा तेरे साथ ही हैं ।

रजनीश के प्रणाम

३-११-६९

[प्रति : मुथी अनसूया, बम्बई]

प्यारी डाली,

प्रेम । नेरे पत्र मिले हैं । लेकिन उन्हें केवल पत्र ही तो कहना कठिन है? वस्तुतः तो वे प्रेम से जन्मी कवितायें हैं । प्रेम ने और प्रार्थना ने भी । क्योंकि जहाँ प्रेम है, वहीं प्रार्थना है ।

इसीलिए, जिससे प्रेम है, उसमें परमात्मा की झलक मिलने लगती है ।

प्रेम वां आंखें दे देता है, जिनमें कि परमात्मा देखा जा सकता है ।

प्रेम उसके दर्यान का द्वार है ।

और जब समग्र से प्रेम होता है तो वह समग्र में दिखाई पड़ने लगता है ।

लेकिन अंध और अंधी में कोई विरोध नहीं है ।

एक से भी प्रेम की गहराई अंततः समग्र पर फैलने लगती है ।

क्योंकि प्रेम व्यक्तियों को पिघला देता है और फिर अव्यक्ति ही शेष रह जाता है ।

प्रेम है सूर्य की भांति ।

व्यक्ति है जमी हुई बर्फ की भांति ।

प्रेम का सूर्य बर्फ-पिंडों को पिघला देता है और फिर जो शेष रह जाना है वह असीम सागर है ।

इसलिए प्रेम की खोज वस्तुतः परमात्मा की ही खोज है ।

क्योंकि, प्रेम पिघलाता ही है और मिटाता ही है ।

क्योंकि, प्रेम पिघलाता ही है और मिटाता ही है ।

क्योंकि वह जन्म भी है और मृत्यु भी है ।

उसमें स्व मिटना है और सर्व जन्मता है ।

और निश्चय ही मृत्यु में पीड़ा है और जन्म में भी ।

इसीलिये प्रेम एक गहरी पीड़ा है ।

मृत्यु की भी और प्रसव की भी ।

लेकिन तुझसे ले रहे काव्य संकेत मुझे आश्चर्य करने हैं कि प्रेम की पीड़ा के आनंद का अनुभव प्रारम्भ हो गया है ।

रजनीश के प्रणाम

३-११-६९

[प्रति : मृथी डाली दीदी, पूना, महाराष्ट्र]

प्यारी कंचन,

प्रेम । तेरा पत्र मिले बहुत देर हो गई है ।

और प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा करते करते भी तू थक गई होगी ! लेकिन धैर्य
पूर्ण प्रतीक्षा का अपना ही आनंद है ।

परमात्मा के पथ पर तो अनंत-प्रतीक्षा ही साधना है ।

प्रतीक्षा और प्रतीक्षा और प्रतीक्षा

और फिर जैसे कली फूल बननी है, वैसे ही सब कुछ अपने आप हो जाता
है ।

नारंगोल तो आ रही है न ?

वहाँ सबको प्रणाम ।

रजनीश के प्रणाम

२-१०-६८

[प्रति : सुश्री कंचन बहन, बल्लभार, गुजरात]

मेरे प्रिय,

प्रेम । तुम्हारा पत्र पाकर कितना आनन्दित हूँ ? कैसे कहूँ ?

जब भी तुम्हें देखता था लगता था : कब तक — कब तक दूर रहोगे ?
और जानता था कि तुम्हें पान तो आना ही है—

वस नमय का ही सवाल है ।

इसलिए, प्रतीक्षा करता रहा और तुम्हारे लिए परमात्मा ने प्रार्थना
भी ।

मैं तो प्रार्थनापूर्ण प्रतीक्षा को ही प्रेम कहता हूँ ।

और यह भी मैं जानता था कि तुम प्रभव पीड़ा में गुजर रहे हो और तुम्हारा
हमरा जन्म अत्यंत निकट है ।

क्योंकि उस जन्म से ही तुम्हारे गीतों को आत्मा मिल सकती थी ।

शब्द तो शरीर है ।

शरीर का भी अपना सौंदर्य है, अपनी लय है, अपना संगीत है ।

लेकिन वह पर्याप्त नहीं है ।

और उस अपर्याप्त को ही जो पर्याप्त समझ लेना है, वह सदा को ही
अतृप्त रह जाता है ।

काव्य की आत्मा तो निशब्द में है ।

मैं तो प्रार्थनापूर्ण प्रतीक्षा को ही प्रेम कहता हूँ । और शून्य, प्रभु के मंदिर
का द्वार है ।

तुम मेरे निकट आये हो और मैं तुम्हें प्रभु के निकट ले चलना चाहता
हूँ ।

क्योंकि उसके निकट आये बिना तुम मेरे निकट भी तो कैसे आ सकते
हो ?

वस्तुतः तो उसके निकट आये बिना कोई अपने भी निकट नहीं आ सकता
है ।

और उसके निकट पहुंचते ही वह जन्म हो जाता है, जिसके लिए ही
तुमने बहुत जन्म लिये हैं ।

स्वयं के निकट आ जाना ही दूसरा जन्म है ।

द्विज होने का सूत्र वही है ।

और ध्यान रखना कि सड़क पर पड़ा हुआ कंकड़ कोई भी नहीं है—
सड़क पर पड़े हुए कंकड़ भी नहीं—बस वे भी दूसरे जन्म की प्रतीक्षा में हैं—
क्योंकि दूसरा जन्म प्रत्येक को हीरा बना देता है ।

रजनीश के प्रणाम

७-१२-६९

पुनश्च :

वानना के पीछे दौड़ना एक मृगमरीचिका के पीछे दौड़ते रहना है ।
वह एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु की यात्रा है । जीवन के भ्रम में इस भाँति मनुष्य
बार बार मरता है । लेकिन जो वासना के प्रति मरने को राजी हो जाते हैं,
वे पाते हैं कि उनके लिये स्वयं मृत्यु ही मर गई है ।

[प्रति : श्री रामकृष्ण दीक्षित 'विश्व', जवलपुर (म० प्र०)]

प्यारी कंचन,

प्रेम । तेरा पत्र और तेरी जिज्ञासा ।

'मैं' जहाँ है वहीं बाधा है ।

'मैं-भाव' ही एकमात्र बाधा है ।

इसलिए प्रतिफल—जागते-सोते, उठते-बैठते—'मैं' के प्रति सजग रह ।

बढ़-कहाँ-कहाँ और कब-कब उठता है, उसे देख-पहचान और स्मरण रख ।

क्योंकि उसकी पहचान—उसकी प्रत्यभिज्ञा (Recognition) ही उसकी मृत्यु है ।

बढ़ मत्स्य नहीं है—बस स्वप्न ही है ।

और स्वप्न के प्रति जागने से स्वप्न टूट जाता है ।

स्वप्न को छोड़ा नहीं जा सकता है ।

जो है ही नहीं—उसे छोड़ने का उपाय ही नहीं है ।

उसके प्रति तो बस जागना ही पर्याप्त है ।

अहंकार मनुष्य का स्वप्न है— उसकी निद्रा है ।

इसलिए जो उसे छोड़ने-त्यागने की चेष्टा में पड़ने हैं वे और भी दूसरे भ्रम में पड़ने हैं ।

उसकी विनम्रता—निरहंकारिता भी स्वप्न ही होती है ।

जैसे कोई निद्रा में ही जागने का स्वप्न देख ले ।

तू उस चक्कर में मत पड़ जाना ।

बस एक ही ध्यान रख — जाग और पहचान ।

जहाँ सबको प्रणाम ।

रजनीश के प्रणाम

१८-७-१९६८

प्यारा दर्शन,

प्रेम । तेरा पत्र मिला है ।

उसे पाकर अति आनंदित हूँ ।

इसलिये भी कि तूने अनलिखा—कोरा कागज भेजा है ।

लेकिन, मैंने उसमें वह सब पढ़ लिया है, जो कि तूने नहीं लिखा है, लेकिन लिखना चाहती थी ।

शब्द वैसे भी क्या कह पाते हैं ?

और लिखकर भी तो जो लिखना था, वह सदा अनलिखा ही रह जाता है ।

इसलिए तेरा मौन-पत्र बहुत प्यारा है ।

वैसे भी जब तू मिलने आती है तो चुप ही रहती है ।

लेकिन तेरी आंखें सब कह देती हैं ।

और तेरा मौन भी ।

किसी गहरी प्यास ने तुझे स्पर्श किया है ।

किसी अज्ञात तट ने तुझे पुकारा है ।

प्रभु जब बुलाता है तो ऐसे ही बुलाता है ।

लेकिन कब तक तट पर खड़े रहना है ?

देख—सूरज निकल आया है और हवायें नाव के पालों को उड़ाने की फंसी आतुर हैं !

रजनीश के प्रणाम

७-१२-१९६९

[प्रति : सुश्री दर्शन बालिया, बम्बई]

मेरे प्रिय,

प्रेम । आपका पत्र पाकर अति आनंदित हूँ ।

जीवन में चिंतार्ये हैं, लेकिन चिंतित होना आवश्यक नहीं है ।

क्योंकि, चिंतित होना चिंताओं पर नहीं, बरन् उनके प्रति हमारे दृष्टि-
कोण (Attitude) पर निर्भर है ।

इसलिए चिंतित व्यक्तित्व सदा ही हमारा चुनाव है ।

और अचिंतित व्यक्तित्व भी ।

ऐसा नहीं है कि अचिंतित व्यक्तित्व के लिए चिंतार्ये नहीं होती हैं ।

चिंतार्ये तो होती ही हैं ।

वे तो जीवन का अनिवार्य हिस्सा हैं ।

लेकिन वह उन्हें ओढ़कर नहीं बैठ जाता है ।

वह सदा ही उनके पार देख पाता है ।

अंधेरी रात्रियाँ उसे भी घेरती हैं, लेकिन उसकी दृष्टि सुबह के उगने
वाले सूरज पर लगी होती है ।

इसलिए, उसकी आत्मा कभी भी अंधकार में नहीं डूब पाती है ।

और बस इतना ही आवश्यक है कि आत्मा अंधकार में न डूवे ।

शरीर तो डूवेगा ही ।

वस्तुतः वह तो डूबा ही है ।

मरणधर्मा का जीवन अंधकार में ही है ।

आलोक में अमृत के अनिरिक्त और कोई अपनी जड़ें फैलाना चाहे तो
कैसे फैला सकता है ?

गुणा को प्रेम ।

वर्चों को आशीष ।

सबको प्रणाम ।

रजनीश के प्रणाम

७-१२-१९७०

[प्रति : श्री ईश्वरभाई शाह, जीवन जागृति केंद्र, बम्बई]

मेरे प्रिय,

प्रेम । तुम्हारा पत्र मिला ।
काम-वासना से भयभीत न हों ।
क्योंकि भय हार की शुरुआत है ।
उसे भी स्वीकार करें ।
वह भी है और अनिवार्य है ।
हां—उसे जानें जरूर—पहचानें ।
उसके प्रति जागें ।

उसे अचेतन (Unconscious) से चेतन (Conscious)
बनावें ।

निंदा से यह कभी भी नहीं हो सकता है ।
क्योंकि, निंदा दमन (Repression) है ।
और दमन ही वृत्तियों को अचेतन में ढकेल देता है ।
वस्तुतः तो दमन के कारण ही चेतना चेतन और अचेतन में विभाजित हो
गई है ।

और यह विभाजन समस्त द्वन्द्व (Conflict) का मूल है ।
यह विभाजन ही व्यक्ति को अखंड नहीं बनने देता है ।
और अखंड बने बिना शांति का, आनंद का, मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है ।
इसलिए काम-वासना पर ध्यान करो ।
जब वह वृत्ति उठे तो ध्यान पूर्वक (Mindfully) उसे देखो ।
न उसे हटाओ, न स्वयं उससे भागो ।
उसका दर्शन अभूतपूर्व अनुभूति में उतार देता है ।
और ब्रह्मचर्य इत्यादि के संबंध में जो भी सीखा-सुना हो,
उसे एकवारगी कचरे की टोकरी में फेंक दो
क्योंकि, इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होने का और कोई मार्ग
नहीं है ।

वहाँ सबको मेरा प्रणाम ।

रजनीश के प्रणाम

१६-२-७०

[प्रति : श्री जयन्तीलाल, भावनगर, गुजरात]

मेरे मित्र,

प्रेम । आनन्द को चाहो ही मत ।

क्योंकि, वह चाह ही आनन्द के मार्ग में बाधा है ।

जीवन को जियो ।

चाह के किनारों में बाँधकर नहीं ।

लक्ष्य की मंजिल को ध्यान में रखकर नहीं ।

जियो । उन्मुक्त ।

जियो । पल पल ।

और डरो मत ।

भयभीत न होओ ।

क्योंकि खोने को कुछ भी नहीं है ?

और पाने को कुछ भी नहीं है ।

और जिस क्षण ऐसे हो रहोगे उसी क्षण जीवन का सब कुछ मिल जाता है ।

लेकिन, भलकर भी जीवन के द्वार पर भिखारी होकर मत जाना ।

कुछ मांगते हुए मत जाना ।

क्योंकि वह द्वार भिखारियों के लिए कभी खुलता ही नहीं है ।

रजनीश के प्रणाम

१७-२-७०

प्यारी अनुसूया,

प्रेम । लिखा है तूने कि टूट सी गई है ।

अच्छा हो कि बिल्कुल ही टूट जा, मिट ही जा ।

जो है—वह तो सदा ही है, लेकिन जो हुआ है वह तो दूटेगा ही ।

होना मिटाने की तैयारी है ।

और इसलिए स्वयं को वचाना ही मत ।

जो वचाता है, वह नहीं वचता है ।

और जो मिट जाता है वह उसे पा लेता है जो कि मिटने और बनने के

बाहर है ।

लेकिन तू स्वयं को वचाने में लगी है !

इसलिए तो टूटना अखरता है !

लेकिन वचाने को है भी क्या ?

और जो वचाने योग्य है वह तो वचा ही हुआ है ।

रजनीश के प्रणाम

१६-२-७०

[प्रति : सुधी अनुसूया वहन, बंबई]

प्यारी कुसुम,

प्रेम । तेरा वर मिल गया है ।

गर्मी के बाद जैसे बरती वर्षा के लिए प्यासी होती है;

ऐसे ही तू प्रभु के लिए प्यासी है ।

यह प्यास ही तो उसकी बदलियों के लिए निमंत्रण बन जाती है ।

और निमंत्रण पहुंच गया है ।

तू तो वस ध्यान में ही डूबती जा ।

उसकी कदवा की वर्षा तो होंगी ही ।

वस इधर तू तैयार नर हो—वह तो उधर सदा ही तैयार है ।

देख—क्या आकाश में उसकी बदलियां नहीं मंडराने लगी हैं !

कफिल से प्रेम ।

असंग को आशीष ।

रजनीश के प्रणाम

१३-२-७०

मेरे प्रिय,

प्रेम । विश्राम परम लक्ष्य है, श्रम साधन ।

पूर्ण विश्राम परम लक्ष्य है जहां कि श्रम से पूर्ण मुक्ति है ।

फिर जीवन लीला है ।

फिर श्रम है तो खेल है ।

ऐसे खेल से ही समस्त संस्कृति का जन्म हुआ है ।

काव्य, दर्शन, धर्म सब विश्राम की उपलब्धियाँ हैं ।

आज तक सबके लिये ऐसा नहीं हो सका है ।

लेकिन टेकनोलाजी और विज्ञान के द्वारा भविष्य में यह संभव है ।

इसलिए ही मैं टेकनोलाजी के पक्ष में हूँ ।

लेकिन जो श्रम में किमी आंतरिक मूल्य (Intrinsic value) का दर्शन करते हैं,

वे यंत्रों का विरोध ही करते हैं, और कर सकते हैं ।

मेरे लिए श्रम में कोई आंतरिक मूल्य नहीं है ।

विपरीत, वह एक बोझ है ।

जब तक विश्राम के लिए श्रम आवश्यक है, तब तक श्रम आनंद नहीं हो सकता है ।

जब विश्राम से और परिणामतः स्वेच्छा से श्रम निकलता है, तभी वह आनंद होता है और हो सकता है ।

इसलिए मैं "आराम" को "हराम" करने में असमर्थ हूँ ।

फिर मैं त्याग का भी समर्थक नहीं हूँ ।

मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए जिए या एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के लिए 'कुर्बानी' करे । ऐसी कुर्बानियाँ बहुत महंगी पड़ी हैं, और

जो उन्हें करता है वह उनके बदले में अमानवीय अपेक्षाएँ करने लगता है ।

बापों की बेटों से असंभव अपेक्षाओं का कारण ही यही है ।

फिर यदि हर बाप अपने बेटे के लिए जिये तो कोई भी कभी जी ही नहीं पायेगा, क्योंकि हर बेटा बाप बनने को है ।

नहीं—मैं तो चाहता हूँ कि प्रत्येक अपने लिए जिये—अपने सुख के लिए—अपने विश्राम के लिए ।

बाप जब सुखी होता है तब अपने बेटे के लिए महज ही बहुत कुछ कर पाता है ।

वह सब उसके बाप और सुखी होने से ही निकल आता है ।

वह 'कुर्बानी' नहीं है और न ही 'त्याग' है ।

वह सब तो बाप होने का आनंद है ।

और तब वह बेटों से अमानवीय अपेक्षाएँ नहीं रखता है ।

और जहाँ अपेक्षाओं का दबाव नहीं, वह अपेक्षाएँ भी पूरी हो सकती हैं ।

वह पूरा होना भी बेटे के बेटे होने से निकलता है ।

संक्षेप में, मैं प्रत्येक व्यक्ति को स्वार्थी होना सिखाता हूँ ।

परार्थ की शिक्षाओं ने मनुष्य को आत्मघात के अनिश्चित और कुछ भी नहीं सिखाया है ।

और आत्मघाती मनुष्य सदा ही परवाती होता है ।

दुखी दूसरों को भी दुख बांटता रहता है ।

मैं भविष्य के लिए भी वर्तमान की बलि चढ़ाने के विरोध में हूँ ।

क्योंकि जो है, वह वर्तमान है ।

उसे जियें उसकी पूर्णता में और फिर उससे भविष्य भी जन्मेगा ।

लेकिन वह भी जब आयेगा तब वर्तमान ही होगा ।

और जिसने वर्तमान को भविष्य पर बलि करने की आदत बना ली है उसके लिए भविष्य कभी भी आने को नहीं है ।

क्योंकि जो आता है वह सदा न आये के लिए बलि कर दिया जाता है ।

और अंततः आपने पूछा है कि आप भी तो दूसरों के लिए और भविष्य के लिए श्रम कर रहे हैं ?

प्रथम तो मैं श्रम कर ही नहीं रहा हूँ ।

क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूँ वह मेरे विश्राम का ही बहाव है ।

मैं तैर नहीं रहा हूँ—बस वह ही रहा हूँ ।

और दूसरों के लिए कोई कभी कुछ कर ही नहीं सकता है ।

हां—जो मैं हूँ, उसमें दूसरों के लिए कुछ हो जाये तो वह दूसरी बात है ।

उसमें भी मैं कर्ता नहीं हूँ ।

और रहा भविष्य ?

सो मेरे लिए तो वर्तमान ही सब कुछ है ।

अतीत भी वर्तमान है—जो जा चुका, और भविष्य भी—जो कि आने को है ।

और जीना तो सदा—अभी और यहाँ (Here & Now) है, इसलिए मैं अतीत और भविष्य की चिंता नहीं करता हूँ ।

और आश्चर्य तो यह है कि जब से मैंने उनकी चिंता छोड़ी है, तबसे वे मेरी चिंता करने लगे हैं ।

वहां सबको मेरे प्रणाम ।

रजनीश के प्रणाम

२-१-१९७०

[प्रति : श्री यशवंत मेहता, २१/२२ प्रीतमनगर, एलिस वृज, अहमदाबाद]

प्रिय मथुरा बाबू,

प्रेम । पत्र मिला है ।

प्रयोजन खोजते ही क्यों हैं ?

खोजेंगे तो वह मिलेगा ही नहीं ।

क्योंकि, वह तो सदा खोजने वाले में ही छिपा है ।

जीवन निष्प्रयोजन है ।

क्योंकि, जीवन स्वयं ही अपना प्रयोजन है ।

इसलिए जो निष्प्रयोजन जीता है, वही केवल जीता है ।

जियें—और क्या जीना ही काफी नहीं है ?

जीने से और ज्यादा की आकांक्षा जी ही न पाने से पैदा होती है ।

और इससे ही मृत्यु का भय भी पकड़ता है ।

जो जीता है, उसकी मृत्यु ही कहाँ है ?

जीना जहाँ समग्र और सघन है, वहाँ मृत्यु के भय के लिए अवकाश ही नहीं है ।

वहाँ तो मृत्यु के लिए भी अवकाश नहीं है ।

लेकिन प्रयोजन की भाषा में न सोचें ।

वह भाषा ही रुग्ण है ।

आकाश निष्प्रयोजन है ।

परमात्मा निष्प्रयोजन है ।

फूल निष्प्रयोजन खिलते हैं ।

और तारे निष्प्रयोजन चमकते हैं ।

तो बेचारे मनुष्य ने ही क्या बिगाड़ा है, कि वह निष्प्रयोजन न हो सके ?

लेकिन मनुष्य सोच सकता है, इसलिए उपद्रव में पड़ना है ।

थोड़ा सोच सदा ही उपद्रव में ले जाता है ।

सोचना ही है तो पूरा सोचें ।

फिर सिर घूम जाता है और सोचने से मुक्ति हो जाती है ।

और तभी जीने का प्रारंभ होता है ।

रजनीश के प्रणाम

२-१-१९७०

[प्रति : श्री मथुरा बाबू, पटना]

५१ / शून्य ही द्वार है, मार्ग है, मंजिल है

मेरे प्रिय,

प्रेम ।

महारे मात्र बाधाये है ।

सब महारे छोड़े—क्योंकि तभी उसका सहारा मिल सकत

वह तो केवल बेसहारा का सहारा है ।

और उसके अतिशक्त गुरु और कोई भी नहीं है ।

शेष सब गुरु उसके मार्ग में अवरोध है ।

गुरु को पाना हो तो गुरुओं से बचें ।

और शून्य होने से न डरें ।

क्योंकि वही द्वार है । ।

वही सार है ।

वही मंजिल है ।

शून्य होने का साहस ही पूर्ण होने की क्षमता है ।

जो भर है, वे खाली रह जाते हैं ।

और जो खाली है, वे भर जाते हैं ।

ऐसा ही उसका गणित है ।

और कुछ करने की न सोचें ।

करने में वह नहीं मिलता है ।

न जप से, न तप से ।

क्योंकि वह तो मिला ही हुआ है ।

रुकें और देखें ।

करना ही दाँड़ना है ।

न करना ही रुकना है ।

आह ! काश ! वह दूर होता तो दाँड़कर मिल जाता

लेकिन, वह तो निकट से भी निकट है ।

काश ! उसे खोया होता तो खोज भी लेते ।

लेकिन, उसे खोया ही कब है ?

रजनीश के प्रणाम

१३-५-१९७०

[प्रति : श्री रमानांत उपाध्याय, काठमांडू, नेपाल]

प्यारी कुसुम,

प्रेम । एक ऐसा संगीत भी है, जहाँ कि स्वर नहीं है ।

प्राण उस स्वर-शून्य संगीत के लिए ही आतुर है ।

एक ऐसा प्रेम भी है, जहाँ कि बग़ीर नहीं है ।

प्राण उन शरीर मुक्त प्रेम के लिए ही आतुर है ।

एक ऐसा सत्य भी है जहाँ कि आकार नहीं है ।

प्राण उस निराकार सत्य के लिए ही आतुर है ।

इसीलिए, स्वरों से तृप्ति नहीं होती है ।

इसीलिए, शरीरों से संतोष नहीं होता है ।

इसीलिए, आकार से आत्मा नहीं भरती है ।

लेकिन, इस अतृप्ति, इस असंतोष को ठीक से पहचानना आवश्यक है ।

क्योंकि, वह पहचान ही अंततः अतिक्रमण (Transcendence) बनती है ।

फिर स्वर ही स्वर शून्यता का द्वार बन जाता है ।

और शरीर ही अशरीरी का मार्ग बन जाता है ।

और आकार ही निराकार हो जाता है ।

रजनीश के प्रणाम

१३-५-७०

[प्रति : सुश्री कुसुम वहन, लुधियाना]

मेरे प्रिय,

प्रेम । मैं प्रवास में था । लौटा हूँ तो तुम्हारा पत्र मिला है । जीवन जागृति केन्द्र के मित्रों से मिलकर युवक क्रांति दल का कार्य शुरू कर सकते हो । उसका कोई विधान नहीं है । क्रांति का विधान हो भी नहीं सकता है । युवकों में विचार की जागृति हो और अंधविश्वासों की जगह वैज्ञानिक चिन्तना जगह ले । इतनी ही भर अपेक्षा है । इस वार जब मैं इन्दौर आऊँ तो जरूर मिलना । शेष शुभ । वहाँ सबको प्रणाम ।

रजनीश के प्रणाम

२२-११-१९७०

[प्रति : श्री दिनेश शाही, इंदौर (म० प्र०)]

प्यारी जयति,

प्रेम । तेरा पत्र पाकर आनंदित हूँ ।

इतनी ही पीड़ा झेलनी पड़ती है—यह तो प्रसव पीड़ा है न, स्वयं को जन्म देने की प्रसव पीड़ा ।

और पीछे लौटना संभव नहीं है ।

जहाँ लौटा जा सके, वह अतीत बचता ही कहाँ है ?

समय उन सीढ़ियों को मदा ही गिरा देता है जिससे चढ़कर कि हम वर्तमान तक आते हैं ।

लौटना नहीं, वस आगे जाना ही संभव है ।

आगे और आगे ।

और अंतहीन है वह यात्रा ।

मंजिल नहीं है, मुकाम नहीं है ।

वस पड़ाव है क्षण भर के ।

तम्बू है कि लग भी नहीं पाते उखड़ना शुरू हो जाता है ।

और अव्यवस्था से भयभीत क्यों ?

व्यवस्थाएँ मात्र झूठी हैं ।

जीवन है अव्यवस्था—असुरक्षा ।

और जिसे सुरक्षित होना है, उसे मरने के पहले ही मर जाना होता है ।

लेकिन, मरने की जल्दी क्या है ?

वह कार्य तो मृत्युस्वयं ही कर देगी । तब क्या ठीक नहीं है कि हम जी लें ।

और आश्चर्य तो यह है कि जो जीना जान लेता है, मृत्यु उसका घर भूल जाती है ।

क्योंकि, यही आवश्यक है ।

माली बीज बोकर क्या चुपचाप प्रतीक्षा नहीं करता है ?

लेकिन जब भी मेरी जरूरत होगी तब तू पायेगी कि मैं सदा पास में ही हूँ ।

डा० को प्रेम ।

वहाँ सबको प्रणाम ।

रजनीश के प्रणाम

१७-२-७०

[प्रति : सुश्री जयवंती, जूनागढ़]

५५ / प्रेम के दो रूप : काम और करुणा

मेरे प्रिय,

प्रेम । आपका पत्र मिला गया है ।

प्रेम और दया में बहुत भेद है ।

प्रेम में दया है ।

लेकिन दया में प्रेम नहीं है ।

इसलिए जो हो उसे हमें वैसा ही जानना चाहिए ।

प्रेम है तो प्रेम—दया है तो दया ।

एक को हमारा समझना या समझाना व्यर्थ की चिन्ताओं को जन्म देता है।

प्रेम साधारणतः अस्मभव ही हो गया है ।

क्योंकि मनुष्य जैसा है, वैसा ही वह प्रेम में नहीं हो सकता है ।

प्रेम में होने के लिए मन का पूर्णतया शून्य हो जाना आवश्यक है ।

और हम मन में ही प्रेम कर रहे हैं ।

इसलिए हमारा प्रेम निम्नतम हो तो काम (Sex) होता है और श्रेष्ठतम हो तो करुणा (Compassion) ।

लेकिन प्रेम काम और करुणा दोनों का प्रतिक्रमण है ।

इसलिए जो है उसे समझें ।

और जो होना चाहिए, उसके लिए प्रयास न करें ।

जो है, उसकी स्वीकृति और समझ से, जो होना चाहिए, उसका जन्म होता है ।

लीना को प्रेम ।

दूकन की आशीष ।

रजनीश के प्रणाम

१५-२-१९७०

[प्रति : डा० गुरु० आर० गान्ध, अध्यक्ष : मंगीत विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस (३० प्र०)]

मेरे प्रिय,

प्रेम । आपका पत्र मिला है ।

मन को शांत करने के उपद्रव नें न पड़ें ।

वह उपद्रव ही अशांति है ।

मन जैसा है — है ।

उसे वैसा ही स्वीकार करें ।

उस स्वीकृति में ही शांति फलित होनी है ।

अस्वीकार है अशांति ।

स्वीकार है शांति ।

और जो सर्व स्वीकार को उपलब्ध हो जाता है, वह प्रभु को उपलब्ध हो जाता है ।

अन्यथा मार्ग ही नहीं है ।

इसे ठीक से समझ लें ।

क्योंकि, वह समझ (Understanding) ही स्वीकृति लाती है ।

स्वीकृति हमारा संकल्प (Will) नहीं है ।

संकल्प मात्र अस्वीकृति है ।

जो ' मैं करता हूँ ' उसमें अस्वीकार छिपा ही है ।

क्योंकि संकल्प है अहंकार ।

और अहंकार अस्वीकार के भोजन के बिना नहीं जी सकता है ।

इसलिए, स्वीकार किया नहीं जाता है ।

जीवन को समझ स्वीकार ले आती है ।

देखें—जीवन को देखें ।

जो है—है ।

जैसा है, वैसा है ।

वस्तुयें ऐसी ही हैं (Things are such) ।

अन्यथा न चाहें; क्योंकि चाहें तो भी अन्यथा नहीं हो सकता है ।

चाह बढ़ी नर्पुसक है ।

आह ! और जहां चाह नहीं है, क्या वहाँ अशांति है ?

लीना को प्रेम ।

टूकन को आशीष ।

रजनीश के प्रणाम

१६-२-१९७०

[प्रति : डा० एम० आर० गीतम, व

मेरे प्रिय ।

प्रेम ।

स्वयं से लड़ें न ।

जैसे हैं—हैं ।

बदलने की चेष्टा न करें ।

जीवन में तैरें नहीं— बहें;

जैसे सरिता में सूखा पत्ता ।

साधना से बचें ।

साधना मात्र से ।

वस यही साधना है ?

जाना कहाँ है ।

होना क्या है ?

पाना किसे है ?

जो है— वह अभी है, यहीं है ।

कृपया रुकें और देखें ।

किस प्रकृति को पशु प्रकृति कहते हैं ?

क्या है निम्न ?

जो है—है ।

न कुछ नीचा है, न कुछ ऊँचा है ।

क्या है पाशविक ?

क्या है दिव्य ?

इसलिए न निंदा करें, न प्रशंसा ।

न स्वयं को कोसों और न स्वयं की पीठ थपथपायें ।

सब भेद विचार के हैं ।

सत्य में भेद नहीं है ।

वहाँ प्रभु और पशु एक हैं ।
स्वर्ग और नर्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ।
संसार और मोक्ष एक ही अज्ञात को कहने के दो ढंग हैं ।
और मेरी बातों की सोचना मत ।
सोचा कि चूके ।
देखना—बस देखना ।

रजनीश के प्रणाम

मेरे प्रिय,

प्रेम । विरह शुभ है । प्यास शुभ है । पुकार शुभ है ।

क्योंकि आसुओं के मार्ग से ही तो उमका आगमन होता है ।

रोओ, लेकिन इतना कि रोना ही बचे और तुम न बचो

रोने वाला मिट जाये और बस रोना ही बच रहे तो मंजिल स्वयं ही द्वार

पर आ जाती है ।

इसलिए ही रोका नहीं था और जाने दिया था ।

जानता था कि पछताओगे ।

लेकिन पछताने का मूल्य है ।

जानता था कि रोओगे ।

लेकिन रोने का उपयोग है ।

आंसुओं से ज्यादा गहरी प्रार्थना और क्या है ?

रवि को प्रेम ।

ओम को प्रेम ।

कंचन और मधु को प्रेम ।

रजनीश के प्रणाम

प्रिय रामचन्द्र

प्रेम ! मेरी दस आज्ञायें (Ten Commandments) पूछी हैं।

बड़ी कठिन बात है।

क्योंकि, मैं तो किसी भी भांति की आज्ञाओं के विरोध में हूँ।

फिर भी, एक खेल रहेगा इसलिए लिखता हूँ :

१-किसी की आज्ञा कभी मत मानो जब तक कि वह स्वयं की ही आज्ञा न हो।

२-जीवन के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है।

३-सत्य स्वयं में है, इसलिए उसे और कहीं मत खोजना।

४-प्रेम प्रार्थना है।

५-शून्य होना मन्य का द्वार है। शून्यता ही साधना है, साध्य है, सिद्धि है।

६-जीवन है अर्मा और यहीं।

७-जियो और जागे हुये।

८-तेरे मन--वहो।

९-मरो प्रतिपल ताकि प्रतिपल नये हो सको।

१०-खोजो मत। जो है -- है। रूको और देखो।

रजनीश के प्रणाम

८-४-१९७०

मेरे प्रिय,

प्रेम । जल्दी न करें ।

कमी-कमी जल्दी ही देरी बन जाती है ।

प्यास के साथ प्रतीक्षा भी जोड़ें ।

जितनी गहरी प्रतीक्षा हो, उतनी ही शीघ्रता होती है ।

बीज बो दिया है, अब छाया में बैठें और देखें कि क्या होता है ।

बीज दूरेगा, अंकुर नी बनेगा, लेकिन जल्दी तो नहीं की जा सकती है ।

प्रत्येक बात के लिए समय भी तो चाहिए न ?

थम करें जरूर लेकिन फल परमात्मा पर छोड़ दें ।

जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है ।

और सत्य की ओर उठाया हुआ कदम तो कमी भी नहीं ।

लेकिन कमी-कमी अवैयं जरूर बाधा बन जाता है ।

प्यास के साथ वह आता भी है ।

लेकिन, प्यास को बचा लें और उसे विदा दे दें ।

प्यास और अवैयं को एक समझने की मूल न करें ।

प्यास में खोज है लेकिन दौड़ नहीं है ।

अवैयं में दौड़ है लेकिन खोज नहीं है ।

प्यास में वाट है लेकिन मांग नहीं ।

अवैयं में मांग है लेकिन वाट नहीं ।

प्यास में शांत रहन है ।

अवैयं में अज्ञात छिना-अपटी है ।

और सत्य के लिए आक्रमण नहीं किया जा सकता है ।

वह मिलता है, लड़ने से नहीं, हारने से ।

उसे जीतने की कला सब भाँति हार जाना ही है ।

मधु को प्रेम ।

रजनीश के प्रणाम

११-४-७०

[प्रति : श्री बाबूनाई माह, संस्कार तीर्थ, आजोल, गुजरात]

प्रिय मथुरा बाबू,

प्रेम । आपका पत्र मिला है ।

यह जानकर आनंदित हूं कि मां की मृत्यु से आपको स्वयं की मृत्यु का ख्याल आया है ।

मृत्यु के बोध में से ही अमृत की उपलब्धि की संभावना है ।

मृत्यु की चोट सदा गहरी है लेकिन मनुष्य का मन चालाक है और उसे भी टाल जाता है ।

आप टालना मन ।

स्वयं को समझाना मत ।

किसी भी भांति की सांत्वना आत्मघातक है ।

मृत्यु के घाव को ठीक से बचने देना ।

जागना और उस घाव के साथ जीना ।

कठिन होगा यह जीना ।

लेकिन, कठिनाई के बिना क्रांति भी तो नहीं है ।

मृत्यु है ।

सदा साथ है ।

लेकिन, हम उसे विस्मरण किये रहते हैं ।

मृत्यु रोज है ।

प्रतिपल है ।

लेकिन, हम उसके प्रति बेहोश बने रहते हैं ।

और इस कारण ही हमें इस जीवन का भी कोई पता नहा चलता है ।

मृत्यु से बचने में मनुष्य जीवन से भी चूक जाता है ।

क्योंकि वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ।

क्योंकि वे दोनों एक ही गाड़ी के दो चाक हैं ।

और जो उन दोनों का ही जान लेता है, उसके लिए वे दोनों एक ही हो जाते हैं ।

उस एकना का नाम ही अस्तित्व है ।

और उस अस्तित्व में होना ही मुक्ति है ।

रजनीश के प्रणाम

११-४-१९७०

[प्रति : श्री मथुराप्रसाद मिश्र, पटना, बिहार]

मेरे प्रिय,

प्रेम । अर्थ (meaning) की खोज ही अनर्थ है ।

अर्थ की खोज ने ही अर्थहीनता (meaninglessness) तक पहुंचा दिया है ।

अर्थ नहीं है, ऐसा जो जान लेता है वह परम अर्थ को उपलब्ध हो जाता है ।

क्योंकि फिर अर्थहीनता संभव ही नहीं है ।

और अनर्थ भी ।

फिर तो जो है अर्थ ही है ।

या, नहीं भी है, तब भी भेद नहीं है ।

असल में फिर तो जो—है, है । जो नहीं है, नहीं है और अन्यथा का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

और तुमने पूछा है कि प्रयोजन मुक्त होने की बात जरा खोलकर समझाऊँ ।

समझोगे तो वह बात कभी भी खुल न पायेगी ।

क्योंकि समझने की संभावना प्रयोजन के साथ है !

समझने में लगते ही क्यों हो ?

और देखो —बात खुलकर सामने खड़ी है न ?

सब खुला है और साफ है ।

लेकिन, मनुष्य समझने में लगा है ।

फिर, वह जो सामने है और साफ है, उसे देखे कौन ?

समझने की चेष्टा में ही उलझाव है ।

जानने की चेष्टा में ही अज्ञान है ।

न समझो न जानो ।

फिर वह छिपेगा ही कैसे जो कि —है (That—Which—Is) ?

सत्य मदा निर्वस्त्र है, सामने है, साफ है ।

रजनीश के प्रणाम

८-४-७०

प्रिय मायाजी,

प्रेम । आपका पत्र पाकर आनंदित हूँ ।

'मैं' को छोड़ना नहीं है ।

क्योंकि, जो है ही नहीं, उसे छोड़ियेगा कैसे ?

'मैं' को समझना है — खोजना है ।

वैसे ही जैसे कोई प्रकाश लेकर अंधकार को खोजे और अंधकार खो जाये ।

अंधकार मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वह है ही नहीं है ।

वस प्रकाश ही जलाया जा सकता है ।

हां—प्रकाश के आने ही पाया जाता है कि अंधकार नहीं है ।

ऐसे ही विचारों से भी न लड़ें ।

निर्विचार होने का प्रयास करना भी विचार ही है ।

विचारों के प्रति जागें—सचेत हों—साक्षी बनें ।

और फिर वे अनायास ही शांत हो जाते हैं ।

साक्षी भाव अंततः शून्य में उतार देता है ।

और जहां शून्य है, वहीं पूर्ण है ।

रजनीश के प्रणाम

८-४-७०

[प्रति : श्रीमती मायादेवी जैन, चंडीगढ़, पंजाब]

प्यारी कुसुम,

प्रेम ।

खोज—खोज—और खोज ।

इतना कि अंततः खोजते-खोजते स्वयं ही खो जावे ।

वस वही बिंदु उसके मिलन का है ।

इधर 'मैं' मिटा, उधर 'वह' हुआ ।

'मैं' के अतिरिक्त और कोई दीवार न कभी थी, न है ।

कपिल को प्रेम ।

असंग को आशीष ।

रजनीश के प्रणाम

८-४-७०

मेरे प्रिय,

प्रेम ।

काश ! वीणा बाहर होती तो संगीत भी सुना जा सकता था !

लेकिन, वीणा भीतर है, इसलिए संगीत सुना नहीं जा सकता है ।

हां—संगीत हुआ जरूर जा सकता है ।

और, वह संगीत भी क्या जो सुनने पर ही समाप्त हो जाये ?

फिर, वीणा-वादक, वीणा, संगीत और श्रोता भिन्न भी तो नहीं हैं ।

झांको भीतर ।

पहुंचो भीतर ।

और देखो—यह कौन वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है !

रजनीश के प्रणाम !

८-४-७०

[प्रति : श्री जयन्तीलाल पी० व्यास, उदयपुर]

प्यारी गुणा,

प्रेम ।

स्वप्न भी सत्य है ।

क्योंकि, जिसे हम सत्य कहते हैं, वह भी स्वप्न से ज्यादा कहा ह ।

खुली और बंद आंख से ज्यादा अन्तर भी क्या है ?

इस बात को ठीक से समझ ले ।

क्योंकि तब दोनों के ही पार उठा जा सकता है ।

और दोनों के पार ही मार्ग है ।

क्योंकि, दोनों दृश्य हैं और दोनों के पार वह है जो कि द्रष्टा है ।

ईश्वर बाबू को प्रेम ।

बच्चों को आशीष ।

रजनीश के प्रणाम

८-४-७०

[प्रति : सुश्री गुणा शाह, बम्बई]

प्यारी रेखा,

प्रेम । तेरा पत्र मिला है ।

उसमें तूने इतने प्रश्न पूछे हैं, कि उत्तर के लिए मुझे महाभारत से भी बड़ी किताब लिखनी पड़ेगी ।

और फिर भी तुझे उत्तर नहीं मिलेंगे ।

क्योंकि, कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जिनके उत्तर दूसरे से मिल ही नहीं सकते हैं ।

उनके उत्तर तो स्वयं के जीवन से ही खोजने पड़ते हैं ।

और कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिनके उत्तर हैं ही नहीं ।

क्योंकि वे प्रश्न ही गलत हैं ।

ऐसे प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं मिलते हैं ।

हां—खोजते खोजते अंततः प्रश्न जरूर गिर जाते हैं ।

और कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जो प्रश्न तो सही हैं, लेकिन उनके उत्तर नहीं

हैं ।

उन्हें तो अंतस् में गहरे उतरकर ही जाना जा सकता है ।

रजनीश के प्रणाम

८-४-७०

[प्रति : कुमारी रेखा गिरधरदास, राजकोट, गुजरात]

प्यारी जयन्ति,

प्रेम ! तेरा पत्र मिला है ।

पगली ! मेरे लिए कभी भी, भूलकर भी चिन्तित मत होना !

दो कारणों से :

एक तो प्रभु के हाथों में जिस दिन से स्वयं को सीपा है, उसी दिन से सब चिन्ताओं के पार हो गया हूँ ।

असल में, स्वयं को स्वयं ही सम्हालने के अतिरिक्त और कोई चिन्ता ही नहीं है ।

अहंकार ही चिन्ता है ।

उसके पार तो कैसी चिन्ता—किसको चिन्ता—किसकी चिन्ता ?

दूसरे मेरे जैसे व्यक्ति सूली चढ़ने को ही पैदा होते हैं !

वही हमारा सिंहासन है ।

फूल नहीं — पत्थर बरसें तभी हमारा कार्य हो पाता है ।

लेकिन, प्रभु के मार्ग पर पत्थर भी फूल ही बन जाते हैं ।

और उसके विपरीत मार्ग पर फूल भी अंततः पत्थर सिद्ध होते हैं ।

इसलिए, जब मुझ पर पत्थर बरसें तब खुश होना और प्रभु को धन्यवाद देना ।

सत्य का सदा ही, ऐसा ही, स्वागत होता है ।

न माने मन तो पूछ सुकरात से ?

जीसस से ?

बुद्ध से ?

कवीर से ?

मीरा से ?

मंत्रको प्रणाम ।

रजनीश के प्रणाम

१०-६-७०

[प्रति : सुश्री जयवन्ती, जूनागढ़]

मेरे प्रिय,

प्रेम । ध्यान के जल स्रोत निकट ही हैं ।

लेकिन दमित काम की पत्तें चट्टानों का काम कर रही हैं ।

काम का दमन ही आपके जीवन को क्रोध से भी भर गया है ।

क्रोध का धुआँ भी व्यक्तित्व के रोयें रोयें में है ।

उस दिन जब आप मेरे सामने ध्यान में गये तब वह सब स्पष्ट दिखाई पड़ा ।

लेकिन यह भी दिखाई पड़ा कि आपका संकल्प भी प्रबल है ।

अभीप्सा भी प्रबल है ।

श्रम भी प्रबल है ।

इसीलिए, निराशा का कोई भी कारण नहीं है ।

कठिनाइयाँ हैं, चट्टानें हैं, लेकिन वे टूट सकेंगी क्योंकि उन्हें तोड़ने वाला अभी टूट नहीं गया है ।

श्रम करें ध्यान के लिए समग्रता से ।

शीघ्र ही जल स्रोत उपलब्ध होंगे ।

लेकिन, बाँव पर स्वयं को पूरा ही लगाना होगा ।

रस्ती भर कम से भी नहीं चलेगा ।

जरा सी कमी और सब चूक सकता है ।

समय कम है, इसलिए शक्ति सघन करनी होगी ।

अवसर सो न जाये इसलिए संकल्प पूर्ण करना होगा ।

ऐसा अवसर बुधारा किस जन्म में मिलेगा कहना कठिन

इसलिए, इस जन्म में ही सब पूर्ण कर लेना है ।

द्वार खुले तो फिर दूसरे जन्म में सब प्रारंभ से ही शुरू करना होता है ।

फिर भी मेरा साथ भी निश्चित नहीं है ।

पिछले जन्म में भी आपने श्रम किया था, लेकिन वह अधूरा रह गया था ।

उसके पहिले भी ऐसा ही हुआ था ।
विगत तीन जन्मों से आप एक ही वृत्त को पुनरुक्त कर रहे ह ।
अब इस वृत्त को तोड़ ही डालें ।
बहुत देर तो वैसे ही हो गई है ।
अब और देर उचित नहीं है ।
वहां सबको मेरे प्रणाम ।

रजनीश के प्रणाम

१०-६-७०

[प्रति : लाला सुन्दरलाल, दिल्ली]

प्यारी जयति,

प्रेम । प्रभु के मंदिर में नाचते-गाते, आनंद मनाते ही प्रवेश होता है ।

उदास चित्त की वहां कोई गति नहीं है ।

इसलिये, उदासी से बच ।

चित्त को रंगों से भर ।

मयूर के पंखों जैसा चित्त चाहिए ।

और अकारण ।

जो कारण से आनंदित हैं, वह आनंदित ही नहीं है ।

नाच और गा ।

किसी के लिए नहीं ।

किसी प्रयोजन से नहीं ।

नाचने के लिए ही नाच ।

गाने के लिए ही गा ।

और तब सारा जीवन ही दिव्य हो जाता है ।

ऐसा जीवन ही प्रभु की प्रार्थना है ।

ऐसा होना ही मुक्ति है ।

डॉ० को प्रेम ।

डॉक्टर का पत्र मिल गया है ।

रजनीश के प्रणाम

२५-१०-१९७०

{ प्रति : सुश्री जयति शुक्ला, द्वारा डा० हेमंत पी. शुक्ला, अनवर स्ट्रीट,
काठियावाड, जूनागढ़ (गुजरात) }

प्रिय जयति,

प्रेम । प्रभु सब भांति निखारती है ।

शुद्ध होने के लिए, स्वर्ण को ही नहीं, मनुष्य को भी अग्नि में से गुजरना पड़ता है ।

प्रेम की पीड़ा ही मनुष्य के लिए अग्नि है ।

और, सौभाग्य से ही प्रेम की आग मनुष्य के जीवन में उतरती है ।

जन्म-जन्म की अनंत प्रार्थनाओं का वह फल है ।

सघन हो गई प्यास ही अंततः प्रेम बनती है ।

लेकिन, बहुत कम हैं जो कि उसका स्वागत कर पाते हैं ।

क्योंकि, बहुत कम हैं जो कि प्रेम को पीड़ा के रूप में पहचान पाते हैं ।

प्रेम सिंहासन नहीं, सूली है ।

यद्यपि जो उस सूली पर हंसते हुए चढ़ते हैं, वे सिंहासन को उपलब्ध हो जाते हैं ।

सूली तो दिखाई पड़ती है, सिंहासन दिखाई नहीं पड़ता है ।

वह सदा सूली की ओट में छिपा होता है ।

एक क्षण को तो जीसस तक से मूल हो गई थी !

उनके प्राणों तक से निकल गया था : "हे परमात्मा ! यह क्या दिखला रहा है ?"

लेकिन, नहीं फिर उन्हें तत्काल ही स्मरण आ गया था और उन्होंने कहा था : "जो तेरी मर्जी !"

वस फिर तो सूली सिंहासन हो गई थी और मृत्यु नव-जन्म ।

क्रांति के इसी क्षण में — उपरोक्त दो वाक्यों के बीच — जीसस में क्राइस्ट का जन्म हो गया था ।

पीड़ा घिर गई है, अब जन्म निकट है ।

प्रसन्न हो, अनुगृहीत हो ।

मृत्यु को देख भय न कर—धन्यवाद दे ।

वह नव-जन्म की सूचना है ।

पुराने को मिटना पड़ेगा— नये के होने के लिए ।

बीज को टूटना पड़ता है अंकुर के लिए ।

डा० को प्रेम ।

रजनी

१३

[प्रति : श्रीमती जयवंती शुक्ल, जूनागढ़, गुजरात]

मेरे प्रिय,

प्रेम । विचार ही मनुष्य की शक्ति है ।

और वही विश्वास ने उससे छीन ली है ।

मनुष्य इसीलिए दीन-हीन और निर्वीर्य हो गया है ।

खूब विचार करो ।

अथक विचार करो ।

और आश्चर्यों का आश्चर्य तो यह है कि विचारों की चरम सीमा पर ही निर्विचार दशा उपलब्ध होती है ।

वह विचार की पूर्णता है ।

और इसलिए उस दशा में विचार भी व्यर्थ सिद्ध होता है ।

उस शून्य में ही सत्य होता है ।

रजनीश के प्रणाम

[प्रति : श्री प्रेमशंकर पाण्डे, मनमाड़ (महाराष्ट्र)]

प्रिय सत्यानंद,

प्रेम । मेरे शुभाशीष ।

सत्य में जियो—क्योंकि सत्य को जानने का और कोई उपाय नहीं है ।

सत्य ही हो जाओ—क्योंकि सत्य केवल सत्य होकर ही जाना जा सकता है ।

शब्द से सत्य नहीं मिलता है ।

न शास्त्र से ।

न चिंतन, अव्ययन या मनन से ही ।

सत्य है स्वयं में—स्वयं की शून्यता में ।

निर्विचार में, निर्विषय चित्त में ।

चेतना ही है जहां केवल—वहीं सत्य का उद्घाटन है ।

सत्य तो है ही ।

उसे पाना नहीं है ।

बस, अनावृत्त ही करना है ।

और वह जिस स्वर्ण-पात्र से ढंका है, वह हमारा ही अहंकार है ।

अहंकार है अंधकार ।

मिटो और आलोक हो जाओ ।

और जहां अहंकार का अंधकार नहीं है, वहीं उस शून्यालोक में सत्य है ।

वही सत्य है ।

वही आनंद है ।

वही अमृत है ।

उसे खोजो मत—वरन् उसके लिए खो जाओ और उसे पा लो.

रजनीश के प्रणाम

१२-११-१९७०

प्रिय ललिता,

प्रेम । प्रायः जिसे खोजते हैं, उसे या ही लेते हैं ।
 विचार ही मग्न होकर वस्तु बन जाते हैं ।
 मरिचा जैसे माग्न खोज लेता है, ऐसे ही प्यासे प्राणों को प्रभु का मंदिर
 भी मिल जाता है ।

बस प्रबल प्यास चाहिए ।

बस अथक संकल्प चाहिए ।

बस अनंत प्रतीक्षा चाहिए ।

बस पूर्ण पुकार चाहिए ।

और यह सब—प्यास, संकल्प, प्रतीक्षा, पुकार— एक छोटे से शब्द
 में समा जाता है ।

वह शब्द है—प्रार्थना ।

किन्तु, प्रार्थना की नहीं जाती है ।

वह कृत्य नहीं है ।

उसमें तो हुआ जाता है ।

वह मात्र है ।

वह आत्मा है ।

वह नुक—वाणी-रहित, मांग-रहित स्वयं का समर्पण है ।

छोड़ दो स्वयं को अज्ञात के हाथों में ।

और जो हो उसे स्वीकारो ।

वह बनाये तो बनो ।

वह मिटाये तो मिटो ।

रजनीश के प्रणाम

१२-११-१९७०

मेरे प्रिय,

प्रेम । सुवह सूर्योदय के स्वागत में जैसे पक्षी गीत गाते हैं—ऐसे ही ध्यानो-
दय के पूर्व भी मन-प्राण में अनेक गीतों का जन्म होता है ।

वसंत में जैसे फूल खिलते हैं, ऐसे ही ध्यान के आगमन पर अनेक-अनेक
सुगंध आत्मा को घेर लेती है ।

और वर्षा में जैसे सब ओर हरियाली छा जाती है, ऐसे ही ध्यान की
वर्षा में भी चेतना नाना रंगों से भर उठती है ।

यह सब और बहुत कुछ भी होता है ।

लेकिन, यह अंत नहीं, बस आरंभ ही है ।

अंततः तो सब खो जाता है ।

रंग, गंध, आलोक, नाद—सभी विलीन हो जाते हैं ।

आकाश जैसा अंतर्आकाश (Inner space) उदित होता है ।

शून्य, निर्गुण, निराकार ।

उसकी करो प्रतीक्षा,

उसकी करो अभीप्सा ।

लक्षण शुभ हैं, इसलिए एक क्षण भी व्यर्थ न खोजो ओर आगे बढ़ो, मैं
तो साथ हूँ ही ।

रजनीश के प्रणाम

१६-११-१९७०

[प्रति : श्री राजेंद्र आर० अन्जारिया, वाम्बे ज्वाफ्त, मणिलगर, अहमदाबाद]

७६ / पहले खोजो प्रभु का राज्य
First Ye Seek The Kingdom Of God

मेरे प्रिय,

प्रेम । प्रभु का काम ही मेरा काम है ।

उसके अतिरिक्त न मैं हूँ, न कुछ मेरा है, और न कोई काम ही है ।

प्रभु में जियो—बस, फिर शेष सब अपने आप ही हो जाता है ।

जीसस ने कहा है : " First Ye Seek The Kingdom Of God, Then All Else Will Be Added Unto You. "

(पहले खोजो प्रभु का राज्य; और फिर शेष सब अपने आप ही आ जाता है ।)

यही मैं भी कहता हूँ.

लेकिन, मनुष्य का मन पहले और सब कुछ खोजता है ।

फिर वही होता है, जो हो सकता है ।

और कुछ तो मिलता ही नहीं—विपरीत, पास जो होता है, वह भी खो जाता है ।

रजनीश के प्रणाम

१६-११-१९७०

[प्रति : श्री केदार सिंहल, श्री रामकृष्ण सेवा मिशन, ३१९, घंटाघर,
नीमच, म० प्र०]

प्यारा गीत,

प्रेम । जीवन का प्रयोजन न खोज ।

वरन् जी—पूरे हृदय से ।

जीवन को गंभीरता मत बना ।

नृत्य बना ।

सागर की लहरें जैसे नाचती हैं, ऐसे ही नाच ।

फूल जैसे खिलते हैं, ऐसे ही खिल ।

पक्षी जैसे गीत गाते हैं, ऐसे ही गा ।

निष्प्रयोजन—अकारण ।

और फिर सब प्रयोजन प्रगट हो जाता है ।

और फिर सब रहस्य अनावृत्त हो जाते हैं ।

प्रसिद्ध आस्ट्रियन चिकित्सक रोकिटॉन्स्की ने एक बार किसी विद्यार्थी से पूछा :

‘जीवन का प्रयोजन क्या है—जीवन का अर्थ क्या है?’

वह विद्यार्थी एक क्षण लड़खड़ाया और फिर कुछ याद करता-सा बोला :
‘महोदय ! कल तक मुझे याद था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ही याद नहीं कर पा रहा हूँ ।’

रोकिटॉन्स्की ने आकाश की ओर देखकर कहा : ‘हे परमात्मा ! एक ही व्यक्ति को तो केवल पता था और वह भी भूल गया है ।’ (God in heaven ! The only man who ever knew—and he has forgotten !)

परिवार में सब को प्रेम.

रजनीश के प्रणाम

१६-११-७०

[प्रति : सुश्री नीलम अमरजीत, १२-आर, मॉडल टाउन, लुधियाना]

७८ / जहां शिकायत नहीं है, वहीं प्रार्थना है

मेरे प्रिय,

प्रेम । स्व को समर्पित करने के बाद न कोई कष्ट है, न कोई दुख है ।

क्योंकि, मूलतः स्व ही समस्त दुखों का आवार है ।

और फिर जिस क्षण से जाना जाता है कि प्रभु ही सब कुछ है, उसी क्षण से शिकायत का उपाय नहीं रह जाता है ।

और जहां शिकायत नहीं है, वहीं प्रार्थना है ।

वहीं अनुग्रह का भाव है ।

वहीं आस्तिकता है ।

और इस आस्तिकता में ही उसका प्रसाद बरसता है ।

बनो आस्तिक और जानो ।

लेकिन आस्तिक बनना सर्वाधिक कठिन है ।

जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करने से बड़ी और कोई तपश्चर्या नहीं है ।

रजनीश के प्रणाम

१६-११-१९७०

[प्रति : श्री सरदारी लाल सहाल, न्यू मिथी बाजार, अमृतसर, पंजाब]

प्यारी कुसुम,

प्रेम । संसार है निर्वाण ।

ध्वनि मात्र है मंत्र ।

और, प्राणि मात्र परमात्मा ।

बस, सब कुछ स्वयं की दृष्टि पर निर्भर है ।

दृष्टि के अतिरिक्त सृष्टि और कुछ भी नहीं है ।

देखो—आंखें खोलो और देखो ।

अंधकार कहां है ?

आलोक ही है ।

मृत्यु कहां है ?

अमृतत्व ही है ।

०००

कपिल को प्रेम ।

असंग को आशीष ।

रजनीश के प्रणाम

१७-११-१९७०

[प्रति : सुश्री कुसुम, द्वारा—श्री कपिल मोहन चांघोक, १०-ए, इंडस्ट्रियल एरिया, ग्वालियर आइसक्रीम कंपनी, ओसवाल रोड, लुधियाना, पंजाब]

प्यारी सावित्री,

प्रेम । ध्यान में फलाकांक्षा न रखो ।

उससे वाधाएं निर्मित होती हैं ।

ध्यान के किसी अनुभव की पुनरुक्ति भी न चाहो ।

उससे अकारण ही विघ्न होता है ।

वस, ध्यान में ध्यान के अतिरिक्त और कुछ भी न हो, इसका ध्यान रखो ।

फिर शेष सब अपने आप ही हो जाता है ।

प्रभु के हाथों में छोड़ो स्वयं को ।

अनंत की यात्रा अपने ही हाथों से होनी असंभव है ।

समर्पण—समर्पण—समर्पण ।

समर्पण को स्मरण रखो ।

सोते—जागते, सदा ही ।

समर्पण के अतिरिक्त उसका और कोई द्वार नहीं है ।

शून्य के अतिरिक्त उसकी और कोई नाव नहीं है ।

रजनीश के प्रणाम

१७-११-१९७०

[प्रति : डॉ० सावित्री सी. पटेल, मोहनलाल डी. प्रसूतिगृह, पोस्ट-किल्ला पारडी, बुलसार, गुजरात]

मेरे प्रिय,

प्रेम ।

मनुष्य के जीवन में इतना दुख क्यों है ?

क्योंकि, उसके जीवन में स्वरो की तो भीड़ है,

लेकिन, स्वर-शून्य संगीत विल्कुल नहीं है ।

क्योंकि, उसके जीवन में विचारों का शोर-गुल तो बहुत है,

लेकिन, निर्विचार का मौन विल्कुल नहीं है ।

क्योंकि, उसके जीवन में भावनाओं का क्षोभ तो बहुत है,

लेकिन, निभवि की समता विल्कुल नहीं है ।

क्योंकि, उसके जीवन में दिशाओं की दौड़ तो बहुत है,

लेकिन, अदिशा में ठहराव विल्कुल नहीं है ।

और, अंततः क्योंकि, उसके जीवन में वह तो अतिशय है,

लेकिन, परमात्मा विल्कुल नहीं है ।

रजनीश के प्रणाम

१-५-१९७०

८२. / संदेह नहीं तो खोज कैसे होगी ?

मेरे प्रिय,

प्रेम । संदेह नहीं तो खोज कैसे होगी ?

संदेह नहीं तो प्राण सत्य को जानने और पाने को आकुल कैसे होंगे ?

व्याप्त रहे श्रद्धा और विश्वास बाँधते हैं,

संदेह मुक्त करता है ।

रजनीश के प्रणाम

१५-१-१९७०

[प्रति : श्री शिव, जबलपुर]

मेरे प्रिय,

प्रेम । मैं कहता हूँ, "मिटो ताकि हो सको ।"
बीज मिटता है तब वृक्ष बनता है ।
बूंद मिटती है तो सागर हो जाती है ।
और मनुष्य है कि मिटना ही नहीं चाहता है ?
फिर परमात्मा प्रगट कैसे हो ?

मनुष्य बीज है, परमात्मा वृक्ष है ।
मनुष्य बूंद है, परमात्मा सागर है ।

रजनीश के प्रणाम

२५-१०-१९६९.

[प्रति : श्री शिव, जबलपुर]

मेरे प्रिय,

प्रेम । जीवन है अनंत रहस्य ।
इसलिए जो ज्ञान से भरे हैं,
वे जीवन को जानने से वंचित रह जाते हैं ।
उसे तो जान पाने है केवल वे ही
जो कि सरल हैं
और निनकी प्रज्ञा पर
ज्ञान की धूलि नहीं जमा है ।

रजनीश के प्रणाम

३-११-६९

[प्रति : श्री नरेंद्र, जबलपुर]

मेरे प्रिय,

प्रेम । सत्य तैरने से नहीं,

डूबने से मिलता है ।

तैरना,

सतह पर है ।

डूबना

उन गहराइयों में ले जाता है

जिनका कि

कोई अंत नहीं है ।

रजनीश के प्रणाम

७-५-१९७०

म्यारी जयति,

प्रेम । सत्य आकाश की भांति है— अनादि और अनंत और असीम ।

क्या आकाश में प्रवेश का कोई द्वार है ?

तब सत्य में भी कैसे हो सकता है ?

पर यदि हमारी आंखें ही बंद हों तो आकाश नहीं है ।

और ऐसा ही सत्य के संबंध में भी है ।

आंखों का खुला होना ही द्वार है ।

और आंखों का बंद होना ही द्वार का बंद होना है ।

रजनीश के प्रणाम

२०-८-६९

जयति को सप्रेम,

सत्य को खोजना कहां है ?

बस—खोजना है स्वयं में ।

स्वयं में—स्वयं में—स्वयं में ।

वह वहां है ही ।

और जो उसे कहीं और खोजता है,

वह उसे खो देता है ।

रजनीश के प्रणाम

१५-११-६९

[प्रति : सुश्री जयवंती शुक्ल, जूनागढ़, गुजरात]

प्यारी भगवती,

प्रेम । मनुष्य गुलाम है ।

क्योंकि, वह अकेला होने से भयभीत है ।

इसीलिए उसे चाहिए भीड़, संप्रदाय, संगठन ।

संगठन का आधार भय है ।

और भयभीत चित्त सत्य को कैसे जान सकता है ?

सत्य के लिए चाहिए अभय ।

और अभय आता है साधना से, संगठन से नहीं ।

इसीलिए तो धर्म, संप्रदाय, समाज—सभी सत्य के मार्ग में अवरोध हैं ।

रजनीश के प्रणाम

१९-८-१९६९

प्रिय योग भगवती,

प्रेम । आस्तिकता अनंत आशा का ही दूसरा नाम है ।

वह है वर्य ।

वह है प्रतीक्षा ।

वह है जीवन-लीला पर भरोसा ।

आस्तिकता में इसलिए शिकायत का उपाय नहीं है ।

आस्तिकता स्वीकार है— आस्तिकता समर्पण है ।

स्वयं से जो पार है उसका स्वीकार ।

स्वयं का जो आधार है उसमें समर्पण ।

जन १९१४ में टामस अल्वा एडिसन की प्रयोगशाला में आग लग गयी; जिसमें लगभग दो करोड़ रुपयों के यंत्र और एडिसन के जीवन-भर के शोध कार्य से संबंधित कागज-पत्र जलकर राख हो गये ।

दुर्घटना की खबर पाकर एडिसन का पुत्र चार्ल्स जब दूढ़ता हुआ पास तक पहुँचा तो उसने उन्हें बड़े आनंद से एक जगह खड़े होकर उस आग को देखते हुए पाया ।

चार्ल्स को देखकर एडिसन ने उससे पूछा : “तुम्हारी मां कहां है ? उसे दूढ़ो और फौरन यहां लाओ । ऐसा दृश्य वह फिर कभी न देख पायेगी !”

अगले दिन सुबह अपनी आशाओं और सपनों की राख में घूमते हुए उस ६७ वर्षीय आविष्कारक ने कहा : “तवाही का भी कैसा लाभ है ! हमारी सबकी सब गलतियां जलकर राख हो गयी हैं ! ईश्वर का शुक्र है कि अब हम नये सिर से अपना काम शुरू कर सकते हैं ।”

प्रभु-कृपा का अंत नहीं है, बस उसे देखने वाली आंखें भर चाहिए ।

रजनीश के प्रणाम

१४-१०-७०

[प्रति : मां योग भगवती, बंबई]

प्रिय योग भगवती,

प्रेम । परमात्मा ही हमारी संपदा है ।

और किसी संपदा का भरोसा न करना ।

शेष सब संपत्तियां अंततः विपत्तियां ही सिद्ध होती हैं ।

संत टेरेसा एक बहुत बड़ा अनाथालय खोलना चाहती थी, मगर उसके पास उस समय सिर्फ तीन शिलिंग ही थे । वह उसी अत्यल्प पूंजी से उस विराट् कार्य को शुरू करना चाहती थी ।

मित्रों ने, भक्तों ने उसे सलाह दी—पहले पर्याप्त पूंजी जमा कर लीजिए, मला तीन शिलिंग से क्या काम हो सकता है ?

लेकिन, टेरेसा ने हंसकर सिर्फ इतना ही उत्तर दिया : “वेशक तीन शिलिंग से टेरेसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ईश्वर और तीन शिलिंग के पास रहते कोई काम असंभव नहीं है ?”

रजनीश के प्रणाम

६-११-१९७०

[प्रति : मां योग भगवती, बचट]

हे प्रिय,

प्रेम । मैं समस्त से एक हूँ ;

सौंदर्य में भी ।

और बुद्धयता में भी ।

क्योंकि, जो भी है, वह मेरे बिना नहीं है ।

पुष्पों में ही नहीं, वापों में भी मेरी नागादारी है ।

और केवल स्वर्ग ही नहीं, नरक भी मेरे ही है ।

बुद्ध, जीसस और जाओले —

आह ! उनका कभीयतवार होना कितना आमान है :

लेकिन, चंगेज, नैमूर और द्रिडकर ?

वे भी तो मेरे ही भीतर हैं !

नहीं, नहीं—आधी नहीं, पूरी मनुष्यता ही मैं हूँ ।

मनुष्यों का सब कुछ मेरा है ।

फूल भी, काँटे भी ।

आलोक भी, अंधकार भी ।

अमृत मेरा है, तो फिर विष क्यों पियोगा ?

“अमृत के साथ विष भी मेरा है”,

ऐसा जो अनुभव करता है,

उसे ही मैं वास्तव कहता हूँ ।

क्योंकि,

ऐसे अनुभव की पीड़ा ही,

पृथ्वी के जीवन में क्रांति ला सकती है ।

रत्नसोय के प्रणाम

२०-१२-६९

[प्रति : सूर्या लक्ष्मी, बम्बई]

प्रिय योग लक्ष्मी,

प्रेम । विटगेस्टीन ने कहीं कहा है : "जो न कहा जा सके, उसे नहीं कहना चाहिए ।" (That which can not be said, must not be said)

काश ! यह बात मानी जा सकती तो सत्य के संबंध में व्यर्थ के विवाद न होते ।

क्योंकि, " जो-है " (That-Which-Is) उसे कहा नहीं जा सकता है ।

या, जो भी कहा जा सकता है, वह वही नहीं है, नहीं हो सकता है जो कि है ।

सत्य शब्दातीत है ।

इसलिए, सत्य के संबंध में मौन ही उचित है ।

पर मौन अति कठिन है ।

मन उसे भी कहना चाहता है, जिसे कि कहा नहीं जा सकता है ।

असल में मन ही मौन में बाधा है ।

मौन अ-मन (No-Mind) की अवस्था है ।

एक उपदेशक छोटे बच्चों में बोलने के लिए आया था ।

उसने बोलना शुरू करने के पहले बच्चों से पूछा : " इतने होशियार बच्चे और बच्चियों के समक्ष जो कि तुमसे एक अच्छे भाषण की अपेक्षा रखते हैं, तुम क्या बोलोगे यदि तुम्हारे पास बोलने का कुछ भी न हो ? "

एक छोटे ने बच्चे ने कहा : " मैं मौन रहूंगा " । (I would keep quiet)

"मैं मौन रहूंगा " — इस सत्य के प्रयोग के लिए एक छोटे बच्चे जैसी सरलता आवश्यक है ।

रजनीश के प्रणाम

[प्रति : मा गोन लक्ष्मी, चयट]

प्रिय योग लक्ष्मी,

प्रेम । दमन आकर्षक बन जाता है ।

और निषेध निमंत्रण ।

चित्त के प्रति जागने में ही मुक्ति है]।

निषेध निरोध नहीं है ।

निषेध नो बुलावा है ।

और जैसे जीभ टूटे दाँत के पास बार-बार लौटने लगती है, ऐसे ही मन भी जड़ा में रोगा जाय वहीं वहीं चक्कर काटने लगता है ।

एक बार लंदन के एक साधारण से दुकानदार ने सारे लंदन में सनसनी फैला दी थी। उसने अपनी 'शो-विंडो' पर एक काला कपड़ा लटका दिया था। उस काले पर्दे के बीच में एक छोटा-सा छेद था और उस छेद के पीछे बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था . "जांकना सख्त मना है ।"

फिर तो बस यातायात ठप्प हो गया था ।

लोगों की भीड़ बाहर बढ़ती ही जाती थी ।

घंटों भीड़ में धक्के खाकर भी लोग उस छेद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे ।

हालांकि, छेद में जांकने पर कुछ तालियों के अतिरिक्त और कुछ भी नजर नहीं आता था । वह तालियों की एक छोटी-सी दुकान थी । और, वह तालियों के विज्ञापन की एक रामबाण विधि थी !

ऐसा ही मनमग्न स्वयं ही, अपने ही मन के साथ करके स्वयं को ही फंसा केता है ।

इमलिए, निषेध, विरोध और दमन से सदा सावधान रहने की जरूरत है ।

रजनीश के प्रणाम

१-१०-१९७०

[प्रायः मा योग लक्ष्मी, बयई]

रि प्रिय,

प्रेम । सत्य कहां है ?

खोजो मत ।

खोजने से सत्य मिला ही कब है ?

क्योंकि, खोजने में खोजने वाला जो मौजूद है ।

इसलिए, खोजो मत --खो जाओ ।

जो स्वयं मिट जाता है, वह सत्य को पा लेता है ।

मैं नहीं कहता, 'जिन खोजा तिन पाइयाँ ।'

मैं कहता हूँ, जिन खोया तिन पाइयाँ ।

रजनीश के प्रणाम

१-८-१९६९

मेरे प्रिय,

प्रेम । जीवन के विराग्य में निर्वाण मन खोजो ।

वरन् जीवन को ही निर्वाण बनाने में लग जाओ ।

जो जानते हैं, वे यही करते हैं ।

दो-जेन के प्यारे शब्द हैं :

“मोक्ष के लिये कर्म मत करो ।

बल्कि, समस्त कर्मों को ही मोक्षा दो कि वे मुक्तिदायी बन जावें ।”

यह ही जाता है, ऐसा मैं अपने अनुभव से कहता हूँ ।

और, जिस दिन यह संभव होता है

उस दिन जीवन एक पूरे खिले हुये फूल की भाँति सुंदर हो जाता है ।

और मुवास से भर जाता है ।

रजनीश के प्रणाम

१५-८-१९६९.

प्रिय योग चिन्मय,

प्रेम । आदमी तथ्यों में नहीं, स्वप्नों में जीता है ।

और, प्रत्येक मन अपना एक जगत् निर्माण कर लेता है, जो कि कहीं भी नहीं है ।

रात्रि ही नहीं—दिन भर भी चित्त स्वप्नों से ही घिरा रहता है ।

इन स्वप्नों की मात्रा और तीव्रता के बढ़ जाने का नाम ही विक्षिप्तता है ।

और इन स्वप्नों की शून्यता का नाम ही स्वास्थ्य है ।

किसी देश के राष्ट्रपति देश के सबसे बड़े पागलखाने का निरीक्षण कर रहे थे ।

पागलखाने के सुपरिन्टेंडेंट ने एक कमरे की ओर इशारे करके बताया :
“इस कमरे में वे पागल हैं, जिन्हें कार का खब्त सवार है ।”

राष्ट्रपति को उत्सुकता हुई ।

उन्होंने उस कमरे की खिड़की से झाँका और फिर सुपरिन्टेंडेंट से कहा :
“इस कमरे में तो कोई भी नहीं है !”

सुपरिन्टेंडेंट बोला : “सब वहीं होंगे, महानुभाव ! पलंगों के नीचे लेटे हुये कार की मरम्मत कर रहे होंगे !”

और क्या ऐसे ही सभी लोग अपनी अपनी कल्पनाओं के नीचे नहीं लेटे हुए हैं ?

काश ! वे राष्ट्रपति भी स्वयं का विचार करते तो क्या पाते ?

क्या हमारी राजधानियाँ हमारे सबसे बड़े पागलखाने नहीं हैं ?

लेकिन, स्वयं का पागलपन स्वयं को दिखाई नहीं पड़ता है ।

वैसे, यह पागलपन की अनिवार्य शर्त भी है !

जिसे स्वयं पर संदेह होने लगता है—जिसे स्वयं का पागलपन दिखाई पड़ने लगता है—नमजना चाहिए कि उसके पागलपन के टूटने का समय निकट आ गया है !

विक्षिप्तता के बोध से विक्षिप्तता टूट जाती है ।

अज्ञान के बोध से अज्ञान टूट जाता है ।

स्वप्न के बोध से स्वप्न टूट जाता है ।

और फिर जो शेष रह जाता है, वही सत्य है ।

रजनीश के प्रणाम

२०-१०-१९७०

प्रिय योग चिन्मय,

प्रेम । साधना का अर्थ है स्वभाव में डूबना—स्वभाव में जीना—स्वभाव ही हो जाना ।

इसलिए, विभाव की पहचान चाहिए ।

जिसमें मुक्त होना है, उसे पहचानना अत्यंत आवश्यक है ।

वस्तुतः तो उसकी पहचान—उसकी प्रत्यभिज्ञा (Recognition) ही उसमें मुक्ति बन जाती है ।

वांकेई के एक शिष्य ने उसमें कहा : “मुझे क्रोध बहुत आता है । क्रोध से मुक्त होना चाहता हूँ । लेकिन, नहीं हो पाता हूँ । मैं क्या करूँ ?”

वांकेई ने उसे धूर कर देखा—उसकी आँख में आँख डालकर देखा ।

वह कुछ बोला नहीं—बस, उसे देखता रहा : गहरे और गहरे और गहरे ।

मान के वे थोड़े से क्षण पूछने वाले को बहुत लम्बे और भारी हो गये ।

उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं ।

वह उस स्तब्धता को तोड़ना चाहता था लेकिन साहस ही नहीं जुटा पा रहा था ।

फिर वांकेई हँसने लगा और बोला : “बड़ी विचित्र बात है । खोजा—लेकिन क्रोध तुममें कहीं दिखाई नहीं पड़ता है । फिर भी—थोड़ा मुझे दिखाओ तो सही—अभी और यहीं ।”

वह व्यक्ति कहने लगा : “मदा नहीं रहता है । कमी-कमी होता है, अकस्मात् । इसलिए, अभी कैसे दिखाऊँ ?”

वांकेई हँसने लगा और बोला : “तब यह तुम्हारा यथार्थ स्वभाव नहीं है । क्योंकि, स्वभाव तो सदा ही साथ है । यदि यह तुम्हारा स्वभाव होता तो तुम इसे किसी भी समय मुझे दिखा सकते । जब तुम पैदा हुए थे तब यह तुम्हारे साथ नहीं था और जब मरोगे तब यह तुम्हारे साथ नहीं होगा । नहीं—यह क्रोध तुम नहीं हो और जरूर ही कहीं कोई भूल हो गई है । जाओ—फिर से सोचो । फिर से खोजो । फिर से व्याओ ।”

रजनीश के प्रणाम

३-११-१९७०

[प्रति : स्वामी योग चिन्मय, वम्बई]

प्रिय कृष्ण कृष्णा,

प्रेम । आत्म-निष्ठा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है ।

स्वयं पर विश्वास की सुवास ही अलौकिक है ।

शांति, आनंद, मत्स्य—सभी उस सुवास का पीछा करते हैं ।

जिसे स्वयं पर विश्वास है वह स्वर्ग में है ।

और जिसे स्वयं पर ही अविश्वास है, उसके हाथ में नर्क की कुँजी है ।

आंग्ल विचारक डेविड ह्यूम नास्तिक थे ।

लेकिन, वे जॉन ब्राउन जैसे आस्तिक का प्रवचन सुनने जरूर हर रविवार को चर्च पहुंच जाते थे ।

लोगों ने उनसे कहा कि आपका चर्च में जाना आपके ही सिद्धांतों के विरुद्ध पड़ता है ।

ह्यूम हँसने लगे और बोले : “जॉन ब्राउन अपने प्रवचनों में जो कहते हैं, उसमें मुझे विश्वास नहीं है; लेकिन जॉन ब्राउन को पूरा विश्वास है । सो हफ्ते में एक बार मैं ऐसे आदमी की बातें जरूर ही सुनना चाहता हूँ जिसे स्वयं पर विश्वास है !”

रजनीश के प्रणाम

१५-१०-१९७०.

प्रिय कृष्ण करुणा,

प्रेम। प्रभु की खोज में अनंत आशा के अतिरिक्त और कोई पाथेय नहीं है।
आशा अंधेरे में ध्रुव तारे की भाँति चमकती रहती है।
आशा अकेलेपन में छाया की भाँति साथ देती रहती है।
और निश्चय ही जीवन-मथ पर बहुत अंधेरा है, और बहुत एकाकीपन है।
लेकिन, केवल उन्हीं के लिए जिनके साथ कि आशा नहीं है।

प्रसिद्ध भौगोलिक अन्वेषक डोनाल्ड मेकमिलन उत्तरी ध्रुव की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे कि उनके पास एक पत्र आया। लिफाफे के ऊपर लिखा था : “इसे तभी खोला जाये जबकि बचने की कोई आशा शेष न रहे।”

पचास साल बीत गये; मगर वह लिफाफा मेकमिलन के पास वैसा ही पड़ा रहा—बंद का बंद।

एक बार किसी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा : “एक तो जिस अज्ञात व्यक्ति ने इसे भेजा था, मैं उसका विश्वास कायम रखना चाहता था। और, दूसरे मैंने कभी आशा नहीं छोड़ी।”

आह ! कैसे बहुमूल्य शब्द हैं कि “मैंने कभी आशा नहीं छोड़ी।”

रजनीश के प्रणाम

२०-११-१९७०

[प्रति : मा कृष्ण करुणा, वम्बई]

ही नहीं।' तब लोग आश्चर्य से पूछते : 'फिर यह खाली पींजड़ा यहाँ किसलिए है ?' अंततः मित्र थक गये और एक पक्षी खरीद लाये । मैंने पूछा तो बोले : 'यही ज्यादा आसान था कि पक्षी खरीद लाऊँ और शर्त हार जाऊँ —बजाय सुबह से साँझ तक लोगों को समझाने के । और फिर दिन-रात खाली पींजड़ा देख-देख मुझे भी ह्याल आता रहता —पक्षी—पक्षी—पक्षी!'

संकल्प का पींजड़ा मन की बँठक में लटका हो तो साधना के पक्षी के आने में ज्यादा देर नहीं लगती है ।

रजनीश के प्रणाम

१-११-१९७०

प्यारी मानू,

प्रेम । अनासक्ति का संबंध वस्तुओं से नहीं, विचार से है ।

अनासक्ति का संबंध बाह्य से नहीं, अंतस् से है ।

अनासक्ति का संबंध गंवार से नहीं, स्वयं से है ।

एक दिन एक मिखारी किसी सूफी फकीर से मिलने आया और उसने देखा कि सूफी फकीर एक मुन्द्रर खेमे में मन्त्रमल की गद्दी पर बैठे हैं और खेमे की रस्मियाँ सोने के खूंटों से बँधी हैं । वह बोला : “आह ! मैं भी कहाँ आ गया हूँ ? पीर नाह्व, मैंने तो आप की अनासक्ति और अध्यात्म की बड़ी प्रशंसा सुनी थी । आप तो एक बड़े वीतराग मंत माने जाते हैं; लेकिन आपके ये शाही ठाठ देखकर मुझे बहुत अफमोन हुआ है ।”

सूफी फकीर ने हँसकर उत्तर दिया : “मैं आपके साथ अभी सब चीजें छोड़ कर चलने का तैयार हूँ ।”

और, वे सच ही गद्दी में उठकर फीरन मिखारी के साथ चल दिये । उन्होंने जूते भी नहीं पहने । लेकिन, थोड़ी देर बाद मिखारी परेशान होकर बोला : “अरे ! मैं अपना मिश्रा-पात्र तो आपके खेमे में ही छोड़ आया ? अब क्या कहें ? आप यहीं रुकें—मैं उसे ले आता हूँ ।”

सूफी फकीर ने हँसते हुए कहा : “मित्र ! आपके कटोरे ने अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ा ! और मेरे खेमे के सोने के खूंटों मेरे सोने में नहीं, जमीन में ही गड़े थे ।”

संसार में होना आसक्ति नहीं है ।

संसार का मन में होना आसक्ति है ।

संसार का मन से बाष्पीभूत हो जाना अनासक्ति है ।

रजनीश के प्रणाम

११-१-१९७०.

[प्रति : सुधी मानू (क्रांति), जबलपुर म. प्र.]

प्यारी मौनू,

प्रेम। परिवर्तन के अतिरिक्त और सभी कुछ परिवर्तित हो जाता है। वस, परिवर्तन ही एक शाश्वतता है।

लेकिन, मनुष्य मन जीता है अतीत से (Past oriented)

और वही सब उलझनों की उलझन है।

एक दिन आकाश युद्ध के बादलों से भर गया था।

मृत्यु से लड़े वायुयान ही वायुयान !

पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, जो भी भाग सकते थे, भाग चले। घोड़े, गधे, चूहे, भेड़ें, कुत्ते, विल्लियाँ, भेड़िये—सभी भाग चले। रास्ते भर गये उन्हीं से। इस भागती भीड़ ने राह के किनारे एक दीवार पर दो गिद्धों को बैठे देखा। चिल्लाये-सभी—बोले सभी उनसे : “भाइयो—भाग चलो। समय न खोओ। बैठने की यह घड़ी नहीं। अवसर है तब तक वच निकलो। आदमी फिर युद्ध में उतर रहा है !”

लेकिन, गिद्ध सिर्फ मुस्कुराये।

वे अनुभवी थे और ज्यादा जानते थे।

फिर उनमें से एक ने कहा : “हजारों वर्षों से आदमी के युद्ध गिद्धों के लिए सुसमाचार ही सिद्ध हुये हैं। ऐसा हमारे पुरखों ने भी कहा है—ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है—और ऐसा हमारा स्वयं का भी अनुभव है। गिद्धों के लाभ के लिए ही परमात्मा आदमी को युद्धों में भेजता है। परमात्मा ने गिद्धों के लिए ही युद्धों और आदमी को बनाया है।”

और यह कहते-न-कहते वे दोनों गिद्ध युद्ध की दिशा में परो को फँसा कर उड़ गये। लेकिन दूसरे ही क्षण बमों की मार में उनके अवशेष भी शेष न रहे।

काश ! उन्हें पता होता कि हजारों वर्षों में चीजें बदल जाती हैं !

पर आदमी को भी यह कहां पता है ?

रजनीश के प्रणाम

१३-११-१९७९०

[प्रति : सुश्री मौनू (क्रांति), जवलपुर]

प्रिय जया वहिन,

स्नेह । मैं आनंद में हूँ । कितने दिनों से पत्र लिखना चाह रहा था पर अति व्यस्तता के कारण नहीं लिख सका । शुभकामनाएँ तो रोज ही भेज देता हूँ ।

जीवन एक साधना है । उसे जितना साधो उतना शिवत्व निखरता आता है । प्रकाश को अंधेरे में छिपाकर रखा हुआ है । सत्य छिपा हुआ है इसलिए खोजने का आनंद भी है !

एक ऋषि वचन स्मरण आता है : “ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थापिहितं मुखम् । ” (सत्य स्वर्ण ढक्कन से गोपित या आच्छादित है ।) यह जो स्वर्ण-पात्र सत्य को ढाँके हुए है वह अन्य कोई नहीं स्वर्ण हमारा ही मन है । मन ही हमें आच्छादित किये हुए है । उसमें हैं —उससे तादात्म्य किये हुए हैं—इससे दुःख है, बंधन है, आवागमन है । उसके ऊपर उठ जावें —उससे भिन्न स्व को जान लें—वही आनंद है, मुक्ति है; जन्म-मृत्यु के पार जीवन को पाना है । हम जो हैं वही होना है । यही साधना है ।

इस साधना पर प्रवृत्ति को असफलता अपने आप ले आती है । प्रवृत्ति के प्रति जागरूक होने ही निवृत्ति आनी प्रारंभ हो जाती है । प्रवृत्ति लानी नहीं है । वह प्रवृत्ति के प्रति सजग होने का सहज परिणाम है । प्रत्येक को केवल प्रवृत्ति की ओर जागना है—जागने चलना है । दैनंदिन समस्त क्रिया - कलापों में जागरण लाना है । कुछ भी मूर्च्छित न हो : यह स्मरण रहे तो किसी दिन चेतना के जगत् में एक अमृतपूर्व क्रांति घटित हो जाती है ।

प्रभु आपको इस क्रांति की ओर खींच रहा है यह मैं जानता हूँ ।

रजनीश के प्रणाम
१३-७-१९६२ (दोपहर)

[प्रति : मुर्धा जया वहिन माद, वम्बई]

श्रीमती जया बहिन,

प्रणाम । आपका स्नेहपूर्ण पत्र पाकर अनुग्रहीत हूँ ।

ध्यान कर रही हूँ; यह आनंद की बात है । ध्यान में कुछ पाने का विचार छोड़ दें; बस उसे सहज ही करती चलें—जो होता है वह अपने से होता है । किसी दिन अनायाम सब हो जाता है । ध्यान की उपलब्धि हमारे प्रयास की बात नहीं है; बरन् प्रयास बाधा है । प्रयास में, प्रयत्न में, अभ्यास में एक तनाव है । कुछ पाने की—शांति पाने की आकांक्षा भी—अशांति है । यह सब तनाव नहीं रखता है । इस तनाव के जाने ही एक अलौकिक शांति का अवतरण हो जाता है । यह भाव छोड़ दें कि “मैं कुछ कर रही हूँ”—यही समझें कि “मैं अपने को छोड़ रही हूँ उसके हाथों में जो कि है ।” छोड़ दें—एकदम छोड़ दें और छोड़ते ही शून्यता आ जाती है । शरीर और स्वास विथिल हो रहे हैं : मन भी होगा । मन भी चला जाता है और तब जो होता है वह शब्दों में नहीं बँधता है । मैं जानता हूँ कि यह आपको होने को है, इला को भी होने को है —बस बढ़ती चलें, सहज और निष्प्रयोजन । फिर मैं आने को हूँ तब तक जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान करने रहना है ।

सबको मेरे विनम्र प्रणाम कहें—और जब भी मन हो तो पत्र दें । मैं पूर्ण आनंद में हूँ ।

रजनीश के प्रणाम

५-१०-१९६२ (दोपहर)

[प्रति : सुश्री जया बहिन माह, बम्बई]

सुश्री जया जी,

प्रणाम । मैं बाहर था : मेरे पीछे घूमता हुआ आपका पत्र मुझे यात्रा में मिला । उसे पाकर आनंद हुआ है । जीवन मुझे आनंद से भरा हुआ दीखता है । पर उसे देख पाने की आँखें न होने से हम उससे वंचित रह जाते हैं । ये आँखें पैदा की जा सकती हैं : शायद "पैदा करना " कहना ठीक नहीं है : वे हैं और केवल उन्हें खोलने भर की ही बात है और परिणाम में सब कुछ बदल जाता है । ध्यान से यह खोलना पूरा होता है । ध्यान का अर्थ है : शांति : शून्यता । यह शून्यता मोज़द पर विचार-प्रवाह से, मन से ढँकी है । विचार के जाते ही वह उद्घाटित हो जाती है । पूरा विचार-प्रवाह से मुक्त होना कठिन दीखता है पर बहुत सरल है । यह मन बहुत चंचल दीखता है पर बहुत ही आसानी से रुक जाता है । इसे पार कर जाने की कुंजी साक्षी भाव है । मन के प्रति साक्षी होना है, द्रष्टा बनना है : इसे देखना है : केवल देखना है और यह साक्षी बोध जिस क्षण उपलब्ध हो जाता है उसी क्षण विचार से मुक्ति हो जाती है । विचार मुक्त होते ही आनंद के द्वार खुल जाते हैं और यही जगत् एक नया जगत् हो जाता है ।

ध्यान को चलाये चले — परिणाम आहिस्ता—आहिस्ता आयेंगे । उनकी चिंता नहीं करनी है । उनका आना निश्चित है । मेरा बम्बई आना अभी तय नहीं है । तय होते ही सूचित करूँगा । सबको मेरे विनम्र प्रणाम ।

रजनीश के प्रणाम

२०-१०-१९६२

[प्रति : सुश्री जया माह, बम्बई]

प्रिय वहिन,

प्रभु की अनुकम्पा है कि आप भीतर की ज्योति के दर्शन में लगी हैं। वह ज्योति निश्चित ही भीतर है जिसके दर्शन से जीवन का समस्त तिमिर मिट जाता है। एक एक चरण भीतर चलता है और पर्व पर्व अंधेरा कटता जाता है और फिर आता है आलोक का लोक और सब कुछ नया हो जाता है। इस दर्शन से बंधन गिर जाते हैं और ज्ञात होता है कि वे वस्तुतः कभी थे ही नहीं— नित्य मुक्त को मुक्ति मिल जाती है !

मैं आपकी प्रगति से प्रसन्न हूँ। आपका पत्र मिले तो देर हुई पर बहुत व्यस्त था इसलिए उत्तर में विलम्ब हो गया है। पर स्मरण आपका मुझे बना रहता है—उन सबका बना रहता है जो प्रकाश की ओर उन्मुख हैं और उन सबके लिए मेरी अंतरात्मा से सद्भावनायें बहती रहती हैं। चलते चलना है—बहुत बार मार्ग निराश्रय करता है पर अंततः जिन्हें प्यास है उन्हें पानी भी मिल ही जाता है। वस्तुतः प्यास के पूर्व ही पानी की सत्ता है।

सबको मेरे विनम्र प्रणाम।

रजनीश के प्रणाम
२१-११-१९६२ (प्रभात)

प्रिय बहिन,

प्रणाम । आपका पत्र मिले देर हो गई है । मैं शांति पाने की आपकी भावना में आनंद में भर जाता हूँ । यह विचार अपने से अलग कर दें कि आप पीछे हैं । कोई पीछे नहीं है : जरा सा भीतर मुड़ने की बात है और बूंद सागर हो जाती है । वस्तुतः तो बूंद सागर ही है पर उसे यह ज्ञात नहीं है । इतना मा ही नेद है । ध्यान के शून्य में जो दर्शन होता है उससे यह भेद भी पुछ जाता है ।

ध्यान जीवन नाथना का केंद्र है । विचार प्रवाह धीरे-धीरे चला जायेगा और उसके स्थान पर उतरेगी शांति और शून्यता । विचार गये तो जो द्रष्टा है, साक्षी है उसके दर्शन होंगे और मूर्च्छा की ग्रंथि खुल जायेगी । इस ग्रंथि में ही बंधन है । यह ग्रंथि प्रारंभ में पत्थर सी दीखती है पर धैर्य से प्रयोग करता नाथक एक दिन पाना है कि वह विल्कुल स्वप्न थी—हवा थी ।

ध्यान का बीज एक दिन समाधि के फूल में खिले मेरी यही आपके प्रति कामना है ।

नम्रको मेरे विनम्र प्रणाम कहे । इत्या कैसी है ? ओप मिलने पर ।

रजनीश के प्रणाम

१४-१२-६२

प्रिय वहिन,

प्रणाम । मैं प्रतीक्षा में ही था कि पत्र मिला है । जीवन में आपके प्रकाश भर जाये और आप प्रभु को समर्पित हो सकें यही मेरी कामना है ।

प्रभु और प्रकाश निरंतर निकट हैं, वस आंख भर खोलने की बात है और—जो हमारा है वह हमारा हो जाता है। आंख की पलकों का ही फासला है—याकि, शायद उतना भी फासला नहीं है, आंखें खुली ही हैं और हमें ज्ञात नहीं है !

एक पुरानी कथा है : एक मछली बहुत दिनों से सागर के संबंध में सुनती रही थी । फिर एक दिन उससे न रहा गया और उसने मछलियों की रानी से पूछ लिया कि “यह सागर क्या है ? और कहां है ?” रानी बोली थी : “सागर ? सागर में ही तुम हो, (सागर में ही) तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सत्ता है । सागर तुममें है और तुम्हारे बाहर भी जो है वह भी सागर है । सागर से तुम बनी हो और उसमें ही तुम्हें विलीन होना है । सागर तुम्हारा सब कुछ है और उसके अतिरिक्त तुम कुछ भी नहीं हो ।”

और शायद इसलिए ही सागर मछली को दिखाई नहीं पड़ता है ?

और शायद इसलिए ही प्रभु से हमारा मिलन नहीं होता है ?

पर मिलन हो सकता है । उस मिलन का द्वार शून्य है, शून्य होते ही उससे मिलना हो जाता है क्योंकि वह भी शून्य ही है ।

मैं आनंद में हूँ; याकि कहूँ कि आनंद ही है और मैं नहीं हूँ ।

रजनीश के प्रणाम

१२-१-१९६३

[प्रति : सुश्री जया वेन शाह, बम्बई]

परम प्रिय,

प्रेम। पत्र मिला है। उससे आनंदित हूँ। सत्य के लिये, शांति के लिए, धर्म के लिए, हृदय जब इतनी अभीप्सा से भरा है, तो एक-न-एक दिन उस सूर्य के दर्शन भी होंगे ही जिसके साक्षात् से ही जीवन का सब अंधकार दूर हो जाता है।

प्यास करो।

प्रार्थना करो।

प्रयास करो और

प्रतीक्षा करो।

छोटे छोटे कदम कैसे हजारों मील का फासला तय करेंगे, इससे बचड़ाना मत। एक एक कदम चलकर ही अनंत दूरियाँ भी तय की जा सकती हैं।

बूंद बूंद जुड़कर ही तो सागर भरता है।

वहाँ सबको प्रणाम। मैं तो अब जल्दी ही आ रहा हूँ। शेष मिलने पर।
त्रिमूर्ति के क्या हाल हैं ?

रजनीश के प्रणाम

३०-८-१९६६

[प्रति : श्री जयंती भाई, बम्बई]

प्रिय हनुमति,

प्रेम । असंभव भी असंभव नहीं है ।

बस संकल्प चाहिए ।

और संभव भी असंभव हो जाता है ।

बस, संकल्पहीनता चाहिए ।

जगत् जिसमें हम जीते हैं, वह स्वयं का ही निर्माण है ।

लेकिन, बीज बोने और फसल आने में समय के अन्तराल से बड़ी भ्रांति हो जाती है ।

कारण (cause) और कार्य (effect) के जुड़े हुये न दिखाई देने से चित्त जिसे सहज ही समझ सकता था, उसे भी नहीं समझ पाना है ।

लेकिन, टूटा हुआ और अशृंखल कुछ भी नहीं है ।

जो कड़ियाँ (Missing Links) दिखाई नहीं पड़ती हैं, वे भी हैं, और थोड़े ही गहरे निरीक्षण के सामने प्रगट हो जाती हैं ।

जीवन-शृंखला की समझ ही शांति का द्वार है ।

प्रकाश बहुत निकट है, लेकिन वह भी खोजने वाले की प्रतीक्षा करता है ।

रजनीश के प्रणाम

११-११-१९७०

[प्रति : कुमारी हनुमति एच. दलाल, लाट निवास, ३ ग माला, कम नं. २३, अर्धेन्द्र शर्मा स्ट्रीट, बम्बई - १]

प्यारी संगीता,

प्रेम । आकाश में चांद उगे तब उसे एक टक निहारना— शेष सब भूल कर ।

स्वयं को भी भूल कर ।

तब ही तू जानेगी उस संगीत को जो कि स्वरहीन है ।

और जब भोर का सूर्य जगे तब पृथ्वी पर सिर टेक उसके प्रणाम में खो जाना ।

तब ही तू जानेगी उस संगीत को जो कि मनुष्य निर्मित नहीं है ।

और जब वृक्षों पर फूल खिलें तब हवा के झोंकों में उनके साथ नाचना फूल ही बनकर ।

तब ही तू जानेगी उस संगीत को जो कि स्वयं के अन्तस्तल में ही जन्मता है ।

और जो ऐसे संगीत को पहचान लेता है, वह जीवन को ही पहचान लेता है ।

जीवन-संगीत का ही दूसरा नाम परमात्मा है ।

रजनीश के प्रणाम

१४-११-७०

[प्रति : त्रि० संगीता खाविद्या, खाविद्या सदन, चौमुखी पुल, रतलाम म० प्र०]

मेरे प्रिय,

प्रेम । प्रेम भी आग है ।

ठंडी आग !

फिर भी उसमें जलना तो पड़ता ही है ।

लेकिन, वह निखारता नी है ।

निखारने के लिए ही वह जलाता है ।

कूड़ा-करकट जल जाता है, तभी तो शुद्ध स्वर्ण उपलब्ध होता है ।

ऐसे ही मेरा प्रेम भी पीड़ा बनेगा ।

मैं तुम्हें मिटा ही डालूंगा क्योंकि तुम्हें बनाना है ।

बीज को तोड़ना ही होगा— अन्यथा वृक्ष का जन्म कैसे होगा ?

सरिता को समाप्त करना ही पड़ेगा—अन्यथा वह सागर बनने से वंचित ही रह जायेगी ।

इसलिए, छोड़ो स्वयं को और मिटो ।

क्योंकि, स्वयं को पाने का और कोई मार्ग नहीं है ।

रजनीश के प्रणाम

२५-१०-१९७०

मेरे प्रिय,

प्रेम । तुम्हारा पत्र पाकर अत्यन्त आनंदित हूँ ।

ऐसा हो भी कैसे सकता है कि प्रेम की किरण आवे और साथ में आनंद की सुवास न हो ?

आनंद प्रेम की सुवास के अतिरिक्त है ही क्या ?

लेकिन पृथ्वी तो ऐसे पागलों से भरी है, जो कि — जीवन भर आनंद की तलाश करते हैं और प्रेम की ओर पीठ किये रहते हैं ।

प्रेम ही जब समग्र प्राणों की प्रार्थना बन जाता है,

तभी प्रभु के द्वार खुल जाते हैं ।

शायद उसके द्वार खुले ही हैं, लेकिन जो आंखें प्रेम के लिए बंद हैं, वे उसके खुले द्वारों को भी कैसे देख सकती हैं ?

०००

लेकिन, यह क्या लिखा है : 'क्षणिक सम्पर्क !'

नहीं ! नहीं ! प्रेम का संपर्क क्षणिक कैसे हो सकता है ?

प्रेम तो क्षण को भी अनंत बना देता है ।

प्रेम जहां है वहां कुछ भी क्षणिक नहीं है ।

प्रेम जहाँ है वहीं अनंतता (Eternity) है ।

बूंद क्या बूंद ही है ?

नहीं ! नहीं !

वह सागर भी है ।

प्रेम की आंखों से देखी गई बूंद सागर हो जाती है ।

०००

मैं अगस्त में यहां प्रतीक्षा करूंगा । २, ३, ४ अगस्त ।

टंडन जी को मेरे प्रणाम कहें ।

रजनीश के प्रणाम

३०-६-६८

[प्रति : श्री महीपाल, बम्बई]

प्रिय सोहनवाई,

प्रेम। तुम्हारा पत्र मिला है।

जो शांति मुझमें है, उसे चाहा है।

किसी भी क्षण वह तुम्हारी ही है।

वह हम सब की अंतर्निहित संभावना है।

केवल उसे खोदना और उघाड़ना है।

जैसे मिट्टी की परतों में जलस्रोत दबे रहते हैं, ऐसे ही हमारे भीतर आनंद का राज्य छिपा हुआ है।

यह संभावना तो सबकी है, पर जो उसे खोदते हैं, मालिक केवल वे ही उसके हो पाते हैं।

धर्म अंतस् में छिपे उस खजाने की खुदाई का उपाय है।

वह स्वयं में प्रकाश का कुआं खोदने की कुदाली है।

वह कुदाली तो मैं तुम्हें बनाया हूँ, अब खोदना तुम्हें है।

मैं जान रहा हूँ कि तुम्हारे चित्त की भूमि बिल्कुल तैयार है।

और बहुत अल्प श्रम से अनंत जलस्रोतों को पाया जा सकता है।

चित्त की ऐसी स्थिति बहुत सौभाग्य से मिलती है।

इस सौभाग्य, और इस अवसर का पूरा उपयोग करना है।

ऐसे संकल्प में अपने को भरो,

और शेष प्रभु पर छोड़ दो।

मत्स्य मदा संकल्प के साथ है।

०००

पत्र लिखने में संकोच कभी मत करना।

मेरे पास तुम्हारे लिये बहुत समय है।

उनके ही लिये हूँ, जिनको मेरी जरूरत है।

मेरे जीवन में मेरे लिये अब कुछ भी नहीं है।

०००

श्री माणिकलालजी को मेरा प्रेम।

रजनीश के प्रणाम

२३-११-१९६४

[प्रति : सुश्री सोहन बाफना, पूना]

प्यारी सोहन,

प्रेम । कल रात्रि जब सारे नगर में दिये ही दिये जले हुए थे तो मैं सोच रहा था कि मेरी सोहनने भी दिये जलाये होंगे—और उन दियों में से कुछ तो निश्चय ही मेरे लिए ही होंगे ! और फिर वे दिये मुझे दिखाई देने लगे थे जो कि तूने जलाये थे और वे दिये भी जो कि सदा ही तेरा प्रेम जलाये हुए हैं ।

मैं कल और यहां रहूंगा । सबसे तेरी बातें कही हैं और सभी तुझे देखने को उत्सुक हो गये हैं ।

माणिक बाबू को प्रेम । बच्चों को आशीष ।

रजनीश के प्रणाम

२५-१०-१९६५

[प्रति : सुश्री सोहन बाफना, पूना]

प्यारी सोहन,

... प्रेम। तेरा पत्र मिला है। दूब में उसी जगह बैठा था, जब मिला। उस समय क्या सोच रहा था, वह तो तभी बताऊंगा जब तू मिलेगी? स्मृतियां कितनी सुवास छोड़ जाती हैं!

जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो तो कितना आनंद हो जाता है। जगत् में केवल वे ही दरिद्र हैं जिनके हृदय में प्रेम नहीं है।

और, उनके सौभाग्य का क्या कहना जिनके हृदय में सिवाय प्रेम के और कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। संपदा और शक्ति के ऐसे क्षणों में ही प्रभु का साक्षात् होता है।

मैंने तो प्रेम को ही प्रभु जाना है।

०००

माणिक वावू को मेरा प्रेम पहुंचाना।

रजनीश के प्रणाम
१-६-१९६५ (प्रभात)

प्रिय आनंद भन्नु,

प्रेम । समय पक गया है ।

अबसर रोज निकट आता जाता है ।

अनंत आत्मार्थ विकल है ।

उनके लिए मार्ग बनाना है ।

उनलिए, शीघ्रता करो ।

श्रम करो ।

नमर्षण करो ।

स्वयं को विस्मरण करो

प्रभु के लिए पागल होकर काम में लग जाओ ।

पागल होने से काम में नहीं चलेगा ।

आह! लेकिन, प्रभु के लिए पागल होने से बड़ी कोई प्रज्ञा भी तो नहीं है ।

रजनीश के प्रणाम

२६-११-१९७०

प्रिय कृष्ण चैतन्य,

प्रेम । शक्ति को कब तक सोई रहने देना है ?

स्वयं के विराट से कब तक अपरिचित रहने की डानी है ?

दृविधा में समय न खोओ ।

संशय में अवसर न गंवाओ ।

समय फिर लौट कर नहीं आता है ।

और, खोये अवसरों के लिए कभी-कभी जन्म-जन्म प्रतीक्षा करनी होती है ।

रजनीश के प्रणाम

२६-११-१९७०

[प्रति : स्वामी कृष्ण चैतन्य, विश्वनीड़, संस्कार-तीर्थ, आजोल, गुजरात]

प्रिय योग प्रिया,

प्रेम । संन्यास में संसार अभिनय है ।

संसार को अभिनय जानना ही संन्यास है ।

फिर न कोई छोटा है, न बड़ा—न कोई राम है, न रावण ।

फिर तो जो भी है सब रामलीला है !

जो मिले अभिनय उसे पूरा कर ।

वह अभिनय तू नहीं है ।

और जब तक अभिनय से हमारा तादात्म्य है, तब तक आत्मज्ञान असंभव है ।

और जिन दिन यह तादात्म्य टूटना है उसी दिन से अज्ञान असंभव हो जाता है ।

अभिनय कर और जान कि तू वह नहीं है ।

रजनीश के प्रणाम

२६-११-१९७०

मेरे प्रिय,

प्रेम । प्रभु पल-पल परीक्षा लेता है ।

हंसों—और परीक्षा दो ।

वह परीक्षा-योग्य मानता है, यह भी सौभाग्य है ।

और जल्दी न करो ।

क्योंकि, कुछ मंजिलें जल्दी करने से दूर हो जाती हैं ।

कम-से-कम प्रभु का मंदिर तो निश्चय ही ऐसी मंजिल है ।

वहां त्रय ने चलना ही ज्यादा-से-ज्यादा तीव्रता से चलना है ।

मन डोलेगा—बार-बार डोलेगा ।

वही उसका अस्तित्व है ।

जिस दिन नहीं डोला, उमी दिन उसकी मृत्यु है ।

लेकिन, कर्मी-कर्मी यह सोना भी है ।

उमे ही—निद्रा को ही मन की मृत्यु न समझ लेना ।

कर्मी-कर्मी वह थकता भी है ।

लेकिन, उस थकान को उसकी मृत्यु न समझ लेना ।

विश्राम और निद्रा से तो वह मिर्फ म्वय को पुनः पुनः ताजा भर करता है ।

पर उसकी फिक्र ही छोड़ो ।

उसकी फिक्र ही उसे शक्ति देती है ।

उसे भी प्रभु-समर्पित कर दो ।

प्रभु से कहो : “बुरा-भला जैसा है, अब तुम ही सम्हालो।”

और फिर बस साक्षी बने रहो ।

बस देखने रहो नाटक ।

मन के नाटक को तटस्थ-भाव से देखते-देखते ही उस चेतना में प्रवेश हो जाता है जो कि मन नहीं है ।

रजनीश के प्रणाम

२६-११-१९७०

[प्रति : स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती, साधना-सदन, कनखल, हरिद्वार]

मेरे प्रिय,

प्रेम । प्रेम स्वप्न में भी भेद नहीं करता है ।

और वह प्रेम जो कि प्रार्थना भी है, उसमें तो भेद-भाव का उपाय ही नहीं है ।

'मे' तो अब हूं ही कहां ?

"मैं"—वस एक काम चलाऊ शब्द ही रह गया है ।

और, इसलिए बहुत जगह उसे अकारण ही बाधा भी पड़ने लगी है ।

'मैं' की बदली हट जाने पर जो पीछे वचा है, वह प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ।

प्रेम—अकारण ।

प्रेम—वेशर्त ।

वस कोई लेने को तैयार भर हो— तो मैं तो बाजार में ही खड़ा हूं ।

"कविरा खड़ा बजार में, लिए लुकाठी हाथ ।

जो घर बारै आपना चले हमारे साथ ॥"

रजनीश के प्रणाम

२६-११-१९७०

[प्रति : श्री चंद्रकांत एन० पटेल, आमोनालव, वैक आफ बड़ीदा के सामने, रावपुरा, बड़ीदा, गुजरात]

मेरे प्रिय,

प्रेम । नास्तिकता आस्तिकता की पहली सीढ़ी है ।

और अनिवार्य ।

जिसने नास्तिकता की अग्नि नहीं जानी है, वह आस्तिकता का आलोक भी नहीं जान सकता है ।

और, जिसके प्राणों में 'नहीं' कहने की सामर्थ्य नहीं है, उसकी 'हां' सदा ही निर्वीर्य होती है ।

इसलिए, मैं आपके नास्तिक होने से आनंदित हूँ ।

ऐसा आनंद केवल उसे ही हो सकता है, जिसने आस्तिकता को जाना है ।

वस, इतना ही कहूंगा कि नास्तिकता में और गहरे उतरें ।

ऊपर-ऊपर से काम नहीं चलेगा ।

सोचें ही नहीं—नास्तिकता को जियें भी ।

वैसा जीना ही अंततः आस्तिकता पर ले जाता है ।

नास्तिकता निष्कर्ष नहीं है ।

सिर्फ संदेह है ।

संदेह शुभ है पर अंत नहीं है ।

वस्तुतः तो संदेह श्रद्धा की खोज है ।

चलें—बढ़ें—यात्रा करें ।

संदेह से ही सत्य की यात्रा शुरू होती है ।

और, संदेह साधना है ।

क्योंकि, अंततः संदेह ही निसंदिग्ध सत्य का अनावरण करता है ।

संदेह के बीज में श्रद्धा का वृक्ष छिपा है ।

संदेह को जो बोता है श्रम से, वह निश्चय ही श्रद्धा की फसल काटता है ।

और धर्मों से उचित ही है कि सावधान रहें; क्योंकि उनके अतिरिक्त धर्म के मार्ग में और कोई बाधा नहीं है ।

रजनीशके प्रणाम

२६-११-१९७०]

[प्रति : श्री भवानीसिंह, ग्राम व पोस्ट - त्राहेल, वाया - अहलीलाल, जि०]
कांगरा, हिमाचल प्रदेश]

मेरे प्रिय,

प्रेम । विचारों के प्रवाह में बहना भर नहीं ।

बस जागे रहना ।

जानना स्वयं को पृथक और अन्य ।

दूर और मात्र द्रष्टा ।

जैसे राह पर चलते लोगों की भीड़ को देखते हैं, ऐसे ही विचारों की भीड़ को देखना ।

जैसे पतझड़ में सूखे पत्तों को चारों ओर उड़ते देखते हैं, वैसे ही विचारों के पत्तों को उड़ते देखना ।

न उनके कर्ता बनना ।

न उन उनके भोक्ता ।

फिर शेष सब अपने आप हो जायेगा ।

उम शेष को ही मैं ध्यान (मेडिटेशन) कहता हूँ ।

रजनीश के प्रणाम

२६-११-१९७०

[प्रति : श्री लाभशंकर पाण्ड्या, पाण्ड्या त्रदर्म, ऑप्टीशियन, गांधी रोड, अहमदाबाद, गुजरात]

प्रिय सावित्री,

प्रेम । सुरक्षा है ही नहीं कहीं—सिवाय मृत्यु के ।

जीवन असुरक्षा का ही दूसरा नाम है ।

इस सत्य की पहचान से सुरक्षा की आकांक्षा स्वतः ही विलीन हो जाती है ।

असुरक्षा की स्वीकृति ही असुरक्षा से मुक्ति है ।

०००

मन में दुविधा रहेगी ही ।

क्योंकि, वह मन का स्वभाव है ।

उसे मिटाने की फिक्र छोड़ ।

क्योंकि, वह भी दुविधा ही है ।

दुविधा को रहने दे—अपनी जगह ।

और तू ध्यान में चल ।

तू मन नहीं है ।

इसलिए, मन से क्या बाधा है ?

अंधेरे को रहने दे—अपनी जगह ।

तू तो दिया जला ।

०००

समर्पण क्या सोच-सोच कर करेगी ?

पागल ! समर्पण अनसोची छलाँग है ।

छलाँग लगा या न लगा ।

लेकिन कृपा कर सोच-विचार मत कर ।

रजनीश के प्रणाम

२६-११-१९७०

[प्रति : डॉ० सावित्री सी. पटेल, मोहनलाल डी० प्रसूति-गृह,
प्रो. किल्ला पारडी, जिला - वुलसार, गुजरात]

प्यारी जयति,

प्रेम ।

परमात्मा दूर है; क्योंकि निकट में हमें देखना नहीं आता है ।

अन्यथा, उससे निकट और कोई भी नहीं है ।

वह निकटतम ही नहीं— वरन् निकटता का ही दूसरा नाम है ।

और वह दूसरा नाम भी उनके लिए ही खोजना पड़ा है, जो कि निकट में देख ही नहीं सकते हैं ।

गन्ध, नाम, मिश्रित, शास्त्र, धर्म, दर्शन—सब उन्हीं के लिए खोजने पड़े हैं जो कि केवल दूर ही देख सकते हैं ।

और, इसलिए उनका परमात्मा से कोई भी संबंध नहीं है ।

उनका संबंध केवल "निकट-के-प्रति-जो-अंधे है" वस उनसे ही है ।

इसलिए, मैं कहता हूँ : दूर को छोड़ो—आकाश के स्वर्गों को छोड़ो — भविष्य के मोक्षों को छोड़ो और देखो निकट को—काल में भी, अवकाश में भी—अभी और यहीं—देखो ।

काल के क्षण में देखो ।

अवकाश के कण में देखो ।

काल के क्षण (Time-Moment) में काल मिट जाता है ।

अवकाश के कण (Space Atom) में क्षेत्र मिट जाता है ।

अभी और यहीं (Here and Now) में न समय है, न क्षेत्र है ।

फिर जो शेष रह जाता है, वही है मत्स्य—वही है प्रभु—वही है ।

वही तुम भी हो ।

"नन्वमसि श्वेतकेतु" ।

रजनीश के प्रणाम

२६-११-१९७०

पुनश्च : डा० को प्रेम । दोनों के पत्र मिल गये हैं । चित्र भी मिल गये ।

[प्रति : मुश्री जयति शुक्ल, द्वारा— डा० हेमन्त शुक्ल, काठियावाड, जूनागढ़, गुजरात]

प्यारी कुसुम,

प्रेम ।

सत्य क्या है ?

परिभाषा में जो आ जाता है, कम से कम वह नहीं है ।

इसलिए, परिभाषायें छोड़ो ।

व्याख्यायें छोड़ो ।

व्याख्यायें मन के खेल हैं ।

व्याख्यायें विचार का सृजन हैं ।

और जो है वह मन के पार है ।

जैसे, लहरें झील की शांति से सदा अपरिचित रहती हैं; , ऐसे ही विचार भी अस्तित्व से कभी परिचित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब लहरें होती हैं, तब उनके ही कारण झील शांत नहीं होती है और जब झील शांत होती है, तब उसकी शांति के कारण ही लहरें नहीं होती हैं ।

फिर, जो है, उसे जानना है ।

उसकी व्याख्या उसे जानने से बहुत भिन्न बात है ।

लेकिन, व्याख्या थोखा दे सकती है ।

खेतों में जैसे धोखे के आदमी खड़े रहते हैं, अमली आदमियों के वस्त्र पहनकर; ऐसे ही शब्द सत्यों के धोखे बन जाते हैं ।

सत्य के खोजी को शब्दों से सावधान होने की जरूरत है ।

शब्द सत्य नहीं हैं ।

सत्य शब्द नहीं है ।

सत्य है अनुभूति ।

सत्य है अस्तित्व ।

और उस तक पहुंचने का मार्ग है : नेति, नेति । (न यह, न वह ।)

व्याख्याओं को काटो ।

परिभाषाओं को काटो ।

शास्त्रों को काटो ।

सिद्धान्तों को काटो ।

कहो : नेति, नेति । (Not this, not that.)

फिर स्व-पर को काटो ।

कहो : नेति, नेति ।

और तब-- निपट शून्य ने जो प्रगट होता है, वही सत्य है ।

क्योंकि, वस वही है और जेय सव स्वप्न है ।

कपिल का प्रेम ।

अमंग को आशीष ।

रजनीश के प्रणाम

२६-११-१९७०

[प्रति : मुश्रीं कृमुम, कुधियाता, पंजाब]

प्रिय मधु,

प्रेम । 'कम्यून' की खबर हृदय को पुलकित करती है ।

बीज अंकुरित हो रहा है ।

शीघ्र ही असंख्य आत्मायें उसके वृक्ष तले विश्राम पायेंगी ।

वे लोग जल्दी ही इकट्ठे होंगे—जिनके लिए कि मैं आया हूँ ।

और तू उन सब की आतिथ्य होने वाली है ।

इसलिये, तैयार हो— अर्थात् स्वयं को पूर्णतया शून्य कर ले ।

क्योंकि, वह शून्यता ही आतिथ्य (Host) बन सकती है ।

और तू उस ओर चल पड़ी है —नाचनी, गाती, आनंदमग्न ।

जैसे सरिता सागर की ओर जाती है ।

और मैं खुश हूँ ।

और सदा साथ हूँ ।

मागर निकट है—वस दौड़...और दौड़...और दौड़ !

रजनीश के प्रणाम

१५-१०-१९७०

[प्रति : मा आनंद मधु, संस्कार तीर्थ, आजोल्, गुजरात,]

प्यारी मधु,

प्रेम । संघर्ष का सुभारम्भ है ।

और, उसमें तुझे धक्का देकर मैं अत्यंत आनंदित हूं ।

संन्यास संसार को चुनौती है ।

वह स्वतंत्रता की मौलिक घोषणा है ।

फल-फल स्वतंत्रता में जीना ही संन्यास है ।

अनुरक्षा अब सदा तेरे साथ होगी; लेकिन वहीं जीवनका मत्य है ।

नुरक्षा कहीं है नहीं— सिवाय मृत्यु के ।

जीवन अनुरक्षा है ।

और वही उसकी पुलक है — यही उसका सौंदर्य है ।

नुरक्षा की खोल ही आत्मघात है ।

वह अपने ही हाथों, जीते-जी मरना है ।

ऐसे मुझे चारों ओर हैं !

उन्होंने ही संसार को नरघट बना दिया है ।

उनमें प्रतिष्ठित मुझे भी हैं ।

इन सबको जगाना है, हालांकि वे सब जागे हुआं को भी सुलाने की चेष्टा करते हैं ।

अब तो यह संघर्ष चलता ही रहेगा ।

इसमें ही तेरे संपूर्ण संकल्प का जन्म होगा ।

और मैं देख रहा हूं दूर— उस किनारे को जो कि तेरे संघर्ष की मंति

रजनीश

१४१ / स्वयं को जन्म देने की प्रसव पीड़ा

प्यारे बाबूभाई,

प्रेम । पत्र पाकर आनंदित हूँ ।

आत्मक्रांति का क्षण निकट है ।

उसके पूर्व प्रसव पीड़ा से भी गुजरना पड़ता है ।

स्वयं को जन्म देने से बड़ी कोई पीड़ा नहीं है ।

लेकिन, उसके बाद जीवन का परमानंद भी है ।

इसलिए, प्यास, प्रार्थना और प्रतीक्षा को ही साधना समझें ।

श्रेष्ठ शुभ ।

वहां सबको प्रणाम ।

रजनीश के प्रणाम

२७-३-१९७०

[प्रति : बाबूभाई (अब स्वामी कृष्ण चैतन्य), संस्कारतीर्थ, आजोल, गुजरात]

प्रिय कृष्ण चैतन्य,

प्रेम । तुम्हारे नये जन्म का साक्षी बनकर आनंदित हूँ ।

तुम्हारे कितने जन्मों का प्रयास था !

लेकिन, नाँका ने अब दिशा ले ली है और मैं निश्चित हूँ ।

वचन था मेरा कभी का दिया, वह पूरा कर दिया है ।

अब तुम्हें अपना वचन पूरा करना है ।

देखना अबसर न खोना ।

समय थोड़ा है ।

और मेरा दुवारा मिलना आवश्यक नहीं है ।

नंकल्प को समग्रता से इकट्ठा कर लो ।

पतवार हाथ में लो और अनंत की यात्रा पर निकलो ।

तट पर रहते-रहने कितना काल व्यतीत हो गया है ।

द्वारों अनुकूल हैं ।

मैं जानता हूँ इसीलिए इतने आग्रह से तट से धक्का दिया हूँ ।

प्रभु-कृपा बरस रही है ।

खुलो और उसे स्वयं में द्वार दो ।

नाचो और उसे पियो ।

अमृत के इतने निकट आकर प्यासे तो नहीं रहना है न ?

रजनीश के प्रणाम

१५-१०-१९७०

[प्रति : स्वामी कृष्ण चैतन्य, संस्कार तीर्थ, आजोल, गुजरात]

प्रिय कृष्ण चैतन्य,

प्रेम । तुम्हारा पत्र पाकर आनंदित हूँ ।

शक्ति है तुम्हारे स्वयं के भीतर ।

लेकिन, उसका तुम्हें पता नहीं है ।

इसलिए, तुम्हारी ही शक्ति को तुम्हीं को पाने के लिए भी निमित्त की जरूरत पड़ती है ।

जिस दिन यह जानोगे उस दिन हंसोगे ।

लेकिन तब तक मैं निमित्त का काम करने को राजी हूँ ।

मैं तो हँस ही रहा हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ; जबकि तुम भी इस ब्रह्म-अट्टहास (Cosmic laughter) में सम्मिलित हो सकोगे ।

देखो : कृष्ण हंस रहे हैं, बुद्ध हंस रहे हैं ।

सुनो : पृथ्वी हंस रही है, आकाश हंस रहा है ।

लेकिन, आदमी रो रहा है ।

क्योंकि, उसे पता ही नहीं है कि वह क्या है !

आह ! कैसा मजा है ? कैसा खेल है ?

सम्राट मीन मांग रहा है और मछली सागर में प्यासी है !

रजनीश के प्रणाम

२७-१०-१९७०

[प्रति : स्वामी कृष्ण चैतन्य, संस्कार तीर्थ, आजोल, गुजरात]

प्यारी जसु,

प्रेम । सूर्य को पाने की अभीप्सा है, तो जरूर ही पा सकेगी ।

लेकिन, जलने का साहस चाहिए ।

बिना मिटे प्रकाश नहीं मिलता है ।

क्योंकि, हमारी अस्मिता ही अंधकार है ।

फिर सूर्य बाहर भी तो नहीं है ।

भीतर जब सब जलना है, तभी तो वह जन्मता है ।

स्व का जल उठना ही तो प्रकाश है ।

अंधकार है मिटने का भय ।

आलोक है मिटने के लिये छलांग ।

मिट और जान ।

खो और पा ।

इसीलिए तो मैं प्रेम को प्रार्थना कहता हूँ ।

क्योंकि वह मिटने की प्राथमिक शिक्षा है ।

रमा को प्रेम ।

सबको प्रणाम ।

रजनीश के प्रणाम

११-४-१९७०

[प्रति : कुमारी जगु (अव मा योग प्रेम), राजकोट, संस्कार तीर्थ,
आजोल्ल, गुजरात]

प्रिय योग प्रेम,

प्रेम । तेरा पत्र पाकर आनंदित हूँ ।

प्रेम ही अब तेरे लिए प्रार्थना है ।

प्रेम ही पूजा है ।

प्रेम ही परमात्मा है ।

स्वांस स्वांस में प्रेम हो — वस अब यही तेरी साधना है ।

उठते-वैठते ।

सोते-जागते ।

वस एक ही स्मरण रखना—प्रेम का ।

और फिर तू पायेगी कि प्रभु का मंदिर दूर नहीं है ।

रजनीश के प्रणाम

२५-१०-१९७०

[प्रति : मा योग प्रेम, संस्कार तीर्थ, आजोल, गुजरात]

प्रिय योग प्रिया,

प्रेम । तेरे संन्यास से अत्यंत आनंदित हूँ ।

जिस जीवन में संन्यास के फूल न लगें, वह वृक्ष बांझ है ।

क्योंकि, संन्यास ही परम जीवन-संगीत है ।

संन्यास त्याग नहीं है ।

वरन्, वही जीवन का परम-भोग है ।

निश्चय ही जो हीरे-मोती पा लेता है, उसे कंकड़-पत्थर छूट जाते हैं ।

लेकिन, वह छोड़ना नहीं, छूटना है ।

रजनीश के प्रणाम

१५-१०-१९७०

[प्रति : मा योग प्रिया, संस्कार तीर्थ, आजोला, गुजरात]

प्रिय योग यशा,

प्रेम । नये जन्म पर मेरे शुभाशीष ।

संन्यास नया जन्म है ।

स्वयं में, स्वयं से, स्वयं का ।

वह मृत्यु भी है ।

साधारण नहीं— महामृत्यु ।

उस सब की जो तू कल तक थी ।

और जो तू अब है, वह भी प्रतिपल मरता रहेगा ।

ताकि, नया जन्मे—नया जन्मता ही रहे ।

अब एक पल भी तू तू नहीं रह सकेगी ।

मिटना है प्रतिपल और होना है प्रतिपल ।

यही है साधना ।

नदी की भांति जीना है ।

सरोवर की भांति नहीं ।

सरोवर गृहस्थ है ।

सरिता संन्यासी है ।

रजनीश के प्रणाम

११-११-१९७७

प्रिय प्रेम कृष्ण,

प्रेम । संन्यास की सुगंध को संसार तक पहुंचाना है ।

धर्मों के कारागृहों ने संन्यास के फूल को भी विशाल दीवारों की ओट में कर लिया है ।

इसलिए, अब संन्यासी को कहना है कि मैं किसी धर्म का नहीं हूँ, क्योंकि समस्त धर्म ही मेरे हैं ।

संन्यास को संसार से तोड़कर भी बड़ी मूल हो गई है ।

संसार में टूटा हुआ संन्यास रक्तहीन हो जाता है ।

और संन्यास में टूटा हुआ संसार प्राणहीन ।

इसलिए, दोनों के बीच पुनः सेतु निर्मित करने हैं ।

संन्यास को रक्त देना है, और संसार को आत्मा देना है ।

संन्यास को संसार में लाना है ।

अभय और असंग ।

संसार में और फिर भी बाहर ।

भीड़ में और फिर भी अकेला ।

और संसार को भी संन्यास में ले जाना है ।

अभय और असंग ।

संन्यास में और फिर भी पलायन में नहीं ।

संन्यास में और फिर भी संसार में ।

तब ही वह स्वर्ण-मेतु निर्मित होगा जो कि दृश्य को अदृश्य से और आकार को निराकार में जोड़ देता है ।

लगो इम महत् कार्यं मे ।

वनो मज्जद्वर उम मेतु के निर्माण में ।

रजनीश के प्रणाम

१२-११-१९७०

[प्रति : स्वामी प्रेम कृष्ण, विश्वनीड़, संस्कार तीर्थ, आजोल, गुजरात]

प्रिय आनंदमूर्ति,

प्रेम । फौलाद के बनो — मिट्टी के होने से अब काम नहीं चलेगा ।
संन्यासी होना प्रभु के सैनिक होना है ।

माता-पिता की सेवा करो ।

पहले से भी ज्यादा ।

संन्यासी वेटे का आनंद उन्हें दो ।

लेकिन, झुकना नहीं ।

अपने संकल्प पर दृढ़ रहना ।

इसी में परिवार का गौरव है ।

जो वेटा संन्यास जैसे संकल्प में समर्पित कर ले वह कुल के लिए
कलंक है ।

मैं आश्चर्य हूँ तुम्हारे लिए ।

इसलिए तो तुम्हारे संन्यास का साक्षी बना हूँ ।

हंसों और सब जेठों ।

हंसों और सब मुनों ।

यही साधना है ।

आँधियाँ आयेंगी और चली जायेंगी ।

रजनीश के प्रणाम

१५-१०-१९७०

१५० / संन्यास की आत्मा है : अडिग, अचल और अभय होना

प्रिय योग समाधि,

प्रेम । संन्यास गीरी-शंकर की यात्रा है ।

चढ़ाई में कठिनाइयाँ तो हैं ही ।

लेकिन दृढ़ संकल्प के मीठे फल भी हैं ।

सब यांति और आनंद में डेलना ।

लेकिन संकल्प नहीं छोड़ना ।

मां की सेवा करना पहले मे भी ज्यादा ।

संन्यास दायित्वों से भागने का नाम नहीं है ।

परिवार नहीं छोड़ना है, वरन् सारे संसार को ही परिवार बनाना है ।

मा को भी संन्यास की दिशा में उन्मुख करना ।

कहना उनसे : संसार की ओर बहुत देखा अब प्रभु की ओर आँखें उठाओ ।

और तेरी ओर से उन्हें कोई कष्ट न हो, इसका ध्यान रखना ।

लेकिन उसका अर्थ झुकना या समझीता करना नहीं है ।

संन्यास समझीता जानता ही नहीं है ।

अडिग और अचल और अभय—यही संन्यास की आत्मा है ।

रजनीश के प्रणाम

१५-१०-१९७०

[प्रति : मा योग समाधि, राजकोट, गुजरात]

आचार्य रजनीश-साहित्य

क्र०	पुस्तक	भाषा				मूल्य हिन्दी का
		हिंदी	गुज०	मराठी	अंग्रेजी	
१.	साधना-पथ	हां	हां	हां	हां	३-००
२.	क्रांति-बीज	हां	हां	हां	हां	४-००
३.	सिंहनाद	हां	हां	हां	...	१-२५
४.	मिट्टी के दिये	हां	हां	नहीं	हां	३-५०
५.	पथ के प्रदीप	हां	हां	हां	हां	३-५०
६.	मैं कौन हूँ	हां	हां	नहीं	हां	२-००
७.	अज्ञात की ओर	हां	हां	नहीं	हां	२-००
८.	नये संकेत	हां	हां	नहीं	हां	१-७५
९.	संभोग से समाधि की ओर	हां	हां	नहीं	प्रेस में	३-५०
१०.	अंतर्यात्रा	हां	हां	नहीं	निर्माणरत्	३-५०
११.	शांति की खोज	हां	निर्माणरत्	२-००
१२.	सत्य की खोज	हां	३-००
१३.	अस्वीकृति में उठा हाथ	हां	५-००
१४.	प्रभु की पगडंडियां	हां	निर्माणरत्	४-००
१५.	शून्य की नाव	हां	३-००
१६.	सत्य की पहली किरण	हां	निर्माणरत्	६-००
१७.	समाजवाद से मात्रधान	हां	निर्माणरत्	३-५०
१८.	आचार्य रजनीश : समन्वय- विश्लेषण-संसिद्धि	हां	[आलोचक डा० रामचंद्र प्रसाद]			७-५० (क्रमशः)

पुस्तिकाएं :	हिंदी	गुज०	मराठी	अंग्रेजी	
१९. अमृत-कण	हां	हां	हां	...	०-६०
२०. अहिंसा-दर्शन	हां	हां	...	हां	०-५०
२१. कुछ ज्योतिर्मय क्षण	हां	हां	१-००
२२. नये मनुष्य के जन्म की दिशा	हां	हां	०-७५
२३. सूर्य की ओर उड़ान	हां	हां	१-००
२४. प्रेम के पत्र	हां	हां	हां	हां	०-७५
२५. सत्य के अज्ञान सागर का आमंत्रण	हां	हां	१-५०
२६. नारगोला : युवक युवतियों के समक्ष प्रवचन	...	हां	०-२५
२७. क्रांति के बीच सत्रमे बड़ी दीवार (भारत के साधु-संत)	हां	०-३०
२८. न आंखों देखा, न कानों सुना (गोपनीय गांधी)	हां	०-१५
२९. क्रांति की नयी दिशा, (नारी और क्रांति) नयी ज्ञान	हां	०-३०
३०. व्यस्त जीवन में ईश्वर की प्राप्ति	हां	हां	०-२५
३१. युवक क्रांति	हां	०-३०
३२. युवा और यौन	हां	०-३०
३३. विंगरे फूल	हां	०-३५
३४. संस्कृति के निर्माण में नदयोग	हां	०-३०

(क्रमशः)

प्रेस में पुस्तकें

३५. प्रेम के फूल [छप गई]
३६. प्रेम है द्वार प्रभु का
३७. संभावनाओं की आहट
३८. जिन खोजा तिन पाइयां
३९. मृत्यु के स्वर
४०. मैं मृत्यु सिखाता हूँ
४१. ज्यों की त्यों घर दीन्हीं
 चन्द्रग्या
४२. महारवार और मैं
४३. जीवन ही है परमात्मा
४४. जो घर वारें आपना
४५. क्या है मार्ग ? जान, भक्ति
 या कर्म ?
४६. नमोधि के द्वार पर
४७. योग : नये आयाम
४८. जीवन क्रांति की दिशा (द्विन्दी) प्रकाशक: मस्ता साहित्य, दिल्ली
(आचार्यश्री मे डा० सेठ गोविन्ददान द्वारा
की गई चर्चाओं के नोट्स)

मूल्य २-००

(कमशः)

पुस्तकें जो केवल गुजराती में हैं :

४९.	आचार्य रजनीश : काय मार्ग ? (गुजराती आलोचना)	...	२-००
	आलोचक प्रकाशक : डाह्याभाई नानूभाई नायक, साहित्य संगम, वड़ीदा		
५०.	गांधी मा डोकीयु अने समाजवाद	प्रकाशक : युवक क्रांति दल,	
		बंबई	... ०-३५
५१.	अतीत नी आलोचना अने भावी		
	नु चिंतन	"	... ०-३५
५२.	भ्रान्त समाजवाद : और एक		
	खेतरा	"	... ०-५०
५३.	तरुण विद्रोह	"	... ०-५०
५४.	जीवन अने मृत्यु	"	... १-००
५५.	परमात्मा क्यां छे ?	प्रकाशक : आर० अंबार्गी	
		एण्ड कं० राजकोट	... ०-५०
५६.	समाजवाद थीं मावधान	" ०-५०
५७.	प्रेम, परमात्मा अने परिवार	" ०-५०
५८.	गांधीवादी क्यां छे ?	" ०-५०
५९.	व्यस्त जीवन मां ईश्वर नी खोज	" ०-६०

(क्रमशः)

ENGLISH BOOKS OF ACHARYA RAJNEESH :

Translated from Original Hindi :

	Pages	Price
1. Path to Self Realisation	198	4.00
2. Seeds of Revolutionary Thoughts	232	4.50
3. Philosophy of Non-Violence	34	0.80
4. Who Am I ?	145	3.00
5. Earthen Lamps	247	4.50
6. Wings of Love and Random Thoughts	166	3.50
7. Towards the Unknown	54	1.50

In Press :

8. From Sex to Super Consciousness
9. The Mysteries of Life and Death
10. Journey Inwards
11. Beware of Socialism
12. God : Many Splendoured Love

II Original English Booklets :

13. Meditation : A New Dimension	36	2.00
14. Beyond and Beyond	30	2.00

(Continued)

पुस्तकें जो केवल गुजराती में हैं :

४९.	आचार्य रजनीश : काय मार्ग ? (गुजराती आलोचना)	...	२-००
	आलोचक प्रकाशक : डा. ह्यानाई नानूभाई नायक, साहित्य संगम, बड़ोदा		
५०.	गांधी मा डोकीयु अने समाजवाद	प्रकाशक : युवक क्रांति दल, बंबई	... ०-३५
५१.	अतीत नी आलोचना अने भाषी नू चिंतन ०-३५
५२.	ध्रान्त समाजवाद : ओर एक गतरा ०-५०
५३.	वरुण विद्रोह ०-५०
५४.	जीवन अने मृत्यु १-००
५५.	परमात्मा क्यां छे ?	प्रकाशक : आर० अंबार्णा गण्ड कं० राजकोट	... ०-५०
५६.	समाजवाद थीं नावधान ०-५०
५७.	प्रेम, परमात्मा अने परिवार ०-५०
५८.	गांधीवादी क्यां छे ? ०-५०
५९.	व्यसन जीवन मां ईश्वर नी ग्योज ०-६०

(क्रमशः)

मूल्य : ५९ रुपये

जीवन जागृति केंद्र प्रकाशन

मूल्य : ५० रुपये

जीवन जामृति केंद्र प्रकाशन

मूल्य : ५. रूपये

जीवन जागृति केंद्र प्रकाशन